



रश्मि प्रवाह
हौसले के तरकश में
कोशिश का तीर जिंदा
रखो, हार जाओ चाहे
जिंदगी में सब कुछ,
मगर फिर से जीतने की
उम्मीद जिंदा रखो।

राष्ट्रीय नवीन मेल

डालटनगंज (मेदिनीनगर) एवं रांची से एक साथ प्रकाशित वर्ष-29 अंक-48 पृष्ठ-12, मूल्य ₹ 1.50

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुओ-मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का राज्यव्यापी किया शुभारंभ

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर

व्यवस्था को सरल व सुलभ बना रही राज्य सरकार : हेमंत सोरेन

नवीन मेल संवाददाता रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में शुक्रवार को सुओ-मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया का राज्यव्यापी शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम तथा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी उपस्थित रहे। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाये हैं। सुओ-मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया का शुभारंभ भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा आप सभी जानते हैं कि जमीन खरीद-बिक्री हेतु



निबंधन, दाखिल-खारिज, रसीद कटने से लेकर रजिस्टर पंजी-2 तक की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार ये प्रक्रियाएं आम जनता के लिए काफी जटिल हो जाती हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि हम आम जनता को सरल और सुलभ

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुओ-मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया। इस पारदर्शी प्रक्रिया की शुरुआत होने से ग्रामीण लोगों को बिचलियों से भी मुक्ति मिल सकेगी। जैसे बिचलियां जो ग्रामीणों के बीच सक्रिय रहते हैं उनसे लोगों को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक कार्य योजना तैयार कर रही है जिसमें ओल्ड एज के लोगों को कचहरी का चक्कर न काटना पड़े और उनका सभी कार्य आसानी से सम्पन्न हो सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एवम्, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, राज्य निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन, निदेशक उमाशंकर सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिला एवं प्रखंडस्तरीय अधिकारियों से कहा कि सुओ-मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया पहली बार झारखंड में लागू की जा रही है, हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं। आप सभी अधिकारी शुरुआती 15 से 20 दिनों तक इस प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाये रखें। कहीं कुछ तकनीकी दिक्कतें होने पर विभाग के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा सके।

नवीन मेल संवाददाता

रांची। झारखंड मंत्रालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गयी जिसमें कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद विभागीय सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद ने अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना को रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में स्वीकृति प्रदान कर दी है। बैठक में देवघर जिलाधिकारी कार्यालय के निर्माण के लिए 52,53,10,800 रुपये के प्राकलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। रांची नगर निगम अंतर्गत झिरी में अवस्थित लेगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक तरीके से जैव-खनन, संसाधन पुनर्प्राप्ति एवं जैव उपचार करते हुए भूमि सुधार करने की योजना बनाने के लिए योजना की कुल लागत की राशि रु. 13617.00 लाख (एक सौ छत्तीस करोड़ सत्रह लाख) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। राज्य मंत्रिपरिषद ने झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, >>>शेष पृष्ठ 11 पर

कैबिनेट में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

- झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में स्वीकृति दी गयी।
 - इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम मं. संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
 - केंद्रीय पुलिस संगठन से राज्य के विभिन्न सशस्त्र वाहिनियों के तहत समादेष्टा के गैर संवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा प्राप्त पदाधिकारियों के सेवा शर्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी।
 - आयुधान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नयी दिल्ली द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों का झारखंड वित्त नियमावली के नियम-235 को ध्यान करते हुए नियम-245 के अंतर्गत मनोनयन करते हुए इन एजेंसियों के माध्यम से राज्य के समस्त सुपार लाम्बों को गोल्डन कार्ड निर्गत करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।
 - झारखंड टेक्सटाइल एम्प्ले एवं फूटवियर नीति-2016 की प्रभावी तिथि- 19.09.2022 से नयी नीति अधिसूचित होने तक अथवा दिनांक-18.09.2023 तक जो भी पहले हो तब अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी।
 - झारखंड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2020-21 (अवधि 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2021) तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 (अवधि 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) का वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति दी गयी।
- गिरिडीह जिला अंतर्गत अंचल-डुमरी के मौजा- (1) बालटंडा, (2) करमाटोगरी, (3) समदा, (4) पिराडीह, (5) कोरियाडीह, (6) रामनगर, >>>शेष पृष्ठ 11 पर

न्यूज गैलरी

ईडी अधिकारियों ने चलाया छापामारी अभियान



साहिबगंज। जिले में शंकरगढ़ स्थित रवींद्र पैलेस में मनी लॉन्ड्रिंग एवं अवैध खनन से जुड़ी मामले में ईडी अधिकारियों ने गुरुवार को छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान कई जगहों पर छापामारी की गयी।

पूर्व मंत्री समरेश सिंह का निधन, सीएम हेमंत समेत अन्य ने जताया शोक



रांची। झारखंड के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री व बोकारो के पूर्व विधायक समरेश सिंह का गुरुवार को निधन हो गया। उन्होंने सिटी सेंटर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। शुक्रवार को इन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जायेगी। पेटूक गांव चंदनकियारी में शुक्रवार को सुबह नौ बजे अंतिम संस्कार किया जायेगा। सिंह के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत अन्य ने शोक जताया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने समरेश सिंह के निधन पर शोक जताते हुए टवीट कर कहा कि इनके निधन की खबर से आहत हूँ। इन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जायेगी। वहीं, झारखंड के पूर्व सीएम व वीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने समरेश सिंह के निधन पर टवीट कर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जननेता समरेश सिंह के निधन की दुःखद सूचना से मेन व्यथित है। अपने धारदार आंदोलनों के लिए वह सदैव याद किये जायेंगे। वहीं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने टवीट कर समरेश सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि इनके निधन का दुःखद समाचार मिला। भगवान उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

सीएम से मिले झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्य



रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष काजल यादव ने मुलाकात की। उनके साथ सदस्य उज्वल प्रकाश तिवारी, रुचि और मिनाहाजुल हक भी मिले। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस अवसर पर मंत्री जोबा मांडी भी उपस्थित थीं।

मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की संपत्ति जब्त

पल्स सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर व दो भूखंड जब्त

नवीन मेल संवाददाता रांची। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल व उनके पति अभिषेक झा की 82.77 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के स्वामित्व वाले पल्स सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर व रांची स्थित दो भूखंडों को जब्त किया है। ईडी ने सभी की बाजार मूल्य 82.77 करोड़ आंका है।



मनरेगा घोटाले से अर्जित पैसों की मनी लार्डिंग : ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि झारखंड पुलिस व एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज कई एफआईआर के आधार एजेंसी ने मनरेगा घोटाले में पीएमएलए की जांच शुरू की थी। जांच में यह बात सामने आयी कि मनरेगा घोटाले की अपराध से अर्जित पैसे व कमीशन को पूजा सिंघल व उनके रिश्तेदारों के अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराया गया था। पद का दुरुपयोग कर पूजा सिंघल ने बाद में भी काफी अवैध कमायी की। पूजा सिंघल की यह अवैध कमायी उनके आय से काफी अधिक थी।

पूजा सिंघल ने अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का निवेश अस्पताल निर्माण व अचल संपत्ति की खरीद में किया। झारखंड सरकार को भी भेजी है रिपोर्ट : ईडी ने बताया है कि पद का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएमएलए के सेक्शन 66(2) के तहत झारखंड सरकार को भी रिपोर्ट भेजी गयी है। ईडी के रिपोर्ट पर राज्य सरकार प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत पूजा सिंघल व अन्य पर कार्रवाई कर सकती है। ईडी ने बताया है कि पूजा सिंघल समेत अन्य आरोपियों >>>शेष पृष्ठ 11 पर

जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता की भावना को बढ़ावा देने पर करेगा काम : पीएम मोदी

नयी दिल्ली (एजेंसी)। भारत के विश्व के आर्थिक रूप से शक्तिशाली 20 देशों के समूह जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को साथी देशों का आह्वान किया कि आगामी एक वर्ष में एक समावेशी, महत्वाकांक्षी एवं कार्योंमुखी एजेंडे पर चलते हुए टकराव एवं प्रतिस्पर्धा से मुक्त संरक्षण, सद्भाव और आशा की ज्योति के साथ मानव केंद्रित विकास का प्रतिमान स्थापित करने के प्रयास में वे सहयोग करें। श्री मोदी ने जी-20 में भारत की अध्यक्षता की औपचारिक शुरुआत के मौके पर एक लेख में वैश्विक व्यवस्था को लेकर भारत का दर्शन प्रस्तुत करते हुए यह बात कही। उन्होंने जी-20 की 17 वर्षों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि संगठन के पिछली 17 अध्यक्षताओं के दौरान वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अंतर्राष्ट्रीय



कराधान को तर्कसंगत बनाने और विभिन्न देशों के सिर से कर्ज के बोझ को कम करने समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आये। हम इन उपलब्धियों से लाभान्वित होंगे तथा वहाँ से और आगे की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब, जबकि भारत ने इस महत्वपूर्ण पद को ग्रहण किया है, मैं अपने आपसे यह पूछता हूँ- क्या जी-20 अभी भी और आगे बढ़ सकता है? क्या हम समग्र मानवता के कल्याण के लिए मानसिकता की मूलभूत बदलाव को उत्तेरित कर सकते हैं? मेरा विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हमारी परिस्थितियाँ ही हमारी मानसिकता को आकार देती हैं। पूरे इतिहास के दौरान, मानवता अभाव में रही। हम सीमित संसाधनों के लिए लड़ें, क्योंकि हमारा अस्तित्व दूसरों को उन संसाधनों से वंचित कर देने पर निर्भर था। विभिन्न विचारों, विचारधाराओं और पहचानों के बीच, टकराव और प्रतिस्पर्धा आदर्श बन गये। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से, हम आज भी उसी शून्य-योग की मानसिकता में अटके हुए हैं। हम इसे तब देखते हैं जब विभिन्न देश क्षेत्र या संसाधनों के लिए आपस में लड़ते हैं। हम इसे तब देखते हैं जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को हथियार बनाया जाता है। हम इसे तब देखते हैं जब कुछ लोगों द्वारा टीकों की जमाखोरी की जाती है, भले ही अरबों लोग बीमारियों से असुरक्षित हों। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि टकराव और लालच मानवीय >>>शेष पृष्ठ 11 पर

गुजरात चुनाव : पहले चरण में 89 सीटों पर लगभग 60 प्रतिशत मतदान

2017 में 67.36 प्रतिशत तथा 2012 में 71.46 प्रतिशत हुए थे मतदान

- कृष्णमोहन सिंह नयी दिल्ली। गुजरात विधान सभा के कुल 182 सीटों पर 4.90 करोड़ मतदाताओं वाले चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर एक दिसम्बर को लगभग 60 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि 2017 में पहले चरण में 89 सीटों पर 67.36 प्रतिशत मतदान तथा 2012 में पहले चरण में 89 सीटों पर 71.46 प्रतिशत मतदान हुए थे। मालूम हो कि पहले चरण को चुनाव के लिए नामांकन 14 नवम्बर को हुआ था। दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए मतदान पांच दिसम्बर को है, इसके लिये नामांकन 17 नवम्बर को हुआ था। दूसरे चरण के लिए चुनाव



को हुआ था। दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए मतदान पांच दिसम्बर को है, इसके लिये नामांकन 17 नवम्बर को हुआ था। दूसरे चरण के लिए चुनाव

दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश

रांची। विधायक कैशकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पक्षकारों की मांग पर समय देते हुए दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिये हैं। विधायक कैश कांड मामले को लेकर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से और राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गयी। उनकी इस मांग को अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार दो सप्ताह में अपना शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल कर दें। अगर राज्य सरकार के जवाब पर किसी को प्रति शपथ पत्र दाखिल करना है तो भी वह दो सप्ताह में दाखिल करें।

कुख्यात माओवादी नारायण यादव गिरफ्तार

नवीन मेल संवाददाता मेदिनीनगर। पलामू एसपी चंदन सिन्हा के आदेश पर छत्तरपुर थाना की पुलिस ने कुख्यात माओवादी नारायण यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में छत्तरपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार ने बताया कि कुख्यात माओवादी नारायण यादव पिता बंधु यादव ग्राम -लावादाग, थाना - छत्तरपुर, जिला पलामू विगत कुछ दिनों से ठेकेदार, व्यवसायियों एवं शिक्षकों को फोन के माध्यम से धमकी देकर लेवी वसूल रहा था। जिससे सभी ठेकेदार, व्यवसाय, शिक्षक एवं आमजनों में काफी भय व्याप्त था। बीते दिन 30 नवम्बर को गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छत्तरपुर थाना अन्तर्गत कालापहाड़ स्थित गौरिका जंगल से माओवादी उग्रवादी नारायण यादव को घेर कर पकड़ा गया। कुख्यात माओवादी के पास से धमकी देकर वसूली किये जाने में प्रयोग किये जाने वाले मोबाइल भी बरामद किया है। पलामू पुलिस को कई माह से उग्रवादी नारायण यादव की तलाश थी। नारायण यादव लेवी वसूल किये जाने की घटना को लेकर इसके विरुद्ध पलामू जिला अन्तर्गत छत्तरपुर,

नौडीहा बाजार, हरिहरगंज एवं अन्य थानों में कई काण्ड दर्ज हैं। जिसमें अलग-अलग कांडों में इसकी पत्नी बसंती देवी एवं साला कमलेश यादव को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पूर्व के काण्डों में जमानत पर रिहा होने के पश्चात नारायण यादव अपने नक्सली होने के पुराने प्रभाव का धौंस जमाता था तथा कालापहाड़ के जंगलों में >>>शेष पृष्ठ 11 पर

दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सुविधा शुरू

- आरएनएम नयी दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डिजी यात्रा सुविधा की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के अलावा वाराणसी व बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी डिजी यात्रा सुविधा शुरू की गयी है। इसमें राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर हवाई यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। डिजी यात्रा सुविधा के साथ हवाई अड्डों पर यात्रियों को कागज रहित प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा जांच क्षेत्रों सहित विभिन्न चेक प्वाइंट्स पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्री डेटा को स्वचालित रूप से अपडेट किया जा सकेगा। सेवा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को आधार-आधारित सत्यापन और एक सेल्फ इमेज कैचर का उपयोग करके डिजी यात्रा ऐप पर अपना विवरण दर्ज करना होगा। उसके अगले चरण में बोर्डिंग पास को स्कैन करना होता है और अपने क्रेडेंशियल्स को हवाई अड्डे के साथ साझा किया जाता है। एयरपोर्ट के ई-गेट पर यात्री को पहले बार कोडेट बोर्डिंग



पास को स्कैन करना होगा। उसके बाद ई-गेट पर लगा फेशियल रिक्मिशन सिस्टम यात्री की पहचान और यात्रा दस्तावेज को मान्य करेगा। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद यात्री ई-गेट से एयरपोर्ट में प्रवेश कर सकता है। यात्री को सुरक्षा क्लियर करने और विमान में सवार होने के लिए सामान्य प्रक्रिया का पालन करना होगा। डिजी यात्रा ऐप का बीटा संस्करण 15 अगस्त को लॉन्च किया गया था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करती है। यह देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है। डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित है और यह बोर्डिंग प्रक्रिया को तेज और निर्बाध बनायेगी। इसके अलावा, डिजी यात्रा हवाईअड्डे पर बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यात्री डेटा एयरलाइंस प्रस्थान नियंत्रण प्रणाली के साथ अटैच होगा इससे केवल निर्दिष्ट यात्री ही टर्मिनल में प्रवेश कर सकेंगे। डिजी यात्रा के संचालन के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन को नोडल निकाय बनाया गया है। यह एक गैर-लाभकारी कंपनी है। फाउंडेशन के शेयरधारक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एआई), कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल), बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल), दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल), हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डिआईएएल) और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) हैं।

पूर्व विधायक को राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दी बधाई

हैदरनगर। राजद के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हुसैनाबाद के पूर्व विधायक संजय सिंह यादव को पार्टी के झारखण्ड प्रदेश अध्यक्ष बनाये जाने पर पूरे पलामू सहित राज्य भर के लोगो में खुशी है। इसी संदर्भ उनके पंतुक आवास पर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष बहन उषा देवी ने पहुंच कर उनको बधाई दी है। मौक पर उन्होंने कहा कि राजद गरीब शोषित, अल्पसंख्यक समाज तथा समाजवाद की विचारधारा वाली पार्टी है। केंद्रीय नेतृत्व ने हुसैनाबाद के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना कर हम सब को गर्वान्वित किया है। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक हुसैनाबाद के सबसे लोकप्रिय नेता है उनके नेतृत्व संगठन को और उत्तरोत्तर मजबूती मिलेगी। मौके पर उन्होंने बुरे दिया और मिठाई खिलाकर पूर्व विधायक को बधाई दी। मौके पर धीरेंद्र पटेल, शशिकांत पटेल, धर्मदेव राम, बजरंगी चौधरी समेत कई लोग उपस्थित थे।

फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की हुई शुरुआत

हुसैनाबाद। पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र को विधिवत रूप से फाइलेरिया मुक्त बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को अनुमंडलीय अस्पताल से इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन हुसैनाबाद एसडीओ कमलेश्वर नारायण, प्रखंड प्रमुख राजकुमारी देवी, नगर उपाध्यक्ष ग्यासुद्दीन सिद्दीकी, चिकित्सा प्रभारी, डॉ. दीपक कुमार, एनसीपी नेता मदीप राम, रतन लाल आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद फाइलेरिया की पहली दवा एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने खायी और लोगों से अपील की है कि ये दवा क्षेत्र को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की है। मौके पर प्रखंड प्रमुख राजकुमारी देवी ने कहा कि हम सभी पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता और आम लोगों की जागरूकता से फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य पूरा किया जायेगा। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा प्रभारी डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि इस अभियान के तहत 2 लाख 41 हजार 316 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसकी शुरुआत गुरुवार से की गई है। आंगनवाडी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, उप-स्वास्थ्य केंद्र सहित हुसैनाबाद में कुल 291 बूथ बनाये गये हैं। जिसमें करीब 700 स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावे एक कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया है। इस मौके पर डॉ. पीपुन सिंह, विभूति कुमार, सुनील कुमार, राजमुनी समेत कई लोग मौजूद थे।

असहाय लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है : नूतन देवी

नावा बजार। तोलरा ग्राम निवासी विनय तिवारी जो पुलिस विभाग में पदस्थापित हैं उनकी धर्मपत्नी नूतन देवी विगत 5 वर्षों से लोगों का सेवा करते चली आ रही है। उन्होंने बताया आशुहाय विंचित लोगों को जिसे मदद करने वाला कोई नहीं दिखता ऐसे में हमसे जहां तक मदद हो सके मैं करने के लिए सदैव तैयार हूँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है पहला प्राथमिकता गरीब लोगों के बीच कंबल वितरण का है जिससे ठंड से ओ बच सके और आराम किया है जो लोग कंबल की जरूरत समझें घर पर आकर भी कंबल ले सकते हैं जनता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है मैं यह पुनीत कार्य के लिए सदैव तैयार हूँ आकर कहीं विकास कार्य बाधित हो रहा हो ऐसे कार्यों के लिए भी हमसे जितना हो सके मैं करने के लिए सदैव तैयार हूँ।

प्रखण्ड 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियावन्धन समिति की हुई बैठक

पाटन। प्रखंड 20 सूत्री क्रियावन्धन समिति की मासिक पहली बैठक प्रखंड सभागार में हुई। 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष रामानन्द पांडेय की अध्यक्षता में हुई। बैठक होने के कारण बैठक परिचयात्मक रहा। अधिकांश विभाग के पदाधिकारी उपस्थित नहीं रहे। अनुपस्थित पदाधिकारियों को शो कॉज करने का प्रस्ताव लिया गया। अध्यक्ष रामानन्द पांडेय ने कहा की प्रखण्ड में चल रहे विकास योजनाओं का सिलसिलेवार समीक्षा करते हुये कहा की, जो योजना चयनित है कोडिनेशन बनाकर धरातल पर उतारने की सबका सहयोग जरूरी है। 20 सूत्री की अगली बैठक में पदाधिकारी उपस्थित सुनिश्चित करेंगे तथा योजनाओं से संबंधित जानकारी लेकर आये ताकि योजनाओं की समीक्षा किया जा सके। जनहित से जुड़ी योजनाओं ग्रामीण क्षेत्रों के अतिम ब्यक्ति तक लाभ पहुंचाना 20 सूत्री गठन का उद्देश्य है। बैठक में बीडीओ मनोज तिवारी, सीओ लाल बाबू, उपाध्यक्ष उमाशंकर सिंह, कमलेश कुमार, कभेश पांडेय, सतीश उपाध्याय सदस्यो सहित सीडीपीओ अनिता कुमारी, बीएओ संतोष कुमार, वन पाल पंचम दुबे, अमित चौबे, दीपक तिवारी आदि उपस्थित थे। बैठक में मनरेगा, वित्त आयोग, वन, आंगनवाडी, आदि से संबंधित जानकारी मांगी गई।

एके सिंह कॉलेज में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नवीन मेल संवाददाता

हुसैनाबाद। एके सिंह कॉलेज जपला में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा विश्व एड्स दिवस के अवसर पर पेंटिंग, स्लोगन एवं एड्स पर आधारित जागरूकता नाटक एड्स से सुरक्षा का प्रस्तुतीकरण किया गया। नाटक का उद्देश्य था, आम लोगों के बीच भ्रम और गलत धारणा को दूर करना, साथ ही इसके कारण लक्षण एवं निवारण पर प्रकाश डालना। प्रचार्य सूर्यमणि सिंह ने सभी स्वयंसेवकों को बताया कि कोई भी कार्यक्रम स्वयंसेवकों, छात्र-छात्राओं के प्रतिभा को निखारने का उचित माध्यम है। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के रक्त से दूसरे व्यक्ति के रक्त में संक्रमण से होता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति के इंजेक्शन या



उससे किसी प्रकार की संगति से दूर रहना, साथ ही इसके कारण लक्षण एवं निवारण पर प्रकाश डालना। प्रचार्य सूर्यमणि सिंह ने सभी स्वयंसेवकों को बताया कि कोई भी कार्यक्रम स्वयंसेवकों, छात्र-छात्राओं के प्रतिभा को निखारने का उचित माध्यम है। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के रक्त से दूसरे व्यक्ति के रक्त में संक्रमण से होता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति के इंजेक्शन या

जागरूक करने पर जोर दिया तथा एड्स होने के कारण और निवारण को बताने की बात कही। इस अवसर पर प्रोफेसर आलोक रंजन कुमार ने एड्स पर व्याख्यान देते हुए एड्स के कारण, लक्षण, सावधानी, रोकथाम तथा निवारण पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉ. अजय कुमार सिंह, प्रोफेसर शशि भूषण सिंह, प्रोफेसर डॉ. उपेंद्र कुमार सिंह, प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह, प्रो. राहुल कुमार सिंह सहित अनेक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी शामिल हुए। तथा स्वयंसेवकों में हिमांशु कुमार, शीतल कुमारी, सुप्रिया कुमारी, आरूपी कुमारी, दिव्या कुमारी, नैसी कुमारी, रूबी कुमारी, आर्काना कुमारी, छवि कुमारी, खुशवंत खातून, गुलशन बानो सहित कई स्वयंसेवकों ने भाग लिया और अपनी प्रस्तुति दी।

राष्ट्रीय नवीन मेल

पलामू

डालटनगंज (मेदिनीनगर), शुक्रवार 02 दिसम्बर 2022

प्लेरिया के ओवरडोज दावा खाने से दर्जनों बच्चों बीमार ग्रामीणों ने विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया हंगामा



नवीन मेल संवाददाता विश्रामपुर। नगर परिषद व आंचलिक क्षेत्र में प्लेरिया की दवा खाने से दर्जनों बच्चों की तबियत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर विश्रामपुर सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र लाये। जहां इलाज के बाद बच्चों की तबियत में सुधार हुआ। इस बीच ग्रामीणों ने सीएचसी में जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में प्लेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चलाकर बच्चों को

क्या कहते हैं चिकित्सा प्रभारी

विश्रामपुर सीएचसी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर लिली स्टेलापुर्ति ने कहा की दवा का कोई रिपक्शन नहीं हुआ है। बच्चे खाली पेट दवा खा लिए थे जिसके चलते गैस बना और परेशानी उत्पन्न हुई।

प्लेरिया का दावा खिलाया जा रहा है। इसी के तहत विश्रामपुर नगर परिषद व आंचलिक क्षेत्र में बच्चों को प्लेरिया की दवा खिलाई जा रही है। गुरुवार को झगरूआ मध्य विद्यालय के बच्चों को भी प्लेरिया की दवा खिलाई गई। दवा खाने के आधा घंटे बाद बच्चों के पेट में दर्द होने लगा। बच्चे उल्टी करने लगे। देखते-देखते बच्चों को तबियत काफी बिगाड़ने लगी। बच्चों को विश्रामपुर सीएचसी लाया गया। जहां उनका उपचार हुआ। तब जाकर बच्चों की स्थिति सुधरी। बताया जा रहा है कि बच्चों को ओवर डोज दवा दे दी गई थी। विश्रामपुर नगर परिषद और आंचलिक क्षेत्र के अन्य कई गांवों से भी बच्चों की तबियत बिगड़ी थी। लेकिन उन्हें सीएचसी के बजाय ग्रामीण चिकित्सकों से ही इलाज कराया जा रहा है। इधर सीएचसी के चिकित्सक एम एम प्रसाद ने कहा कि बच्चों को हल्की परेशानी हुई थी। इलाज के बाद बच्चे पूर्ण स्वस्थ हो कर घर चले गये हैं।

यात्री गाड़ी से टकराने वाला चालक को भेजा गया जेल

नवीन मेल संवाददाता

हुसैनाबाद। जपला आरपीएफ पुलिस ने यात्री गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने वाले चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि 11 नवंबर को मोटरसाइकिल चालक ने मोहम्मदगंज और सतबहिनी रेलवे स्टेशन के बीच ऐसी जगह से मोटरसाइकिल पार कर रहा था, जहां कोई रास्ता नहीं था। इस क्रम में मालगाड़ी की चपेट में आकर मोटरसाइकिल दुर्घटना ग्रस्त हो गया। मोटरसाइकिल चालक मौके पर फरार हो गया था। उक्त घटना में किसी जानमाल की क्षति नहीं हुई थी, परंतु मोटरसाइकिल दुर्घटना ग्रस्त हो गया। मोटरसाइकिल चालक मौके पर फरार हो गया था। उक्त घटना में किसी जानमाल की क्षति नहीं हुई थी, परंतु मोटरसाइकिल दुर्घटना ग्रस्त हो गया। मोटरसाइकिल चालक मौके पर फरार हो गया था। उक्त घटना में किसी जानमाल की क्षति नहीं हुई थी, परंतु मोटरसाइकिल दुर्घटना ग्रस्त हो गया। मोटरसाइकिल चालक मौके पर फरार हो गया था। उक्त घटना में किसी जानमाल की क्षति नहीं हुई थी, परंतु मोटरसाइकिल दुर्घटना ग्रस्त हो गया।

संख्या जेएच 14 इ 5344 के चालक

गढ़वा जिला के कांडी थाना अंतर्गत लमारी खुर्द के निवासी रामप्रोत बैठा को रेलवे सुरक्षा बल जपला के निरीक्षक प्रभारी राकेश रंजन के निर्देशानुसार तथा कांडी स्थानीय थाना के सहयोग से रेलवे सुरक्षा बल थाना जपला के उप निरीक्षक निशांत कुमार साथ आरक्षी विजय कुमार सिंह और आरक्षी राकेश कुमार के द्वारा उनके निवास स्थान से पकड़ा गया और दर्ज कांड से संबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही हेतु डाल्टनगंज भेजा गया। मालूम हो कि रेल लाइन को पार करने के लिए हमेशा रेल फाटक या वैध रास्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। अवैध रूप से जहां पर कोई भी मार्ग या रास्ता नहीं बना हो रेल लाइन को पार करना, रेल अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

स्नातक सेमेस्टर 2 का परीक्षा कदाचार मुक्त सम्पन्न

छतरपुर। गुलाबचंद प्रसाद

अग्रवाल कॉलेज में विवि द्वारा आयोजित स्नातक सेमेस्टर-2 का परीक्षा कदाचार मुक्त सम्पन्न हुआ। जिसमें विवि द्वारा चयनित उडनदस्ता प्रो. कामेश्वर कुमार और डॉ. श्यामबिहारी प्रसाद ने निरीक्षण करते हुए कहा कि कोरोना के निर्देश को मानते हुए सभी मापदंडों पर कॉलेज खरा उतरा है। केंद्राध्यक्षक प्रो. जितेंद्र कुमार, परीक्षा नियंत्रण प्रो. अमित कुमार सिंह, सह परीक्षा नियंत्रक प्रो. राजकिशोर लाल ने संयुक्त रूप से सभी परीक्षा विभाग के कर्मा, पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम को कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न होने पर हर्ष व्यक्त किया है।

लोक अभियोजक को सेवा निवृत्ति विदाई दी गई

मेदिनीनगर। पलामू जिला व्यवहार

न्यायालय के लोक अभियोजक महेश प्रसाद के सेवानिवृत्ति उपरांत जिला अभियोजन कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अपर लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने की। इस मौके पर महेश प्रसाद के कार्य की प्रशंसा की गई। मौके पर लोक अभियोजक को पुष्प गुच्छ देकर माल्यार्पण कर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। महेश प्रसाद ने कहा कि पलामू जिले के अधिकताओं के साथ-साथ न्यायिक पदाधिकारी व आम जनमानस का न्यायिक कार्य निष्पादन के सहयोग में भरपूर सहयोग

मिला है। इस मौके पर राजेश शर्मा ने कहा कि वेदांग सेवानिवृत्ति नौकरी का मूल मंत्र है। महेश प्रसाद ने पूरी ईमानदारी के साथ वफादारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। श्री प्रसाद का कार्य अतुलनीय है। सेवानिवृत्ति एक सामान्य प्रक्रिया है। नौकरी में आए हुए व्यक्ति का एक न एक दिन सेवानिवृत्ति होना है। ऐसे की प्रशंसा की गई। मौके पर लोक अभियोजक को पुष्प गुच्छ देकर माल्यार्पण कर व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। महेश प्रसाद ने कहा कि पलामू जिले के अधिकताओं के साथ-साथ न्यायिक पदाधिकारी व आम जनमानस का न्यायिक कार्य निष्पादन के सहयोग में भरपूर सहयोग

के प्रति वफादार रहे हैं। यह हमसे विदा हो रहे हैं। परंतु दिल से जुवा नहीं हो सकते। सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन अपने परिवार और समाज हित में लगाएँगे। इस मौके पर सहायक लोक अभियोजक अनुराग कुमार सिंह ने कहा कि लोक अभियोजक का तीन साल का कार्यकाल काफी यादगार रहा एवं उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जिसका उपयोग पूरे कार्यकाल में हम लोग करेंगे। उनके बताए हुए सिद्धांत और मार्ग पर चलते रहेंगे। इस मौके पर सहायक लोक अभियोजक अनुराग शुक्ला सहायक कृष्णा प्रसाद, पैनाल अधिवक्ता संतोष बबन सिंह एवं अन्य कार्यालय कर्मा उपस्थित थे।

गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का उद्घाटन

नवीन मेल संवाददाता

पांकी। जरही चौक स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रखंड प्रमुख पंचम प्रसाद, पूर्व प्रमुख उर्मिला देवी चिकित्सा पदाधिकारी रियाज अनवर विद्यालय की वार्डन सहित अन्य लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप

प्रज्वलित कर किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रियाज अनवर ने बताया की फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु इस बार तीन दवा सेवन करने का निर्देश चिकित्सा विभाग ने जारी किया है। यह कार्यक्रम 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें सभी लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाना है।

पूर्व मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

GeM Bid No. GEM/2022/B/2757039, दिनांक: 29.11.2022 भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन के लिये तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय क्षमता एवं पर्याप्त अनुभव रखनेवाले स्थायित्व प्रतिकारकों / एजेंसियों/ संवदेकों से 'दू' पैकेट सिस्टम' पर ई-निविदाएं आमंत्रित हैं।

i) कार्य का नाम, स्थान तथा समापन अवधि: गोमो एवं बरकाकाना कोचिंग डिपो से खुलने वाली ट्रेन में गोमो एवं बरकाकाना डिपो में कोच की मशीनीकृत सफाई तथा गोमो, बरकाकाना, बरवाडीह एवं चोपन में टर्न-राउंड / प्लेटफार्म में रिटर्न ट्रेनों की सफाई और गोमो एवं बरकाकाना डिपो के डिपो परिसर की दो (02) वर्षों की अवधि के लिए सफाई का कार्य। कार्य समापन अवधि - 02 वर्ष। ii) कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 2,74,58,666.61 (दो करोड़ चौहत्तर लाख अनाठान हजार छः सौ छियासठ रुपये एवं इकसठ पैसे) मात्र। iii) बयाना राशि: ₹ 2,87,300.00 (दो लाख सत्तासी हजार तीन सौ रुपये) मात्र। iv) ई-निविदा बंद होने की तारीख एवं समय: तारीख 19.12.2022 को 16:00 बजे, ई-निविदा खुलने की तारीख एवं समय: तारीख 19.12.2022 को 16:30 बजे। v) वेबसाइट विवरण: http://gem.gov.in ई-निविदा के तहत मैंने अनुभव प्रस्ताव स्वीकार नहीं की जाएगी।

मंडल यांत्रिक अभियंता (समाई)/धनबाद पीआर/01570/डीएचएन/यांत्रिक/टी/22-23/40

विश्व एड्स दिवस पर निकली जागरूकता रैली



नवीन मेल संवाददाता

हरिहरगंज। हम सबों ने यह ठाना है एड्स को दूर भगाना है.. जैसे विभिन्न स्लोगन के साथ गुरुवार को स्वयंसेवी संस्था मारिया एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से तथा एम पब्लिक स्कूल किशुनपुर छकनबाग के स्कूली बच्चों के द्वारा विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गयी। बच्चों ने हाथ में तखियां लेकर एड्स से बचाव के तरीकों का प्रचार-प्रसार किया। इस दौरान किशुनपुर, शेखविहा, छकनबाग, जगनविहा, कोइरी विहा, संडा, किशुनपुर, मनसारा, चंदेल विहा होते हुए वापस विद्यालय पहुंची। सोसाइटी के

सचिव रूमी नाज नूरी ने कहा कि यह बीमारी दुनिया की घातक बीमारियों में से एक है। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सावधानी बरतकर इस के संक्रमण से बचा जा सकता है। वहीं विद्यालय के अध्यक्ष मो. परवेज आलम ने कहा कि एड्स लाइलाज बीमारी है। बचाओ और सावधानी ही एकमात्र रास्ता है। जागरूकता रैली को सफल बनाने में शिक्षक विवेक मवार, गुंजन सिंह, अमरेंद्र कुमार, उज्ज्वल सिंह, पप्पू कुमार, सचिन कुमार, अनुज कुमार, राकेश कुमार शिक्षिका जागृति कुमारी, प्रिया कुमारी, लक्ष्मी कुमारी सहित विद्यालय के सभी स्कूली बच्चों व शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल थे।

डा. शशिभूषण मेहता ने दो पुलिया का किया शिलान्यास मैं हरेक वादे को पूरा करूंगा : विधायक

नवीन मेल संवाददाता

पांकी। विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने पांकी प्रखंड के दो अलग- अलग जगहों पर पुलिया निर्माण का शिलान्यास किया। सबसे पहले मॉडन पंचायत के अंतर्गत कसेरी नाला में एक पुलिया व पांकी- दुब पथ के सुनेरीबांध में एक पुलिया निर्माण का शिलान्यास किया। पांकी- दुब पथ शिलान्यास कार्यक्रम के बाद डॉ. मेहता ने कहा कि पांकी-दुब पथ के सुनेरीबांध में ये पुलिया का निर्माण सन 1962 ई में हुआ था। उस वक्त इस पुलिया ऊंचाई में था लेकिन सड़क की ऊंचाई बढ़ती गई, जिसके चलते पुलिया नीचे चला गया। लेकिन आज तक पांकी- दुब पथ का पुलिया का किसी जनप्रतिनिधियों ने नहीं



कराया। डॉ. मेहता ने कहा कि जब भी हम ये रास्ते से गुजरते थे, तो यहां के राहगीरों ने एवं ग्रामीणों ने इस पुलिया का निर्माण की मांग हमसे रखे थे। अब यहां इस पुलिया का दूसरी बार निर्माण कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि आज जो हमने दो पुलिया का आधारशिला रखे हैं, यह दोनों पुलिया ग्रामीणों एवं राहगीरों के लिए काफी सहूलियत होगी। इस

मौके पर, प्रोग बचन ठाकुर, संजय चंद्रवंशी, विधायक प्रतिनिधि सुनील गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि सत्य प्रकाश पांडे, जसवंत कुमार चंद्रवंशी, प्रसिद्ध सिंह, सुरेंद्र सिंह, राजदेव मेहता, अखिलेश प्रसाद, राजेंद्र यादव, जय किशोर प्रसाद, कार्तिक कुमार सिंह, जसवंत कुमार महतो सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्यालय मेदिनीनगर नगर निगम			
झापांक	शुद्धि - पत्र	दिनांक	
कार्यालय झापांक 2873 दिनांक 18.11.2022 से आमंत्रित नाली एवं सड़क की निविदा के क्रमांक -11 UDHD/MMC/81/2022-23 एवं 12 UDHD/MMC/82/2022-23 (Construction of road Divider with Plantation pot) योजना के नाम में आंशिक संशोधन निम्न प्रकार की जाती है -			
S.I.	Tender id	पूर्व में निर्गत योजना का नाम	संशोधित योजना का नाम
11	UDHD/MMC/81/2022-23	Construction of RCC road Divider with RCC Plantation pot from Chhaumuhan Chowk in ward no. 23 & 24	Construction of RCC road Divider with RCC Plantation pot from Kachary Chowk to Govt. Bus Stand in ward no. 23 & 24
12	UDHD/MMC/82/2022-23	Construction of RCC road Divider with RCC Plantation pot from Redma Chowk to Forest office in ward no. 23 & 24	Construction of RCC road Divider with RCC Plantation pot from Govt. Bus Stand to Town Thana via. Chhaumuhan in ward no. 23 & 24
शेष निविदा को नियम एवं शर्तें यथावत् रहेगी। जिसका PR No. 282776 है।			
PR283973 (Palamu)22-23*D			
ह0/- नगर आयुक्त मेदिनीनगर नगर निगम			

झारखण्ड सरकार ग्रामीण कार्य विभाग मुख्य अभियंता का कार्यालय 102, द्वितीय तल्ला, अभिरंजन भवन, कचहरी रोड, राँची					
ई-निविदा आमंत्रण सूचना					
ई-निविदा संख्या:- 131/2022-23/RWD/GARHWA		दिनांक :- 30.11.2022			
मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।					
क्र. सं.	आईडेंटिफिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलिप राशि (रुपये में)		कार्य समाप्ति की तिथि
			अंक में	अक्षर में	
1.	RWD/GARHWA/16/2022-23	सोनडीहा से बैलिया होते हुए विलासपुर तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लं- 3.750 कि०मी०)	3,12,75,700.00	तीन करोड़ बारह लाख पचहत्तर हजार सात सौ ०0 मात्र	15 माह
2.	RWD/GARHWA/17/2022-23	अमहर मेन रोड से सोनडीहा तक पथ निर्माण कार्य (लं- 3.100 कि०मी०)	2,87,66,200.00	दो करोड़ सत्तासी लाख छियासठ हजार दो सौ ०0 मात्र	15 माह
3.	RWD/GARHWA/18/2022-23	मुख्य पथ से बेलपाही होते हुए साव टोला तक पथ निर्माण कार्य (लं- 2.300 कि०मी०)	2,34,19,300.00	दो करोड़ चौत्तीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ ०0 मात्र	12 माह
4.	RWD/GARHWA/19/2022-23	मनवाथपुर बजार मुख्य पथ से मनवाथपुर बस्ती दुर्गा मंिर होते हुए टारनशीप मुख्य पथ तक पथ निर्माण कार्य (लं- 1.700 कि०मी०)	1,72,79,500.00	एक करोड़ बहतर लाख उन्नासी हजार पांच सौ ०0 मात्र	12 माह
2. वेबसाइट में निविदा प्रकाशन की तिथि :- 13.12.2022					
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :- 26.12.2022 अपराहन 5.00 बजे तक।					
4. (क) मुख्य अभियंता कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, अभियंत्रण भवन, कचहरी, राँची अथवा (ख) जिला नियंत्रण कक्ष, राँची अथवा (ग) जिला नियंत्रण कक्ष, गढ़वा में से किसी भी कार्यालय में निविदा शुल्क एवं अग्रघन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय:- 27.12.2022 पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 3.30 बजे तक।					
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 28.12.2022 पूर्वाहन 11.30 बजे।					
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड, पिन- 834001					
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं०- 0651-2207818					
8. निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवरिस्थित भारतीय स्टेट बैंक/अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निविदाकार के नाम/अकाउंट से ही निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा के पक्ष में एवं गढ़वा में भुगतान होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।					
विरतुत जानकारी के लिए वेबसाइट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।					
PR.NO.283944 Rural Work Department(22-23):D					

रिश्वतखोरी के मामले में राजस्व कर्मचारी को पांच वर्ष की सजा

भेदिनीनगर। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के स्पेशल जज एटी करणन अमरेश कुमार की अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में दोषी पाते हुए पिपरा अंचल के राजस्व कर्मचारी अवधेश प्रसाद सोनी उर्फ अवधेश सोनी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। वह 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में सूचक केशवर साहू द्वारा एस्पॉर्त भीजिलेश रांची को लिखित शिकायत दर्ज कारवाई गई थी। दर्ज शिकायत में आरोप था कि राजस्व कर्मचारी के द्वारा उसके जमीन के नामांतरण करने के लिए छह हजार रुपये की राशि की मांग की जा रही है। उनका कहना था कि वह गरीब व्यक्ति है तथा रिश्वत का पैसा देने में असमर्थ है। शिकायत के आधार पर 27 अक्टूबर 2015 को आरोपी के विरुद्ध भिजलेश के द्वारा कारवाई करते हुए रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था। मामले में न्यायालय के द्वारा दर्ज प्राथमिकी गवाहों की गवाही के आधार पर अवधेश प्रसाद सोनी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वही 50-50 हजार रुपये का अर्धदंड विधिनि धाराओं में लगाया गया है।

उच्चतम न्यायालय के नोटिस से ओबीसी की उम्मीद जगी

भेदिनीनगर। सर्वोच्च न्यायालय के नोटिस के बाद झारखंड सरकार को अब चेतना चाहिए और अतिबल ट्रिपल टेस्ट की कारवाई पूरा कर सुप्रीम कोर्ट को सौंप कर नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण देकर कराये। उपरोक्त बातें आज सुप्रीम कोर्ट के केन्द्रीय सचिव सतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को नोटिस दिए जाने पर कही। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के सांसद चन्द्र प्रकाश चौधरी ने झारखंड सरकार पर उच्चतम न्यायालय में अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया है। सरकार ने आनन फानन में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ही उच्चतम न्यायालय ने झारखंड सरकार को आदेश दिए थे कि ट्रिपल टेस्ट कायदा ही आगे चुनाव कराए। मगर सरकार ने उच्चतम न्यायालय को झूठ बोलकर गुमराह किया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से पूर्व और पंचायत चुनाव के बाद सरकार से ट्रिपल टेस्ट की कारवाई पूरी करने के लिए लगातार आंदोलन किया। बाबूदर सरकार एक न सुनी अब सरकार को बिना देर किए हनु ओबीसी का एक नगर निकाय चुनाव में आरक्षण देकर सुनिश्चित करे। उसके बाद ही नगर निकाय चुनाव हो। ताकि झारखंड के पिछड़ा आवादी 54 प्रतिशत का हक अधिकार मिल सके।

आज सुप्रीम कोर्ट में अवमानना वाद की सुनवाई

भेदिनीनगर। आज सुप्रीम कोर्ट में हाई स्कूल नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अवमानना वाद की सुनवाई अंतिम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को उपस्थित नहीं करने की आज की सुनवाई में मुख्य सचिव को जवाब देने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। सुनवाई कोर्ट संख्या पांच में न्यायाधीश एमआर शाह और न्यायाधीश सीटी रवि के बेंच में होगी। ज्ञात हो कि नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 अगस्त को अंतिम निर्णय दिया गया था। उसके बाद आयोग के द्वारा नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के जांच का कार्य शुरू किया गया है। जो अभी प्रक्रियाधीन ही है। अवमानना वाद करने वाले सोनी कुमारी के द्वारा आयोग के द्वारा कोर्ट के निर्णय के अनुसार डीवी रिजल्ट नहीं देने के कारण एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए हैं। हाई स्कूल नियुक्ति प्रक्रिया में लगभग 18 हजार पदों में नियुक्ति की जानी है। जिसमें कोर्ट के द्वारा स्टेट मैरिट बनाकर नियुक्ति पूरी करने का फैसला दिया गया है। आज के सुनवाई से हनु अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। इसके साथ ही आज ही पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के मामले में भी सुनवाई किया जाएगा।

वाई आयुक्त ने किया फलेरिया के दवा का वितरण


भेदिनीनगर। वार्ड संख्या 27 के वार्ड आयुक्त कमर यास्मीन ने अपने वार्ड के आंगनबाड़ी में स्थानीय लोगों के बीच फलेरिया के दवा का वितरण किया गया। जिसमें लगभग 60 लोगों को मौके पर ही दवा खिलाया गया। इसके साथ ही बच्चों के पेट के कीड़ों के निदान के लिए भी दवाई दिया गया और खिलाया भी गया। उन्होंने बताया कि ससरकार की योजनाओं के अनुसार सभी लोगों के बीच फलेरिया के दवा का वितरण किया जाना है। जैसे पोलियो टीवी, मलेरिया बीमारी को दूर किया गया है। फलेरिया को भी जड़ से मुक्त किया जाना है। उन्होंने बताया कि गलत खान-पान के कारण बच्चों के पेट में कीड़े हो जा रहे हैं। इससे बच्चों के साथ-साथ बड़े भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सरकार के द्वारा बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी पेट के कीड़ों के निदान के लिए निशुल्क दवाई दिया जा रहा है। सभी लोगों को आंगनबाड़ी के सदस्यों के द्वारा घर पर जाकर दवाई को खिलाया जाना है।

सप्लाई पानी के पाइप का हुआ मरम्मत

भेदिनीनगर। शहर में स्थानीय सदीक चौक के पास सप्लाई पानी के पाइप लीकेज की समस्या होने के कारण सैकड़ों लीटर बह गया। जिसके बाद स्थानीय लोगो ने विभाग को सूचित किया। पाइप इंस्पेक्टर संजय कुमार गुप्ता ने पाइप के निरीक्षण कर लीकेज को ठीक कराया। उन्होंने बताया कि शहर में चार स्थान पर पाइप लीकेज को ठीक किया गया है।

विधायक ने रांची में आरईओ से मिलकर डाल्टनगंज के कई जर्जर सड़क बनवाने की स्वीकृति हासिल की

नवीन मेल संवाददाता भेदिनीनगर। विधायक आलोक चौरसिया बुधवार को रांची में आरईओ के मुख्य अभियन्ता प्रमुख से मुलाकात कर डालटेनगंज क्षेत्र में कई सड़कों का कराया स्वीकृति। डालटेनगंज से सतबरवा ग्राम खानडीह में रोधी रोड से कृष्णा चौधरी के घर होते हुए पुरनाडीह तक पथ निर्माण कार्य। डालटेनगंज से प्रखण्ड - चैनपुर में खरकड़ी पीडब्ल्यूडी पथ से पुल होते हुए वन्दन प्रजापति के घर तक पथ निर्माण कार्य। डालटेनगंज से प्रखण्ड - चैनपुर में सूरज के घर से जय दुबे के घर होते हुए चेड़ाबार मोड़ तक पथ निर्माण कार्य। डालटेनगंज से डालटेनगंज सदर प्रखण्ड भेदिनीनगर में एनएच-75 चियांकी रोड से बैना टाला होते हुए दशगात्र मण्डप से अमरेश यादव के घर तक पथ निर्माण कार्य। डालटेनगंज से चैनपुर, गढ़वा पीडब्ल्यूडी पर जगनारायण महतो के होटल से बनखेत मटखर तक पथ निर्माण कार्य। डालटेनगंज से प्रखण्ड चैनपुर में मेन रोड आईओ गौड से मनोज चैनपुर चौरसिया के घर होते हुए राजबिहारी चौरसिया के घर



होते हुए छपपरदागा सिवाना तक पथ निर्माण कार्य। डालटेनगंज से प्रखण्ड चैनपुर में हरिहर प्रजापति के घर से कुम्हार टोला होते हुए वन्दन तिवारी के घर तक पथ निर्माण कार्य। डालटेनगंज से चैनपुर में पीडब्ल्यूडी रोड लिढकी से केकतुआ होते चैनपुर हुए प्रजापति मुहल्ला होते हुए हरिजन मोहल्ला तक पथ निर्माण कार्य के लिए विधायक को स्वीकृति मिली। इस संबंध में विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि बड़ी मशकत के बाद इन योजना को धरातल पर उतारने में कामयाबी मिली। मुझे विश्वास है जनता को इन सभी सड़क पक्की होने से बड़ी राहत मिलेगी और उनको यह भी एहसास होगा कि उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि विपरीत परिस्थिति में भी कैसे विकास के लिए फ्राइट करता है।

राष्ट्रीय नवीन मेल

राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम का उपायुक्त ने किया उद्घाटन

नवीन मेल संवाददाता भेदिनीनगर। विश्व एड्स दिवस के मौके पर स्थानीय नवाहाता स्थित संत मरियम स्कूल में राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के ऊजावॉन उपायुक्त महोदय, विशिष्ट अतिथि सिविल सर्जन पलामू, डीपीएम पलामू और स्वास्थ्य विभाग के अनेकों अधिकारी मौजूद रहे। स्कूली छात्राओं द्वारा पुष्प चर्चा और स्वागत गान के साथ सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अतिथियों के साथ स्कूल के चैयरमैन अविनाश देव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर अपने संबोधन में सिविल सर्जन विजय सिंह ने कहा कि



फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु हम सभी को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। मौके पर मुख्य अतिथि उपायुक्त पलामू ए देवेंद्र ने कहा कि आप सभी

उक्त मौके पर अपने संबोधन में स्कूल के चैयरमैन अविनाश देव ने कहा कि स्वास्थ्य मनुष्य की उत्तम पूंजी है। स्वास्थ्य का महत्व सबसे पहले है और बाकी सब कुछ इसके बाद में आता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे हम कैसी हवा में सांस लेते हैं। कैसा पानी पीते हैं। कैसा भोजन खाते हैं। किस तरह के लोगों से हम मिलते हैं। और हम कैसा व्यायाम हम करते हैं। उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त विश्व एड्स दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा छात्रों में जागरूकता फैलाई गई। साथ ही उपस्थित सभी छात्रों और शिक्षकों ने सामूहिक प्रयास से ही हम सभी इस गंभीर बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं

खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न



नवीन मेल संवाददाता भेदिनीनगर। पांकी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तरहसी प्रखंड मुख्यालय ब्लॉक परिसर के सभागार में खाद्य आपूर्ति विभाग के समीक्षा बैठक बुलाई गई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के बीच का खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव के मंत्री प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रखण्ड अंचलाधिकारी सह प्रखण्ड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी महोदय तरहसी एवं तरहसी प्रखण्ड के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार समीक्षा बैठक में शामिल रहे। समीक्षा बैठक में मंत्री प्रतिनिधि रुद्र शुक्ला ने कहा कि इस समीक्षा बैठक से तरहसी प्रखण्ड की आम जनता को सीधा

लाभ मिलेगा क्योंकि झारखंड सरकार और खाद्य आपूर्ति मंत्री ने ये ठाना है कि खाद्य आपूर्ति सम्बंधित जन समस्याओं की हर व्यक्ति तक पहुंचाकर खत्म करना है। जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। खाद्य आपूर्ति सम्बंधित मामलों में जो भी व्यक्ति दोसी पायेजाएंगे उसपर विभाग कड़ी कारवाई करेगी। क्योंकि मंत्री ने मुझे प्रतिनिधि आम जनता के लिए बनाया है। जिससे आम जनता को लाभ मिल सके आम जनता मुझ से सीधा संवाद अस्थापित कर सकते हैं। मौके पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से उपस्थित विशेष्वर महता, रौशन पांडेय, हरि नरायन यादव आदि लोग उपस्थित रहे।

घरेलू व कर्मशियल सिलेंडर के दाम यथावत

नवीन मेल संवाददाता भेदिनीनगर। पलामू सहित सभी जगहों में पिछले 6 महीनों से कर्मशियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार कमी की जा रही थी। लेकिन इस बार तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के प्राइस में कटौती नहीं करने का फैसला लिया है। 1 दिसंबर को जारी घरेलू और कर्मशियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। गौरतलब है कि भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने पिछले महीने की 1 तारीख को कर्मशियल एलपीजी गैस सिलेंडर दामों में करीब 116 रूपए तक की भारी कटौती की है। यह लगातार 7वां मौका था जब गैस सिलेंडर के दाम में

कमी की गई थी। उससे पहले अंतिम बार 19 मई को दामों में वृद्धि की गई थी। उसके बाद लगातार हर महीने की पहली तारीख को कटौती की जा रही थी। हालांकि यह कटौती केवल कर्मशियल गैस सिलेंडर के दामों में की गई थी। 14.2 किलो वाला घरेलू रसॉई गैस सिलेंडर का रेट 6 जुलाई 2022 के बाद अब तक स्थिर बना हुआ है। इस बार भी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 14.2 किलो का बिना सॉब्सीडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब भी 6 जुलाई वाले पुराने रेट पर ही मिलेगा। पलामू में गैस एजेंसी के द्वारा घर पर लाकर 1140 रुपये में गैस दिया जा रहा है।

प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा 7 से शुरू

भेदिनीनगर। जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या - 13 प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में 07 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राँची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, देवघर एवं पलामू जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जायेगा। इसकी जानकारी आयोग के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा वेबसाइट पर दी गई। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र गुरुवार से आयोग के अधिकृत वेब साइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। वहीं दो अभ्यर्थियों का जो काजल कुमारी और दमयंती कुमारी का आवेदन रद्द कर दिया गया है। अभ्यर्थी काजल कुमारी के द्वारा अपने आरक्षण कोटि अनुसूचित जनजाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) कोटि में एवं दमयंती के द्वारा अपने आरक्षण कोटि अनुसूचित जनजाति को पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 2) कोटि में संशोधित किया गया था। जिसके कारण दोनों का आवेदन रद्द कर दिया गया है।

जिला उपभोक्ता फोरम ने पांच लाख क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश

नवीन मेल संवाददाता भेदिनीनगर। जिला उपभोक्ता फोरम में पलामू के विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को विद्युत उपभोक्ता को पांच लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि विद्युत उपभोक्ता मुस्तकीम मियां के दामाद खुशींद अंसारी की बिजली कंटेनें से मौत हुई थी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नसरुद्दीन और सदस्य आशा दुबे ने परिवादी मुस्तकीम मियां लेस्लीगंज हरदुआ निवासी के परिवाद में सुनवाई के बाद नौकरी और मुआवजा देने का आश्वासन दिया। किंतु फोरम में परिवाद दावर करने के बावजूद मुआवजा नहीं मिला। अध्यक्ष एवं सदस्य ने मामले की सुनवाई के दौरान डॉक्ट्रि एडिंडेंस पाकर परिवादी मुस्तकीम मियां की पुत्री रोशन खातून एवं उनके बच्चों को पांच

दिया गया। तत्पश्चात 21 मार्च 2019 को संख्या 7 बजे तूफान से 11000 वोल्ट का तार हाउस कनेक्शन के 440 वोल्ट के तार में सट गया, जिससे घर में आग लग गई। यह देख उनका दामाद खुशींद अंसारी स्विच ऑफ करने गया और विद्युत में सटकर मर गया। हालांकि खुशींद को सट्टर अस्पताल में इलाज लिए लाया गया था, किंतु चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के मुस्तकीम मियां लेस्लीगंज हरदुआ पहुंचे और उन्होंने मृतक के पत्नी को यह आदेश पारित किया है। परिवादी मुस्तकीम मियां ने दावर परिवाद में कहा है कि उनके लेस्लीगंज के हरदुआ गांव में 440 वोल्ट का पोल गड़ा हुआ था। जिसमें अमानत पुल निर्माण के क्रम में विद्युत विभाग के द्वारा उक्त पुल से सटे 11000 वोल्ट हाईटेंशन का तार जोड़

लाख मुआवजा देने का आदेश विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कर्नाय अभियंता को दिया। आदेश की तिथि से 6 माह के अंदर भुगतान करने का समय दिया गया है। समय सीमा के भीतर मुआवजा राशि भुगतान नहीं करने पर विपक्षी विद्युत विभाग को 7% सूद सहित राशि देना पड़ेगा। परिवादी ने कहा है कि अमानत पुल बनने के क्रम में जब 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन तार को लगाया जा रहा था, तो ग्रामीणों ने विरोध किया था। किंतु विद्युत विभाग के अधिकारियों ने एक न सुनी और 440 ओल्ट तार पुल से सटे गाड़ दिया था। परिवादी की ओर से अधिवक्ता चंद्रभूषण मिश्रा और विपक्षी की ओर से अधिवक्ता राजेश्वर पांडे ने बहस किया था।

झारखंड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

श्री हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना

माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के 22 जिलों के 226 सूखाग्रस्त प्रखंडों के प्रभावित किसान परिवारों को बड़ी राहत दिया जा रहा है

₹ 3500

आनुयाहिक राहत राशि

सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत

ऑनलाइन आवेदन

<https://msry.jharkhand.gov.in> पर अपने नजदीकी प्रजा केंद्र में

आवेदन शुल्क केवल ₹ 1

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक सूचनाएं एवं दस्तावेज

1. आधार संख्या
2. मोबाइल संख्या
3. आधार संबद्ध बैंक खाता विवरण
4. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद
5. वंशावली (मुखिया/ग्रामप्रधान/राजस्व कर्मचारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत)
6. मतदाता पहचान पत्र (केवल भूमिहीन कृषक मजदूर के लिए)

योजना के प्रमुख प्रावधान

सुखाड़ से प्रभावित निम्न परिवारों को तत्काल राहत हेतु 3,500/- (तीन हजार पाँच सौ) रुपये आनुयाहिक राहत की राशि दी जायेगी :-

(क) सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई (Sowing) नहीं की गई हो, परन्तु पारम्परिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई (Sowing) का कार्य करते रहे हों।

(ख) सुखाड़ से प्रभावित कृषक, जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनकी फसल 33% से अधिक क्षति हुई हो।

(ग) भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ से प्रभावित हुआ हो।

सुखाड़ से अप्रभावित 10 जिलों के 38 प्रखंडों में झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना पूर्ववत् लागू है। इन प्रखंडों के आवेदक किसानों से आवेदन प्राप्त करने हेतु के लिए झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के पोर्टल <https://jfrfy.jharkhand.gov.in> को पुनः चालू किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी / प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी / लैंप्स-पैक्स / निकटतम प्रजा केंद्र से संपर्क करें अथवा किसान कॉल सेंटर 1800 180 151 पर कॉल करें

निवेदक : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास

भवनाथपुर। भवनाथपुर बस्ती के अमवा टोला निवासी अजीत पासवान की 29 वषीय पत्नी सुभिता देवी ने पारिवारिक विवाद में कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या कर लिया। गुरुवार की दोहहर में गढ़वा से शव गांव पहुंचते हुए परिजनों के करुण वीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। आपको बता दें कि बुधवार की शाम में पारिवारिक विवाद में आवेश में आकर सुभिता ने कीटनाशक का सेवन कर लिया था,गंभीर स्थिति में परिजनों ने देर शाम में अस्पताल में इलाज कराने के लिए लेकर पहुंचे,जहां पर तैनात चिकित्सक ने स्थिति गंभीर देखते हुए बिना देर किए ही सदर अस्पताल रेफर कर दिया था,जहां सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई।

मुस्लिम समुदाय ने चंदनी में हुए गौकसी हत्या मामले की निंदा की

भवनाथपुर। प्रखण्ड क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के प्रखण्ड सदर अख्तर अंसारी एवं मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ नागरिक प्यारेमोहम्मद अंसारी बे प्रेस वार्ता कर बीते दिनों खरौंधी थाना क्षेत्र के चंदनी में हुए गौ कसी हत्या पर निंदा किया है भवनाथपुर प्रखण्ड सदर अख्तर अंसारी ने कहा कि चंदनी की गौ कसी की घटना पूरे राज्य को झकझोर दिया है। सभी मुस्लिम समाज के लोग से अनुरोध किया है कि अपने गांव समाज के बैठक बुला कर इस तरह के घटना से परहेज करने की अपील किया है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों से अनुरोध किया है कि प्रशासन को जांच करने में मदद करे ताकि दोषियों को सजा मिले एवं निंदीय नही फसे। प्रशासन स्वतंत्र रूप से जांच कर दोषी को सजा दिला सके। प्रशासन अपने तरीके से सार्वहनीय कार्य कर रही है। वहीं मोहम्मद अंसारी ने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारा समाज बदनाम है। इस बदनामी से बचने के लिए जितने भी प्रतिबंधित चीज है उस पर कदम नही उठाए। आज मुसलमानो का ये नही है कि जो प्रतिबंधित चीज है उसी को खाएंगे तभी हमारा महजब जिंदा रहेगा या समाज जिंदा रहेगा। ऐसी कोई बात नही है। आह्ला ताला ने ये हवाल बनाए है लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आस्था का धर्म है। हम अपने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो भी प्रतिबंधित चीज है उस पर कदम नही उठाए। इस मौके पर मेनुदीन अंसारी, गोपाल मिया, तईयब अंसारी उपस्थीत थे।

45 महिलाओं का बंध्याकरण का हुआ सफल ऑपरेशन

भवनाथपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर में 45 महिलाओं का बंध्याकरण का सफल ऑपरेशन किया गया। अस्पताल के प्रभारी डॉ दिनेश कुमार ने बताया कि अब तक 350 महिलाओं का बंध्याकरण,21 लोगों का हाइड्रोसील तथा कई लोगों का एनएसबी का सफल ऑपरेशन अस्पताल के ऊर्ध्वो के सहयोग से किया जा चुका है। मौके पर प्रभारी के साथ महिला आयुष डॉक्टर नितेश भारती,डॉ निशंक निम्ग,अभिनीत विद्यावास,एमपीडब्लू विद्यानंद प्रजापति,प्रदीप कुमार पाठक,एनएम अगाथा टोप्पो,गुलाब खलखो,उपेंद्र कुमार आदि कर्मियों ने भी सहयोग किये।

नवादा गांव से नवजात शिशु का शव बरामद

गढ़वा । सदर थाना क्षेत्र के नवादा पुल के समीप एक झाड़ी से नवजात शिशु का शव बरामद किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गुरुवार कि सुबह स्थानीय लोगों ने पुल के समीप एक झाड़ी में कपड़ा से लपेटा हुआ एक नवजात शिशु का शव देखा। और उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस नवादा घटनास्थल पहुंचकर नजात बच्चे का शव लेकर पोस्टमार्टम कराया। उधर घटना की सूचना मिलने पर गांव में हलवल मच गया। गांव के लोग वहां पहुंचे और इस घृणित कार्य के लिए दुख व्यक्त किया। उधर आसपास के लोगों में नवजात बच्चे के मिलने पर दिनभर चर्चा का विषय बना रहा है। लोग यह भी चर्चा करते दिखे आखिर इस तरह का घृणित कार्य करते हुए शव को दफनाने की जगह उसे झाड़ी में फेंक दिया।

शराब के नशे में गिरकर युवक घायल

गढ़वा। मेराल थाना क्षेत्र के दुलदुलवा गांव निवासी सुखाड़ी चंद्रवंशी पिता स्व.बिहारी चंद्रवंशी गुरुवार की सुबह शराब के नशे में गिरकर घायल हो गया। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार सुखाड़ी चंद्रवंशी ने सुबह में ही अत्यधिक शराब पी लिया। नशे की हालत में घर के समीप गिर कर बेहोश हो गया। उसके शरीर के कई हिस्से में चोट लगी है। स्वजनों ने आनन फानन में उसे सदर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। सदर अस्पताल में इलाजरत सुखाड़ी चंद्रवंशी की हालत में सुधार हो रहा है।

महिला ने खाया जहर

गढ़वा। गढ़वा थाना क्षेत्र के अननराज नावाडीह गांव निवासी कोलेत्थर कोरवा की पत्नी प्रतिमा देवी ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार प्रतिमा देवी व उसके पति के बीच घरेलू मामले को लेकर झगड़ा हुआ था। इससे गुस्से में आकर प्रतिमा देवी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सदर अस्पताल में इलाजरत प्रतिमा देवी की हालत में सुधार हो रहा है।

खरौंधी के कोन मोड़ ट्रांसफॉर्मर के पास चापाकल खराब, विभाग मौन

नवीन मेल संवाददाता **खरौंधी(गढ़वा)।** बाजार के कोन मोड़ ट्रांसफार्मर के पास चापाकाल पिछले सात माह से खराब है। जिससे स्थानीय दुकानदार, व्यवसाई तथा बाजार में आने वाले राहगीरों को पानी के लिये ध्रर-उधर भटकना पड़ रहा है। फिर भी उन्हें आसानी से पानी नही मिल रहा है। स्थानीय दुकानदार विकास कुमार, जितेंद्र दास, नागेंद्र यादव, अनिल विश्वास, जोगेंद्र साव, राजन जयसवाल, महेंद्र चंद्रवंशी, जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेश जयसवाल आदि ने बताया चापाकल लगभग 7 माह से खराब है। जिससे लोगों को पीने का पानी तथा आवश्यक कार्य हेतु पानी नही मिल पा रहा है। इस छलक को बनवाने के लिए कई बार मुखिया, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख, बीडीओ तथा विभाग के जेईई से बोला गया। पीएचडी विभाग के जेईई से कई बार बोला गया।



लेकिन जेईई खराब चापकल को जल्द बनवाने का आश्वासन ही दे रहे है। हमलोग 7 माह से इंतजार ही कर रहे है। कोई जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारी इसे बनवाने के लिए दिलचस्पी नहीं ली। स्थानीय दुकानदारों ने कहा अगर खराब चापकल को जल्द नही बनवाया गया तो हमलोग बाध्य होकर आंदोलन करेंगे। इस संबंध में पीएचडी विभागके जेई देवेंद्र किसकों ने कहा कि खराब चापाकल की जानकारी लोगों ने दिया है। एक से दो दिन में उक्त चापाकल को बनवा दिया जाएगा।



राष्ट्रीय नवीन मेल

बीआरपी-सीआरपी की बैठक संपन्न, बोले श्रीकांत चौबे

शत-प्रतिशत खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी करें

नवीन मेल संवाददाता

श्री बंशीधर नगर। प्रखंड संसाधन केन्द्र अधौरा में गुरुवार को बीआरपी,सीआरपी की बैठक बीआरपी श्रीकांत चौबे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में श्री चौबे ने विभागीय कार्यों की समीक्षा किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने सभी प्रथनाध्यापकों को एमडीएम का एसएमएस प्रतिदिन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन छात्र-छात्राओं का बैंक खाता नहीं है, उनके माता पिता का बैंक खाता व आधार का समेकन करते हुए बीआरसी में जमा करें। जिससे छात्रवृत्ति व पोशाक की राशि भेजी जा सके। विभागीय निर्देशानुसार सभी छात्र छात्राओं का खाता खोलने का निर्देश दिया गया था.उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी की जाय. उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण कराने



का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी सीआरपी जल्द से जल्द प्रशिक्षण का कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें.उन्होंने कहा कि विद्यालय विकास की राशि से रंग रोगन 15 नवंबर तक करने का निर्देश प्राप्त था, लेकिन अभी तक जो विद्यालय रंग रोगन नहीं किये हैं। वे रंग-रोगन का कार्य शीघ्र दिया गया था.उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत खाता खोलने के किट की राशि भेजी गई है, क्रय समिति का गठन करते हुये छात्र छात्राओं किट उपलब्ध

मुख्यमंत्री सूखा राहत के रजिस्ट्रेशन के लिए लिया जा रहा है अवैध राशि

नवीन मेल संवाददाता

खरौंधी(गढ़वा)। प्रखंड में सीएसपी संचालक द्वारा किसानों से मुख्यमंत्री सूखा राहत के लिए रजिस्ट्रेशन तथा केवाईसी में अवैध पैसे लिए जाने की सूचना पर 20 सूत्री अध्यक्ष राजेश कुमार रजक ने नाराजगी व्यक्त किया है। 20 सूत्री अध्यक्ष राजेश कुमार रजक ने कहा प्रखंड में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री सूखा राहत के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन तथा केवाईसी किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन तथा केवाईसी के लिए प्रखंड के सभी सीएसपी संचालक को जिम्मेवारी दी गई है। प्रखंड के सीएसपी केंद्र संचालक द्वारा किसानों के रजिस्ट्रेशन तथा केवाईसी में 50 रूपए से लेकर 100 रूपए तक पैसा लिया जा रहा है। प्रखंड के किसान हमारे पास लगानार शिकायत कर रहे हैं। जबकि किसानों का निशुल्क रजिस्ट्रेशन व केवाईसी करना है। इसके बावजूद भी सीएसपी केंद्र संचालक किसानों से पैसा

मुख्यमंत्री सूखा राहत के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन तथा केवाईसी में एक पैसा नहीं लेना है। अगर कोई सीएसपी संचालक पैसा लिया है तो उसकी जांच कर उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला कार्यालय को लिखेंगे।

गणेश महतो, बीडीओ, खरौंधी

ले रहे है। जो सراسर गलत है। जितने भी सीएसपी केंद्र संचालक किसानों से पैसा लिए है। दो दिनों के अंदर पैसा वापस करें वरना उनकी कोड को लॉक कराते हुए। उनके विरुद्ध एफआइआर तक कराई जायेगी। वही विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद यादव ने बताया बुधवार को प्रखंड के कई सीएसपी केंद्र का निरीक्षण किया था। जिसमें किसानों बताया सीएसपी संचालक रजिस्ट्रेशन तथा केवाईसी में प्रति किसान 50 ले रहे हैं। ये बिलकुल गलत है। जल्द किसानों का पैसा वापस कराने के लिए पदाधिकारी से मिलेंगे।

विश्व एड्स दिवस पर जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में निकाली गयी जागरूकता रैली

► एड्स ऐसी बीमारी है

जिसका इलाज अभी तक नहीं : सिविल सर्जन

► एचआईवी को जागरूकता के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है

नवीन मेल संवाददाता

गढ़वा। विश्व एड्स दिवस पर जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर से जागरूकता रैली निकाला गया। रैली की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि मौके पर एड्स ऐसी बीमारी है। जिसका इलाज अभी तक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में एचआईवी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। जिस पर रोक लगाने के लिए

आरोग्य हॉस्पिटल ने निकाली रैली

गढ़वा । विश्व एड्स दिवस पर आरोग्य हॉस्पिटल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उस दौरान कॉलेज के विभिन्न फैकल्टी के छात्रों ने हाथ में तख्ती लिए आरोग्य कॉलेज से सदर अस्पताल तक रैली की शक्ति पहुंचे। मौके पर कॉलेज के निदेशक दीपक पांडे ने कहा कि आज एचआईवी देश में लोगों लिए खतरा बन गया है और उसी बचने के लिए जागरूकता के एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा कि असुरक्षित संबंध बनाने से लगातार एड्स के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यह सबसे ज्यादा महानगरों में है आज या धीरे-धीरे छोटे शहर एवं ग्रामीण शहरों तक पहुंचा रहा है और इसका मुख्य कारण महानगरों से जुड़ा हुआ है मौके पर नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य मुनमुन तिर्की पीप्यूरा राज सहित स्कूल के शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे।

लगातार सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एचआईवी को जागरूकता के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एचआईवी के मरीज काफी कमजोर हो जाते हैं और धीरे-धीरे विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है उन्होंने कहा कि आज कई एचआईवी

के मरीज अपने हौसले को मजबूत रखे हैं और भी सरकार के गण लाइन के अनुरूप दवा भी ले रहे हैं। मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक अवधेश कुमार सिंह, डीपीएम प्रवीण कुमार सिंह, विमलेशा कुमार, सुबोध कुमार सिंह, पीयूष तिवारी सहित बड़ी संख्या में आरोग्य कॉलेज के छात्र उपस्थित थे।

फर्जीवाड़ा कर लाखों रुपये सरकारी राशि निकारी का मामला बगैर काम करे ही 1.95 लाख की निकासी

नवीन मेल संवाददाता

भवनाथपुर। प्रखण्ड क्षेत्र के अरसली उतरी पंचायत में मनरेगा योजना में फर्जी वाडा कर लाखो रुपये सरकारी राशि निकासी कर लिए जाने की मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार 2020-21 के तहत अरसली उतरी के खाता 150 प्लॉट 1351 में लाभुक अख्तर अंसारी का दो योजना एवं मुख्तार अंसारी का एक योजना 10.98 लाख रुपये आवॉटित किया गया था। जिस में बैगर काम कराए ही पदाधिकारियों के मिली भगत से 1 लाख 95 हजार की निकासी मजदूर के खाता के माध्यम कर ली गई। अख्तर अंसारी के पहला योजना से 66 हजार एवं दूसरे से 65 हजार की निकासी हुई है वहीं मुख्तार अंसारी के योजना से 64 हजार की निकासी की गई है। जब की योजना स्थल पर योजना की



बोर्ड को छोड़ कर न तो किसी तरह का चेराया है नही एक भी पेड़ है किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है।

लोकपाल भी योजना पर उठा चुके हैं सवाल: योजना के सुकुर होने पर जेसीबी उपयोग करने के शिकायत पर जांच करने पहुंचे तत्कालीन मनरेगा लोकपाल स्थल जांच करने के दौरान गलत जगह योजना सुकुर होने पर कर्मियों को फटकार लगाया था। वहीं जिला

गढ़वा

डालटनगंज(मेदिनीनगर), शुक्रवार 02 दिसम्बर 2022

04

टीबी मरीज को सहायता देना गर्व की बात : डॉ. कृष्ण कुमार

नवीन मेल संवाददाता

गढ़वा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मरीजों को गोद लेकर अपने खर्च से उन्हें अतिरिक्त पोषक आहार प्रदान करने को लेकर कई लोग आगे आ रहे हैं। खासकर, स्वास्थ्य विभाग के लोग इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही अन्य लोगों को भी इस अभियान से जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। गुरुवार को जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डा.कृष्ण कुमार ने एमडीआर टीबी मरीज को गोद लेकर उसे पोषक आहार का फूड बास्केट प्रदान किया। मौके पर डा.कृष्ण कुमार ने कहा कि दवा चलने तक उक्त मरीज को प्रतिमाह फूड बास्केट देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के टीबी मुक्त भारत अभियान से जुड़कर मरीज की सहायता का मौका मिलना भरे लिए यह गर्व की बात है। बताते चलें कि यक्ष्मा प्रभाग गढ़वा के एसडीपीएस जितेंद्र कुमार व एसटीएलएस

► जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी ने टीबी मरीज को पोषक आहार का फूड बास्केट प्रदान किया

► टीबी मरीजों को गोद लेकर अपने खर्च से पोषक आहार प्रदान कर रहे कई लोग

मो.सलीम अंसारी तथा मझिआंव सीएचसी के तहत एचडब्ल्यूसी में कार्यरत सीएचओ मदन तनांग ने भी एक-एक टीबी मरीज को गोद लेकर फूड बास्केट प्रदान किया। मौके पर यक्ष्मा प्रभाग के डीपीसी डा.पुरुषेश्वर मिश्र, लेखापाल निशांत कुमार सिन्हा, लिपिक रौशन कुमार, पीपीएम नुरुल्लाह अंसारी, जितेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे।

आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए लगे पिलर को किया क्षतिग्रस्त, कार्रवाई करने की मांग

नवीन मेल संवाददाता

डंडई। सदर पंचायत के बेला झगड़ा गांव स्थित गयाडीह टोला पर बनाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र में खड़े किए गए कई पिलर को बीती रात्रि तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उक्त कारण आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य फिलहाल अथर में लटक गया है। वही मामले की नामजद शिकायत कर सेविका के पति इलियास अंसारी ने इसकी जानकारी सीओ को दिया है। सीओ को दिए आवेदन में लिखा है कि पड़ोस के लोगों के द्वारा कुछ दिन पहले निर्मित भवन को क्षतिग्रस्त करने की घमकी दी गई थी। उन्हीं लोगों के द्वारा निर्माण कार्य के लिए खड़े किए गए पिलर को बीती रात्रि तोड़ने का काम किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए

सीओ की उपस्थिति में सीमांकन कार्य के दौरान ही गांव के अमीर उद्दीन अंसारी व उसके परिजनों के द्वारा उस पर आपत्ति जावाकर खूब विरोध किया गया था। इस बीच उनके द्वारा सीओ से मांग किया गया था कि मेरे गांव में महज 3 डिंसमिल जमीन ही गैरमजरूआ जमीन नहीं है बल्कि गांव में 3 से 4 एकड़ जमीन गैरमजरूआ पड़ा हुआ है। बावजूद वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए सीमांकन न कर सिर्फ मेरे घर के दरवाजे के सामने ही किया जा रहा है जो समझ से परे है। साथ ही कहा था कि यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हो जाने से पूरी तरह मेरा घर का दरवाजा बंद हो जाएगा। तत्पश्चात अमीरुद्दीन की बातों को अहमियत न देते हुए सीओ के द्वारा उसके

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा						
ई- अति अत्यकालीन निविदा आमंत्रण सूचना						
ई-निविदा संख्या- 08/2022-23/RWD/CHATRA			दिनांक- 30.11.2022			
कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट (DMFT) अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।						
क्र. सं.	आईडेंटिफिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राबलित राशि (रुपये में)		कार्य समाप्ति की अवधि	
			अंक में	अक्षर में		
1.	RWD/CHATRA/2022-23	बार्ड सं.-01 में पोस्ट ऑफिस से कब्रिस्तान तक भाया मजिस्ट्रेट कॉलोनी तक कालीकूत पथ एवं नाली निर्माण कार्य	96,98,400.00		छियानवंश लाख अचनान्दे हजार चार सौ	06 माह
2.	वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि :-	08.12.2022				
3.	ई- निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :-	14.12.2022 अपराहन 5.00 बजे तक।				
4.	(1) जिला नियंत्रण कक्ष, चतरा, (2) अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, हजारीबाग एवं (3) मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची में निविदा शुल्क, अग्रधान की राशि, शपथ-पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी दरतावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि एवं समय :-	15.12.2022 पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 3.30 बजे तक।				
5.	ई- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :-	16.12.2022 पूर्वाहन 11.30 बजे।				
6.	ई- निविदा आमंत्रित करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पता --	कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा, द्वितीय तल, विकास भवन, चतरा।				
7.	ई- निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष संख्या :-	8084225903				
8.	ई- निविदा शुल्क झारखण्ड राज्य में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक /अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निविदाकार के नाम/ एकाउन्ट से ही निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा के पक्ष में एवं चतरा में मुगतेय होगा, जो लाटया नहीं जायेगा।'					
9.	UCAN Registration की Photocopy Upload करना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट	www.jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।				
	कार्यपालक अभियंता,	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चतरा।				
	PR.NO.283897 Rural Work Department(22-23):D					

कार्यालय

नगर परिषद, लोहरदगा

सूचना

दिनांक 10.10.2022 को नगर परिषद, लोहरदगा द्वारा आमंत्रित **Scrap** संबंधी खुली डाक में श्री अमित उज्जवल, पिता श्री मुनेश्वर प्रसाद, पता नाथुन लेन, महेन्दु, पटना, बिहार 800006 द्वारा प्रथम उच्चतम (**H1**) डाकवक्त होने के कारण कार्यालय पत्रांक 1570, दिनांक 14.10.2022 द्वारा **Scrap** उठावा हेतु कार्यदेश निर्गत किया गया है जिसके अनुसार 07 दिनों के अन्दर अग्रिम राशि का भुगतान करते हुए **Scrap** का उठाव किया जाना अनिवार्य है। कार्यदेश निर्गत होने के लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी डाकवक्ता द्वारा निर्गत कार्यदेश में अंकित शर्तों/निर्देश का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1715, दिनांक 10.11.2022 एवं पत्रांक 1755, दिनांक 18.11.2022 द्वारा श्री अमित उज्जवल को निर्बंधित डाक द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया है जो तामिला नहीं होने के कारण डाक विभाग द्वारा निकाय को वापस कर दिया गया है।

अत: समाचार पत्र के माध्यम से श्री अमित उज्जवल, पिता श्री मुनेश्वर प्रसाद, पता नाथुन लेन, महेन्दु, पटना, बिहार 800006 को अंतिम नोटिस निर्गत करते हुए निदेश दिया जाता है कि 07 (सात) दिनों के अन्दर **Scrap** उठावा हेतु निर्गत कार्यदेश में अंकित शर्तों/ निदेश का अक्षरश: अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर आपके द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि जप्त कर ली जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी आपकी होगी। 07 (सात) दिनों के पश्चात निकाय पुन: खुली डाक आमंत्रित करने हेतु स्वतंत्र होगी और आपका कोई दावा-दावी मान्य नहीं होगा।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, लोहरदगा



डीएमओ ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण

बरवाडीह। जिला मलेरिया पदाधिकारी एसएन चौधरी ने गुरुवार को 15 दिवसीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत होने के बाद प्रखंड के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर किया। जिला मलेरिया पदाधिकारी एसएन चौधरी, प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉ आशीष रंजन ने फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रखंड के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का बारी-बारी से भ्रमण कर निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में डीएमओ ने प्रखंड के आदर्श नाम स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय पहुंचकर कार्यक्रम में लोगों को फाइलेरिया उन्मूलन के लिए खिलाए जानेवाली दवाओं की जानकारी ली। इसके बाद डीएमओ ने चिकित्सा प्रभारी के साथ गढ़वाटाड़ आंगनबाड़ केंद्र में चलाए जा रहे शिविर का निरीक्षण किया। इसके बाद डीएमओ ने प्रखंड के अन्य सभी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिनियुक्त आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य कर्मी व पंचायत के स्वास्थ्य कर्मी सुपरवाइजर उपस्थित थे।

अंतर जिला फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल की प्रक्रिया दो दिसंबर से

महुआडांड। इस बार सत्र 2022-23 में अंतर जिला फुटबॉल टूर्नामेंट क्लस्टर लेवल में कराए जा रहें हैं, क्लस्टर चाईबासा में लातेहार जिला का मैच 6 दिसंबर को खुटी जिला के साथ खेला जाएगा, चाईबासा में पश्चिम सिंहभूम, लातेहार तथा खुटी जिला का मैच आयोजित कि जा रही है, और इन तीनों टीमों में से जो विजेता टीम होगी। वह अंतर जिला फुटबॉल टूर्नामेंट के सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। इसे लेकर लातेहार जिला फुटबॉल संघ के सचिव अनवर खान ने बताया लातेहार के महुआडांड प्रखंड स्टेडियम मैदान एवं बालुमाथ में हाई स्कूल मैदान और बरवाडीह के रेलवे खेल मैदान में दो दिसंबर से जिला स्तरीय फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन ट्रायल की प्रक्रिया आरंभ हो गई। जहां जिला भर के फुटबॉल खिलाड़ी, जिला फुटबॉल संघ सहायक सचिव वसीम अख्तर मोबाइल नं 7366938841, कोषाध्यक्ष तबरेज खान 7070329157 एवं बरवाडीह में संयुक्त उपाध्यक्ष काजमी अनवर और अशफाक अहमद 6200155852 एवं बालुमाथ में संयुक्त सचिव प्रेम गुप्ता, राजकिशोर पासवान 74004109025 मोबाइल नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं, 5 दिसंबर को बरवाडीह से टीम चाईबासा के लिए रवाना होगी।

झारखंड कॉलियरी मजदूर संघ के बैनर तले विस्थापितों ने की बैठक

बालुमाथ। प्रखंड अंतर्गत संचालित एशिया के बड़े कोलाबारीयों में एक मगध कोल माइंस के 15 नंबर कांटा के पास झारखंड कॉलियरी मजदूर यूनियन संघ के बैनर तले यूनियन के संयुक्त सचिव विजय कुमार साव के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य रूप से मगध कोल माइंस खुलने के बाद रैयतों विस्थापितों से सीसीएल द्वारा किए गए वादों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। जिसमें पुनर्वास रैयतों को नौकरी मुआवजा धूल गर्दा से निजात अस्पताल स्कूल क्षेत्र की विकास करने की वादा किया गया था जो अब तक पूरा नहीं होने पर रगानीति बनी। जिसमें यूनियन के बैनर तले विस्थापित रैयतों ने 10 सूत्री मांगों को पुनः रखा जिसमें पुनर्वास नौकरी मुआवजा रोजगार क्षेत्र का विकास धूल गर्दा से निजात आदि शामिल हैं। बैठक में यूनियन के लोगों ने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में मगध के पूरी कार्य को ट्रांसपोर्टिंग, कोयला उत्पादन जैसे सभी काम को टाप कर देंगे। इस दौरान लोगों ने झारखंड कोलाबारी मजदूर यूनियन जिंदाबाद सहित कई नारे लगाए। बैठक में लामाग एक सौ लोग मौजूद थे।

सविधान सप्ताह पर विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन

चतरा। राष्ट्रीयधिक सेवा प्राधिकार दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं सचिव प्रज्ञा बाजपाई के निदेशानुसार गुरुवार को जिले के सभी प्रखंडों में सविधान सप्ताह पर जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें भारतीय सविधान की महत्ता एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में आम लोगों को जानकारी दी गई। सिमरिया प्रखंड में सुबोध कुमार मिश्र एवं उमेश प्रसाद ने सभी सविधान के महामुद्रणों के चित्रों पर पुष्प चढ़ा कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से भारतीय सविधान के विशेषताओं के बारे में बताया गया। कान्हाचट्टी प्रखंड में पीएलवी पिट्टू रविदास, अशोक कुमार यादव एवं अरविंद कुमार दास ने प्रदर्शनी आयोजित की। उपरोक्त प्रदर्शनी में प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास महतो, शिक्षक, बच्चे एवं आम जनता शामिल थे। अन्य प्रखंडों में भी प्राधिकार के तत्वावधान में सविधान सप्ता पर जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन कर आम लोगों को सविधान के प्रति जागरूक किया गया। प्रदर्शनी में सविधान जागरूकता को लेकर लिखे तखती लगाए गए थे।



कुंदा में खुले आसमान के नीचे स्कूली बच्चों का बनता है भोजन

नवीन मेल संवाददाता कुन्दा(चतरा)। स्कूल शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति व पोषण की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। वहीं कुंदा प्रखंड क्षेत्र के बौधाडीह पंचायत अंतर्गत आशोदरी स्कूल मे मेन्यू से हटकर खुले आसमान के नीचे मध्याह्न भोजन पकया जाता है हरोसोइया बताती है की गर्मी की चिलचिलाती धूप हो कि आषाढ़ सावन महौने के झामरम बारिश या फिर कड़किके की ठंड उन्हें इसी तरह भोजन बनाना पड़ता है जबकि विद्यालय में चारदिवारी का भी अभाव है। इसे विभागीय उदासीनता कहा जाए या शिक्षक की लापरवाही। क्योंकि कि विद्यालय भवन के साथ साथ विद्यालय सेट का होना अनिवार्य है। वही जब सम्बंधित विद्यालय के



सचिव बसंत यादव से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया की इस विद्यालय में किचन सेट बना ही नहीं है इसलिए हम लोग खुले आसमान में खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। जब उड़ते हुए धुंवे के साथ लकड़ी से भोजन पकाए जाने के बारे मे जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि गैस महंगा होने के कारण मध्याह्न भोजन लकड़ी से ही पकाया जाता है।

बरवाडीह में 15 दिवसीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत, बोले बीडीओ

दवा ही बीमारी से बचाव का एकमात्र उपाय



नवीन मेल संवाददाता बरवाडीह/लातेहार। बरवाडीह प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सोमवार को एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाली फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। जिसका उद्घाटन बीडीओ राकेश सहाय, प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी, जिप सदस्य संतोषी शेखर, 20सूत्री अध्यक्ष नसीम अंसारी, विधायक प्रतिनिधि प्रेम कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि कन्हई प्रसाद, चिकित्सा प्रभारी डॉ आशीष रंजन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय ने कहा कि जिस तरह हम लोगों ने पोलियो की दवा से पोलियो बीमारी को जड़ से खत्म किया है। उसी प्रकार फाइलेरिया की दवा से भी फाइलेरिया का उन्मूलन करना है। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया की दवा ही बीमारी से

फाइलेरिया बीमारी से बचाव के लिए दी जाने वाली दवाओं की जानकारी दी

चिकित्सा प्रभारी डॉ आशीष रंजन ने फाइलेरिया बीमारी से बचाव हेतु दिए जाने वाली दवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान घर-घर जाकर दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को छोड़कर सभी लोगों को डीईसी, एल्बेडाजोल व इवर्मैक्टिन की गोतियां खिलाई जायेंगी। उन्होंने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। चिकित्सा प्रभारी ने कहा कि कार्यक्रम इस कार्यक्रम की शुरुआत आज प्रखंड के उन्हें उप स्वास्थ्य केंद्रों से किया जा रहा है इसके उपरांत स्वास्थ्य कर्मियों घर-घर जाकर लोगों को फाइलेरिया उन्मूलन की दवा खिलाकर खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रखंड में 120526 लोगों को फाइलेरिया उन्मूलन का दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें सभी स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य सहाय समेत 14 सुपर वाइजर को प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ही उपस्थित लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुखिया कालो देवी, सुपरवाइजर युवराज विक्रम सिंह सभी स्वास्थ्य कर्मी समेत काफी संख्या में गणमान्य व अन्य लोग उपस्थित थे।

एकमात्र बचाव का उपाय है ऐसे में हम सभी को आवश्यक रूप से फाइलेरिया का दवा खाने की जरूरत है। 20 सूत्री अध्यक्ष नसीम अंसारी ने कहा कि 15 दिवसीय इस कार्यक्रम का का जोर शोर से प्रचार-प्रसार कर सभी लोगों को इस बीमारी को जड़ से भगाने के लिए दवा खिलाने की जरूरत है।

8 घंटे में हत्या का उद्घेदन: युवक की ससुर, साले और सास ने की हत्या, दो गिरफ्तार, एक फरार

नवीन मेल संवाददाता महुआडांड। थाना क्षेत्र के कुंरुद गांव से बुधवार को महुआडांड थाना पुलिस ने एक दफनाया हुआ युवक का शव निकाला। जिसकी पहचान अनूप मिंज उम्र 25 वर्ष जिला गुमला के ग्राम परकला निवासी के रूप में की गई। महुआडांड प्रभारी आशुतोष यादव द्वारा दण्डाधिकारी जितेंद्र कुमार गुप्ता एवं चंपा पंचायत मुखिया सुषमा कुजूर कि मौजूदगी में शव निकाल कर जे.एस.एल.पी.एस. में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार भेजा दिया गया था। वहीं थाना प्रभारी अशुतोष यादव ने केश दर्ज कर हत्या के उद्घेदन के लिए अनुसंधान शुरू कर दिया गया। इस केश की अनुसंधानकर्ता पुआिन रांजेश कुमार राम को बनाया गया साथ पुआिन संजय व, पुलिस बल



की दवा खाकर किया। एक दिसंबर को आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य उप केंद्रों में दवा खिलाने का कार्य किया गया। दो दिसंबर से पंद्रह दिसंबर तक सहिया सेविका द्वारा घर घर जा कर दवा खिलाने का कार्य किया जायगा। नरचाही उप स्वास्थ्य केंद्र में एएन सुशीला कुमारी ने कार्यरत सेविका-सहायिका व सहिया की दवा खिलाई। इस दौरान अंचल निरीक्षक सर्वेश कुमार सिंह, कंम्प्यूटर ऑपरैटर मुकेश कुमार प्रखंड समन्वयक संतोष कुमार दांगी के अलावा प्रखंड व एवं थाना प्रभारी रामवृक्ष राम ने फाइलेरिया

- ▶ युवक की हत्या कर शव को मिट्टी में दफन कर दिया गया था
- ▶ हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई

साथ थी। कुछ लोग को पुछताछ के लिए थाना लाया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी आशुतोष यादव ने बताया की अनूप मिंज कुंरुद गांव में चार साल से चारलेश बाड़ा के घर पर रह रहा था और उसकी पुत्री सलिमा बड़ा से प्रेम संबंध में था। अनूप ने शादी नहीं की थी, लेकिन एक दो साल का एक बच्चा था, चारलेश बाड़ा, एवं इसकी पत्नी मरियम कुजूर एवं पूछताछ की गई

डीडीसी ने की समर अभियान अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा

कम प्रगति वाले प्रखंडों को चिन्हित कर जल्द सर्वे से संबंधित प्रगति करने का दिया निर्देश

नवीन मेल संवाददाता लातेहार। उप विकास आयुक्त सुरेन्द्र कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समर अभियान अन्तर्गत संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक समारोहालय सभागार में आयोजित की गई। अभियान के सफल क्रियान्वयन के प्रतिवेदन का पीपीटी के माध्यम से अवलोकन किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त ने प्रखंड वार सर्वे की जानकारी ली। जिसमें कम प्रगति वाले प्रखंडों को चिन्हित कर जल्द से जल्द सर्वे से संबंधित प्रगति करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान समर अभियान अन्तर्गत चिन्हित सैम, मैम, एनीमिक सस्पेन्टेड केस वाले लाभकों को यथोचित लाभ प्रदान करने के निमित्त नया कार्यप्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इससे संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा सस्पेन्टेड केस की पहचान कर उनका उपचार कराया जा सके और जिले से कुपोषण एवं एनीमिया को जड़ से खत्म किया जा सके। समर अभियान के निमित्त नया कार्यप्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इससे संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा सस्पेन्टेड केस की पहचान कर उनका उपचार कराया जा सके और जिले से कुपोषण एवं एनीमिया को जड़ से खत्म किया जा सके। समर अभियान के निमित्त नया कार्यप्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही इससे संबंधित कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा सस्पेन्टेड केस की पहचान कर उनका उपचार कराया जा सके और जिले से कुपोषण एवं एनीमिया को जड़ से खत्म किया जा सके।



भी सुनिश्चित करें। उप विकास आयुक्त ने अभियान के तहत चिन्हित अल्परक्तता से ग्रसित महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं अति कुपोषित बच्चों का एमटीसी में उपचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बीपीएम, जेएसएलपीएस, महिला पर्वविक्षा एवं सीडीपीओ आदि में समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाए तथा बच्चे हुए लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सिविल सर्जन, जिला योजना पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जेएसएलपीएस डीपीएम, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्वविक्षा एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।

झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति ने परिसदन में की बैठक

विकास योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा

नवीन मेल संवाददाता चतरा। झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति के सभापति सह विधायक उमाशंकर अकेला की अध्यक्षता में परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ समिति की बैठक हुई। जिसमें जिले में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आलोचक में संबंधित विभाग के क्रियान्वित विविध योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। कई बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। वहीं राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया कि वे भूमि का निबंधन (रजिस्ट्री) एलपीसी के आधार पर सभी दस्तावेजों के जांचोपरांत करें। सभापति ने कहा कि जिले में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में सभी गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करेंगे। इसकी जांच समय समय पर संबंधित पदाधिकारी करेंगे। कोल परियोजना क्षेत्र में आने वाले भू रैयतों के कागजातों का भौतिक सत्यापन कर स्थानीय लोगों को मुआवजा राशि का भुगतान करने को लेकर निर्देशित किया गया। जिला खनन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी कोल परियोजनाओं में होने वाले हैवी व्हायरिंग से पूर्व लोगों को सायरन के माध्यम से सूचना देंगे साथ ही खनन क्षेत्र के आस पास निवास करने वाले ग्रामीणों को किसी अन्य



स्थानों पर बसाने हेतु निर्देशित किया गया। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों के सभी कागजातों का जांच करते हुए जल्द से जल्द मुआवजा राशि भुगतान करने का निर्देशित किया गया। साथ ही अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों का समुचित इलाज करने को कहा गया। कार्यपालक अभियंता पेवजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल को निर्देशित किया गया कि जिले में शुद्ध पेयजल की

आपूर्ति के साथ-साथ खराब चापाकल की मरम्मत शीघ्र निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमण्डल को निर्देशित किया गया कि जिले में निर्मित रूप से विद्युत की आपूर्ति करेंगे एवं खराब एवं ट्रांसफार्मर को अचल बदर्द करेंगे। इसके साथ ही अन्य विभागों में संचालित राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में निवेदन समिति के सदस्य सह जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, सिमरिया विधायक किशुन दास, उपायुक्त चतरा अबु इमरान, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष गुप्ता, अपर समाहर्ता पवन कुमार मण्डल, अनुमण्डल पदाधिकारी सिमरिया सुभ्रमंडल दास समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

विश्व एड्स दिवस पर अविराम कॉलेज के छात्रों ने किया जागरूक

नवीन मेल संवाददाता चंदवा। प्रखंड के हुटाप स्थित अविराम कॉलेज के नर्सिंग व फार्मसी संकाय के स्टूडेंट्स के द्वारा विश्व एड्स दिवस पर ग्रामीणों के बीच जाकर एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई गई। यह बीमारी कैसे फैलती है और इससे बचाव कैसे करें लोगों के बीच एड्स को लेकर क्या भ्रम हैं विषयों पर जागरूक किया। मौके पर संस्थान के सचिव इंद्रजीत कुमार भारती ने कहा कि शिक्षा जिम्मेदारी है समाज के प्रति और इस जिम्मेदारी का बोध छात्र छात्राओं में होना आवश्यक होता है। झारखंड से दूसरे प्रदेशों में लोगो का पलायन बढ़ी संख्या में होता है ऐसे में एड्स जैसी लाइलाज बीमारी जिससे बचाव के लिए जागरूक होने की अत्यधिक आवश्यकता है चूकि एड्स जैसी लाइलाज बीमारी को लोगो के बीच सिर्फ जागरूकता लाकर ही रोका जा सकता है। रैली में शामिल छात्रों के द्वारा



स्तोत्रान के माध्यम से जागरूकता फैलाते हुए कार्यक्रम को संपन्न किया गया। जागरूकता अभियान में शिखा कुमारी,निशा लकड़ा, सपना बाखला, विना डुंगुड, तनु प्रिया, पूर्णिमा कुमारी, सोनिया मुर्मू आदि ने स्टूडेंट्स के साथ सक्रियता से भाग लिया। एड्स जैसे विषय पर लोग बात करने से कतराते हैं उसे इतनी सरलता से समझाए जाने को लेकर सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की।

मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर एसडीओ ने की बैठक

सिमरिया(चतरा)। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरिया की अध्यक्षता में गुरुवार को सिमरिया प्रखंड के सभागार में एक बैठक आहूत की गई इस बैठक में एसडीओ सुधीर कुमार दास एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी, चतरा द्वारा सभी बीएलओ, सुपरवाइजर एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, 26-सिमरिया(A0आ0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2023 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में बीएलओ एवं सुपरवाइजर को कई आवश्यक निर्देश दिया गए।

बीडीओ ने आंगनबाड़ी सेविका व जेएसएलपीएस कर्मियों के साथ की बैठक

गिद्धीर(चतरा)। गिद्धीर प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने गुरुवार को आंगनवाड़ी सेविका व जेएसएलपीएस कर्मियों के साथ बैठक किया। बीडीओ ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना से सम्बंधित लिखित आवेदनों को तीन दिनों के अंदर प्रखंड कार्यालय को देने, केंद्र सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खोलने का निर्देश दिया है। समर अभियान के तहत कुपोषित बच्चों का सर्वे 50 प्रतिशत ही हुआ है, जिसे ले बीडीओ ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को जल्द 100 प्रतिशत करने का निर्देश दिया। सेविकाओं ने बीडीओ से आंगनवाड़ी केंद्र में बर्तन नहीं होने की शिकायत की, तो एलएम को दो दिनों के अंदर केंद्र के बर्तन की सूची मांग जिला से आपूर्ति करने की बात कही। बैठक में महिला पर्वविक्षा उर्मिला देवी, सेविका सुनेना देवी सहित अन्य उपस्थित थे।

फाइलेरिया मुक्त चतरा बनाने में सहयोग करें नागरिक: उपायुक्त

नवीन मेल संवाददाता चतरा। गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर में आयोजित समारोह में जिला स्तरीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त अबु इमरान ने दावा खा कर किया। इस अवसर पर उपायुक्त श्री इमरान ने कहा की जिले में एक कार्यक्रम फाइलेरिया मुक्त चतरा बनाने के लिए किया जा रहा है, जिले के सभी प्रखंड एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक से पंद्रह दिसंबर तक पाक्षिक रोस्टर अनुसार सेविका व सहिया द्वारा दवा खिलाने का कार्य किया जाएगा। सभी लोग नियमानुसार दवा का सेवन करें और जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आगे कहा की गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एक साल से छोटे बच्चो के फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आगे कहा की गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एक साल से छोटे बच्चो के फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आगे कहा की गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एक साल से छोटे बच्चो के फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आगे कहा की गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एक साल से छोटे बच्चो के फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आगे कहा की गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एक साल से छोटे बच्चो के फाइलेरिया मुक्त बनाना को



लेकर 15 दिसंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान के तहत एक दिसंबर को आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य उप केंद्रों में दवा खिलाने का कार्य किया गया कि। वहीं दो दिसंबर से पंद्रह दिसंबर तक सहिया सेविका द्वारा घर घर जा कर दवा खिलाने का कार्य किया जायगा। कार्यक्रम में फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आगे कहा की गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एक साल से छोटे बच्चो के फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आगे कहा की गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एक साल से छोटे बच्चो के फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आगे कहा की गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एक साल से छोटे बच्चो के फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। आगे कहा की गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एक साल से छोटे बच्चो के फाइलेरिया मुक्त बनाना को

कुलुकेरा स्कूल की व्यवस्था पर नाराज हुए बीडीओ

सिमडेगा। बीडीओ अजय कुमार रजक ने कुलुकेरा पंचायत का किया भ्रमण। मौके पर स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आदि का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। स्कूल की व्यवस्था और साफ-सफाई को देख बीडीओ ने नाराजगी जताते हुए शिक्षकों को व्यवस्था में सुधार लाने का दिया निर्देश। बीडीओ ने कहा कि हम सभी सेवा के लिए हैं। इसलिए अपना काम इमानदारी पूर्वक करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे साथ ही साथ मैन्यु के आधार पर बच्चों को एमडीएम भोजन दे। निरीक्षण के क्रम में स्कूल में लगभग 210 बच्चे उपस्थित थे जिनके लिए बना भोजन काफी कम नजर आ रहा था जिस पर भी बीडीओ ने नाराजगी जताई उन्होंने 2 दिनों के अंदर सभी व्यवस्था में सुधार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बीडीओ ने स्कूल के स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया। और बच्चों से कंप्यूटर के संबंध में सवाल जवाब किया। बच्चों के जवाब के बाद बीडीओ ने शिक्षक से बेसिक नॉलेज पर जोर देने की बात कही। कोचेडेगा स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र को भी व्यवस्थित रखने का निर्देश दिया गया।

सड़क हादसे में घायल पारा शिक्षक की हुई मौत, सघ ने जताया शोक

सिमडेगा। मुफरिसल थाना क्षेत्र अंतर्गत तामरा हाई स्कूल के समीप दो मोटरसाइकिल की टक्कर में गंभीर रूप से घायल इलाजरत शिक्षक लाल प्रधान की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि तामड़ा जतरा से एक युवक दो युवतियों के साथ लौट रहा था और वे अपने घर की ओर से मेला जा रहे थे इस दौरान सीधी भिड़त हुई। जिस पर पारा शिक्षक लाल प्रधान को गंभीर चोट लगी और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया था जहां पर देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया गया कि वह तामड़ा के टभाडीह स्थित प्राथमिक विद्यालय में पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं उनके निधन पर पारा शिक्षक संघ सिमडेगा के तमाम पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा शोक व्यक्त किया है।

बानो बिरसा चौक में हुआ कॉफी सेंटर का उद्घाटन

बानो। बानो बिरसा मुंडा चौक में तनय कॉपी सेंटर पॉपकॉर्न का उद्घाटन किया कॉफी सेंटर का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि शंकर सिंह ने फीता काटकर किया। विधायक प्रतिनिधि ने कहा समय के बदलाव के साथ अब लोग कॉफी का आनंद लेगे मौके पर फिरो बड़ाईक, जितेंद्र ठाकुर, विकी मेहता, वीरबल बड़ाईक संजय बड़ाईक, राहत अंसारी, परिक, रामचन्द्र साहू विजय उपाध्याय, हीरा साहू आदि लोग उपस्थित थे।

राज्य सीनियर अंतर जिला फुटबॉल चैंपियनशिप का शानदार मुकाबला आज

लोहरदगा। आज झारखंड राज्य सीनियर अंतर जिला फुटबॉल चैंपियनशिप का शानदार मुकाबला गुमला बनाम लोहरदगा के बीच समय 2:00 नदिया स्कूल मिनी स्टेडियम में खेला जाएगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि अरुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल होंगे। इस निमित्त लोहरदगा जिला फुटबॉल टीम का चयन शिविर के बाद खिलाड़ियों का चयन किया गया है। जिसमें मनोज उरांव, दिनेश उरांव, विधान स्वामी, सुलतान अंसारी, संतोष उरांव, विपिन महली, उपेंद्र उरांव, राहुल उरांव, कुलदीप उरांव, जितेंद्र उरांव, रणबीर उरांव, विवेक उरांव, पिंटू उरांव, साहिल अंसारी, देवपुजन महतो, अताब अंसारी, धर्मेंद्र उरांव, रवि लहरी, प्रकाश उरांव, आशीष उरांव, कृष्णा उरांव, श्रीकांत बखला, कालीचरण महतो, बादल भगत। लोहरदगा जिला फुटबॉल संघ को मेजबानी मिलने के उपरांत सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजन को लेकर लोहरदगा जिला फुटबॉल संघ के जाहिर अहमद, अभिनव सिद्धांत, सुजाउद्दीन राजा, फूलदेव उरांव, मनोज भगत, साजिद अहमद, वीरेंद्र यादव, विजय महतो, तबारक अंसारी, रोशन मुंडा, शंकर भगत, अनिल मुंडा, अभिषेक साहू, आरिफ खान, कमलेश उरांव, दीपक कुजूर को लेकर अहम भूमिका रही है।

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस पर विशेष अभियान का आयोजन

लोहरदगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सब-सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखंड, सरकार के निर्देश के आलोक में दिनांक 01.01.2023 को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची विशेष सक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, 2023 निर्धारित किया गया है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 09.11.2022 से 08.12.2022 तक दावा एवं आपत्त प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर दिनांक 03.12.2022 (शनिवार) को विशेष अभियान का आयोजन किया गया है। विशेष अभियान के संबंध में उप निर्वाचन पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, लोहरदगा को निर्देश दिया गया है कि अभियान दौरान निर्वाचन संबंधी सेवाओं तथा नये दिव्यांग मतदाताओं को नाम पंजीकरण से अवगत कराने, दिव्यांग मतदाताओं का पहचान पत्र में त्रुटि सुधार, विलोपन, आधार संग्रहण आदि से अवगत कराने का कार्य किया जाय। क्षेत्रांतर्गत पुराने दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया है।

कैरो में जावा महुआ को किया गया नष्ट

कैरो (लोहरदगा)। कैरो प्रखंड मुख्यालय स्थित कैरो, उतका में उत्पाद एवं मह निषेध विभाग के पदाधिकारी धनंजय कुमार पासवान, अजय कुमार, संजय दास, जयप्रकाश भगत के द्वारा अवैध रूप से महुवा शराब बनाने वाले लोगों के घरों में छापामारी किया गया। छापामारी अभियान में छोटें बड़े महुवा शराब बनाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी हिदायत देते हुए फाइन काटा गया। मौके से महुवा के जावा को नष्ट किया। मौके पर धनंजय कुमार पासवान ने अवैध रूप से शराब बनाने व बेचने वालों को कड़ी से कड़ी फटकार लगाते हुए आगे से शराब का कारोबार छोड़ कर सरकार द्वारा संचालित विकास की विधिन योजना से जुड़कर जीवन यापन करे अन्यथा गैर कानूनी तरीके से कोई भी कार्य करने पर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और आप जेल जा सकते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे आपको जेल जाना पड़े और आपके विरुद्ध कार्रवाई हो।

बोलबा प्रखंड मुख्यालय स्थित आत्मा विभाग के किसानों को बांटा चने का बीज
बोलबा। बोलबा प्रखंड मुख्यालय स्थित आत्मा विभाग के द्वारा किसानों को चने का बीज का वितरण किया गया इस मौके पर 72 किसानों को 12 बोरा चने का बीज अर्थात प्रत्येक किसान को पांच 5 - 5 किलो चने का बीज वितरण किया गया इस मौके पर आत्मा विभाग द्वारा चने का बीज खेतों में लगाने के लिए विस्तृत जानकारी दिया गया इस मौके पर बीटीएम निलेश खलखो विधायक प्रतिनिधि संजय कुजूर, बोलबा लैम्पस के अध्यक्ष रघुनंदन सिंह, कार्लूस सारेन, बसंत खलखो, संजीव पक्का, हेरमन लकड़ा एवं भारी संख्या में किसान मौजूद थे।

लोहरदगा/गुमला/सिमडेगा

रांची जेन के आईजी ने किया पुलिस ऑफिस का निरीक्षण, अधिकारियों को दिया विशेष दिशा-निर्देश

नक्सलियों को आईजी का संदेश, वापस मुख्याधार में लौटे नक्सली नहीं तो खैर नहीं

नवीन मेल संवाददाता लोहरदगा। रांची प्रखेत्र के आईजी पंकज कंबोज के द्वारा लोहरदगा पुलिस ऑफिस समेत विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों




कार्यालय का निरीक्षण किया जाना था लेकिन आज सिर्फ पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया गया है दूसरे फेज में पुलिस लाइन का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बहुत सारे मामले हैं जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ही नियंत्रित होते हैं और कार्यालय में ही बहुत सारी शाखाएं आती हैं। नक्सल के लिए पुलिस की विशेष तैयारी है। आगामी दो दिसंबर तक पुलिस लाइन और पुलिस ऑफिस अर्थात पुलिस अधीक्षक

हैं तो उनके ऊपर दोबारा कार्रवाई की जाएगी और नही शामिल हैं तो उनपर निगरानी रखी जायेगी। आईजी ने बताया कि केंद्रीय पुलिस मुख्यालय और राज्य स्तरीय पुलिस मुख्यालय से हमेशा नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलते रहता है। लोहरदगा में डबल बुल अभियान बहुत ही अच्छा चला था, उसमें पुलिस को नक्सलियों के विरुद्ध कार्रमा सफलता मिली थी। जो बचे हुए नक्सली हैं उनपर पुलिस की निगरानी है जल्दी ही उनका सफाया किया जाएगा। उन्होंने साफ लफजों में नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आप वापस मुख्याधार में जुड़ें। नक्सली गतिविधियों को छोड़ कर आम जीवन जिएं। आईजी ने नक्सलियों को सन्देश देते हुए कहा कि कोई फायदा नहीं है जंगल में भटकने का, घूमने का, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आप पकड़ कर जेल जाएगा या आपका एनकाउंटर हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप

झारखंड सरकार की सेंर्डर पॉलिसी नई दिशा के तहत आप सेंर्डर कीजिए और आम नागरिकों को तरह आप भी समाज का हिस्सा बनें। झारखंड सरकार की पॉलिसी के तहत सेंर्डर कीजिए और पॉलिसी नीति का लाभ उठाएं। अपने परिवार के साथ रहे, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दीजिये। जो कैसेसे है उनमें मदद मिलेगी और बच्चों को पढ़ाई के लिए खर्च भी मिलेगी। जिससे आप और आपका परिवार एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकता है। गौरतलब है कि हाल के समय में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन द्वारा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाए जाने के बाद पुलिस विभाग की ओर से भी अलग-अलग जिलों में अभियान को तेज कर दिया गया है। ऐसे में लोहरदगा में आईजी पंकज कंबोज के आने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही लोहरदगा में भी नक्सलियों के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चल सकता है।

आईजी ने पुलिस लाइन में सुनी पुलिस जवानों की समस्याएं

नवीन मेल संवाददाता सेन्हा-लोहरदगा। लोहरदगा जिले के न्यू पुलिस लाइन में रांची प्रखेत्र के आईजी पंकज कंबोज ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की समस्या से अवगत हुए। पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने आईजी के समक्ष अपनी मुख्य व बुनियादी समस्या रखी। आईजी के समक्ष बिजली, पानी, जरनेट, जीपी कटौती, बीमा पेंशन तथा पंचायत चुनाव के दौरान भत्ता नहीं मिलने की बात सहित अन्य जरूरतों का चीज के लिये जवान को काफी परेशानी होती है, बताया। आईजी ने एक एक पुलिस पदाधिकारियों की समस्या सुनकर



विभाग द्वारा जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात कही। मौके पर एस्पी और रामकुमार, अभियान एस्पी दीपक पाण्डेय, एसडीपीओ बीएन सिंह, डीएसपी परमेश्वर प्रसाद, सार्जेन्ट मेजर सुरेश कुमार ओझा के अलावे जिले के सभी पुलिस जवान मौजूद थे।

सविधान सप्ताह व एड्स दिवस पर डालसा ने लगाया प्रदर्शनी व स्वास्थ्य जांच शिविर

नवीन मेल संवाददाता लोहरदगा। नालसा नई दिल्ली एवं डालसा अध्यक्ष श्री राजेंद्र बहादुर पाल के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोहरदगा द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2022 से 02 दिसंबर 2022 तक संविधान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस क्रम में सिविल कोर्ट प्रांगण में लीगल सर्विसेज क्लीनिक, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा 'संविधान की महत्ता' को रेखांकित करते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विश्व एड्स दिवस (01 दिसंबर) है, इसी अवसर पर सदर अस्पताल, लोहरदगा के सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी एवं स्वास्थ्य



जांच शिविर का उद्घाटन करते हुए लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर पाल के उपस्थित नागरिकों, अधिवक्ताओं न्यायिक कर्मियों एवं उपस्थित पदाधिकारियों को स्वास्थ्य की जांच शिविर से लाभ उठाने की अपील की। संपूर्ण कार्यक्रम की

निगरानी डालसा सचिव राजेश कुमार एवं उनकी टीम के द्वारा की गई। संविधान सप्ताह के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी के बारे में लोगों को अवगत कराया गया। वही स्वास्थ्य जांच शिविर में 100 से ज्यादा लोग ने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सामान्य शारीरिक जांच,

हाइड्रोसिली को समस्याओं आदि की चर्चा उपस्थित डॉक्टरों के टीम से की। मौके पर सदर अस्पताल लोहरदगा के डॉक्टर शंकर प्रसाद डी. एस., डॉ प्रकाश कुमार मेडिकल ऑफिसर, अमित कुमार प्रसाद बी. पी. एम. उपस्थित थे। जबकि सी.एच.ओ. सोनहैन करेक्रेण्ड, शोभा कुजूर, पूनम किसपोटा, एवं ए० एन. एम. सुप्रभा कुमारी ने लोगों का स्वास्थ्य जांच कर जरूरतमंदों को रेफरिस्टामोल, ओ. आर. एस. एवं अन्य दवाइयां दीं। 'भारतीय संविधान के विविध आयाम' पर परिचर्चा व कार्यशाला के साथ दिनांक 02-12-22 को संविधान सप्ताह कार्यक्रम का समापन किया जायेगा।

मजदूरों की समस्याओं को लेकर कचहरी के समीप हुआ महा धरना, बोले राजेश सिंह प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैया के कारण परेशानी से जूझ रहे मजदूर

नवीन मेल संवाददाता सिमडेगा। सिमडेगा कचहरी के समीप गुरुवार को झारखंड मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष विमल नायक जिलाध्यक्ष झारखंड मजदूर यूनियन, की अध्यक्षता में एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया जहां पूर्व जीप सदस्य निल जस्टिन बेक ने मजदूरों को संगठित होने का आहवान किया तथा श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ मजदूरों तक नहीं पहुंचने की कठिनाइयों के बारे सरकार को समाधान निकालने के बारे बात रखी। सभा की अध्यक्षता किर्मट नेत्री अगुस्टीना सोरेंग ने संबोधित करते हुए संगठित होकर शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का आहवान किया था ही महिला मजदूरों के लिए क्रेच की व्यवस्था नहीं होने और महिला कामगारों को कम मजदूरी मिलने के कारण श्रम कानूनों का उल्लंघन से महिला मजदूरों के हाशिये की स्थिति के लिए सरकारों और प्रशासन, नियोक्ताओं को जिम्मेदार बताते हुए मजदूरों को एकजुटता से अधिकार लने

के लिए संगठित लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होने के लिए अपील किया तथा महिला मजदूरों को कार्यस्थल पर यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने और लड़ने के लिए भी हमेशा मुखर होने का संदेश दिया। महाधरना के मुख्य अतिथि झारखंड मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए मजदूरों को बाहरी ठेकेदारों द्वारा शोषित होने पर एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए अोजस्वी और जार्जोला आहवान किया कि सरकार द्वारा बालू घाट का टेंडर नहीं होने से भी मजदूरों को काम की कमी और मजदूरों के हित पर जनप्रतिनिधियों द्वारा जार्जोला आहवान किया गया। परेशानी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां के स्थानीय प्रशासन और यहां के जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने पेट पालने के लिए राजनीति कर रहे हैं यहां के मजदूरों का शोषण हो रहा है जिसे किसी को भी परवाह नहीं है। मजदूर नेता राजेश कुमार सिंह ने गुमला के दुमरी

प्रखंड के जैरागी के चिमनी ईंट भट्टा में मृत मजदूरों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और ईंट भट्टा के मालिक हिंसा के खिलाफ मुआवजा उठाने और लड़ने के लिए भी हमेशा मुखर होने का संदेश दिया। उन्होंने ने प्रवासी मजदूरों के हितों पर सरकार और प्रशासन को ध्यान देने के लिए आवाज उठाया कि किसी भी कीमत पर मजदूरों का शोषण बरदशत नहीं किया जायेगा। उन्होंने बंगाली ठेकेदारों के द्वारा स्थानीय मजदूरों के शोषण के खिलाफ जनवरी में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों 25 हजार रुपया जुमाना भी लगाया है। आरोपी पर महिला थाना कांड संख्या 43/2021, पोस्को 23/2022, धारा 376, 6 पोस्को एक्ट दर्ज किया गया था। 13 फरवरी 2020 को सदर थाना क्षेत्र के अरकोसा गांव निवासी पीड़िता जब घर पर अकेली थी, तब गांव के ही सुशील भगत रात्रि करीब 10 बजे घर में चुपके से घुसा और पीड़िता को डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाया इसके बाद शादी का प्रलोभन

अदालत ने दो अलग-अलग मामले में आरोपियों को सुनाया 20-20 वर्ष का सजा

नवीन मेल संवाददाता लोहरदगा। जिला व्यवहार न्यायालय एडीजे वन पोस्को के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने दो अलग-अलग मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को 20-20 वर्ष का सजा सुनाया। डरा धमका कर एवं शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे वन विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने सदर थाना क्षेत्र के अरकोसा गांव निवासी स्वर्गीय देवरु भगत के 47 वर्षीय पुत्र सुशील भगत को 20 वर्ष का सजा सुनाया। वहीं 25 हजार रुपया जुमाना भी लगाया है। आरोपी पर महिला थाना कांड संख्या 43/2021, पोस्को 23/2022, धारा 376, 6 पोस्को एक्ट दर्ज किया गया था। 13 फरवरी 2020 को सदर थाना क्षेत्र के अरकोसा गांव निवासी पीड़िता जब घर पर अकेली थी, तब गांव के ही सुशील भगत रात्रि करीब 10 बजे घर में चुपके से घुसा और पीड़िता को डरा धमका कर शारीरिक संबंध बनाया इसके बाद शादी का प्रलोभन

देते हुए इसके बारे में किसी को ना कहने को कहा। जब पीड़िता शादी करके की बात कही तब पीड़िता के समक्ष जाकर गर्भवती के पेट में लात मार दिया। जिसके बाद इलाज के लिए पीड़िता को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब समय पूर्ण हुआ तब उसको डिलीवरी के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल लाया जा रहा था, तभी सदर प्रखंड क्षेत्र के हरमू गंवाज पहुंचते-पहुंचते रास्ते में ही वह नवजात बच्चे को जन्म दी। पीड़िता के बयान पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था तथा मामला कोर्ट में संचालित था। इस मामले में एपीपी मनोज कुमार झा एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता केएस पांडे थे। वहीं पोस्को के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी ने दूसरे मामले में, पैसा मोबाइल देकर नाबालिक को बाला फुसलाकर भाग ले जाकर यौन संबंध बनाने के मामले पर सुनवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के गौस नगर निवासी सूरज उर्फ रहमान अंसारी को 20 वर्ष का सजा

सुनाया। वहीं 20 हजार रुपया जुमाना भी लगाया है। रहमान अंसारी के खिलाफ सदर थाने में इसी थाना क्षेत्र के गौस नगर निवासी नाबालिक की मां के बयान पर सदर थाना कांड संख्या 112/2019 पोस्को 10/2019, धारा 365, 366 ए, 376 वन, दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने धारा 365 में 5 वर्ष, धारा 366 ए में 7 वर्ष एवं धारा 376 वन में 20 वर्ष का सजा सुनाया। अलग-अलग धारा में लगी सजा सभी एक साथ चलेंगी। जमाने की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया। नाबालिक को 17 जून 2019 को सदर थाना में लिखित सूचना दी थी कि मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन किया गया लेकिन कुछ भी नहीं पाता चला। खोजबीन के क्रम में गौस नगर के ही सूरज उर्फ रहमान अंसारी को भी गायब पाया गया। जिसके बाद भगोले जालक नंबर के माध्यम से पता चला कि सूरज उर्फ रहमान अंसारी ने नाबालिक को पैसा एवं मोबाइल का प्रलोभन देकर कहीं भाग ले गया है।

भाजपा की हुई बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

नवीन मेल संवाददाता सिमडेगा। भाजपा सिमडेगा की बैठक जिला कार्यालय में गुरुवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हैं उपाध्यक्ष मनोज साय ने कहा कि निकाय चुनाव एवं अने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार द्वारा मतदाता सक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है, सभी स्तर के भाजपा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नये एवं छुट्टे हुए मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य करें, साथ ही किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर जिला के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, महामंत्री दीपक पुरी ने कहा की मंडल अध्यक्ष एवं मंडल पदाधिकारियों को इस कार्य में महती भूमिका निभानी पड़ेगी, बूथ स्तर तक ज्यादा से ज्यादा नए मतदाता जोड़ें इस पर फोकस करना है जिन लोगों का उम्र 2023 में 18 वर्ष होगा उनका भी नाम अभी



ही जुड़ेगा। मौके पर ये भी चर्चा हुई कि जल्द ही भाजपा कार्यालय में सप्ताह के 6 दिन कोई ना कोई जिला के पदाधिकारी जिला कार्यालय में बैठेंगे जिससे कार्यकर्ताओं को संगठन तक अपनी बात पहुंचाने में सहूलियत हो। मौके पर महामंत्री मोतीलाल सिंह उपाध्यक्ष प्रणव कुमार व सतीश पांडेय कोषाध्यक्ष, अनुप प्रसाद, सुजान मुंडा राकेश रिवकांत, बसंत माझी, रामविलास बड़ाईक, गजानंद बेसरा, देवकी नंदन साय, मानकीलाल, अशोक रजक, कृष्णा कोटवार घनश्याम सिंह, प्रदीप जायसवाल, महेश साहू, कैलाश मेहर, सत्यनारायण प्रसाद, सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बोर्ड लगाकर पथ निर्माण कार्य में बाधा डालने के लिए गुमराह करने का प्रयास, सूचना पर पहुंचे सीओ थानेदार

नवीन मेल संवाददाता सेन्हा-लोहरदगा। पथ निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से बोर्ड लगा गुमराह करने का कार्य दतरी ग्राम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया। सूचना पर अंचलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन तथा पंचायत मुखिया पहुंचा मामला के तहिकत में जुटे बताया गया कि बोर्ड लगा कर ग्रामीणों को गुमराह किया गया कि (1) भारत का संविधान अनुच्छेद 13(3) के जनजातियों की रूढ़िवादी पारम्परिक व्यवस्था ही है जो आदिवासी के लिए शांति का बल रखता है। (2) भारत का अनुच्छेद 19(5) के उपबंध के अनुसार गैर जनजातियों को घूमना फिरना रहना बसाना मना है। (3) भारत का संविधान 19(6) के उपबंध



के अनुसार गैर जन जाति का नौकरी चाकरी और व्यवस्था कारोबार करना मना है। (4) पांचवी अनुसूचित जिलों में भारत का संविधान अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) धारा 5(1) के तहत संसद या विधान मंडल का कोई भी सामान्य कानून लागू नहीं है। जय पट्टहा 2 खुश्रा प्रॉंगण इस प्रकार की तथ्यों से लिखा बोर्ड लगाया गया था। जो इशारा कुछ और ही कर रहा है।

इसपर प्रशासन छानबीन कर रही है। वहीं जमीन में बोर्ड लगाने की सूचना पर थाना प्रभारी ऋषिकांत दलबल के साथ कार्य स्थल पहुंच बोर्ड को हटवाते हुए अंचलाधिकारी विजय कुमार को सूचना किया गया। जमीन मामला की बात पर विजय कुमार दतरी गांव पहुंच ग्रामीणों से कार्य रोकने का प्रयोजन पूछा गया। तो ग्रामीणों ने बताया कि पथ निर्माण के हम सभी

ग्रामीणों को लाभ है परंतु दो रैयत दुर्गा भगत एवं दयानंद उराँव को पथ निर्माण पर आपत्ति है। वहीं अंचलाधिकारी ने ग्रामीणों की बात को सुन कहा कि सर्वे के दौरान ही आपत्ति जताना उचित था। परंतु पथ निर्माण की स्वकृति मिलने के बाद इस प्रकार सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। समझते हुए आपत्ति करता रैयत से जमीन संबंधित कागजात की मांग किया गया है। बताया जाता है कि पथ निर्माण कार्य पथ प्रमंडल के तत्त्वधान में गंगा कंट्रक्शन द्वारा 22 किलोमीटर करवा जाना है। जिसपर रोक लगाने का कार्य किया गया। पथ निर्माण कार्य रोकने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। यह बातें खुल कर सामने नही आया है।

दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 6.3 प्रतिशत : एनएसओ

नयी दिल्ली। भारत के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर, 2022 के दौरान स्थिर मूल्य पर (आधार वर्ष 2011-12) पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों में दी गयी है। इस दौरान सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में वृद्धि 5.6 प्रतिशत रही। जीडीपी में सॉफ्टवेयर को जोड़ने और उत्पाद पर करों को घटकर जीवीए निकाला जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही की वृद्धि दर 13.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2021-22 दूसरी तिमाही की वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत थी। कोविड के कारण पिछले वित्त वर्ष में वृद्धि दर गिरने से उसकी तुलना में इस वर्ष पहली तिमाही के वृद्धि दर के आंकड़े अधिक आकर्षक दिखते हैं लेकिन धीरे-धीरे तुलनात्मक आधार



का प्रभाव खत्म हो रहा है। एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्य पर भारत का जीडीपी 2022-23 की दूसरी तिमाही में अनुमानित 38.17 लाख करोड़ रुपये रहा जबकि वित्त वर्ष 2021-22 की इसी तिमाही में यह 35.89 लाख करोड़ रुपये था। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्य पर जुलाई-सितंबर, 2022 की तिमाही में जीडीपी एक वर्ष पहले की तुलना में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 65.31 लाख करोड़ रुपये था जबकि वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में वर्तमान मूल्य पर जीडीपी 56.20 लाख करोड़ रुपये था। आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में स्थिर मूल्य पर जीडीपी 9.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 75.02 लाख करोड़ रुपये आंका गया है।

एक झटके में 1783 रुपये महंगी हुई चांदी, जीएसटी समेत गोल्ड 54700 के पार

नई दिल्ली (एजेंसी)। शायदियों के सीजन में सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए झटका है। क्योंकि, आज सोना-चांदी दोनों महंगे हुए हैं। आज यानी गुरुवार को सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 343 रुपये महंगा होकर 53120 रुपये पर खुला। वहीं, चांदी भी 1783 रुपये की छलांग लगाकर 63683 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। अब शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट से 56254 रुपये प्रति 10 ग्राम से केवल 3134 रुपये ही सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी अपने दो साल पहले के उच्च रेट 76008 रुपये प्रति किलो से अब केवल 12325 रुपये ही सस्ती है। बता दें सोने-चांदी के ये रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए औसत रेट हैं, जो कई शहरों से लिए गए हैं। बता दें सोने-चांदी के ये रेट

आईबीजेए द्वारा जारी किए गए औसत रेट हैं, जो कई शहरों से लिए गए हैं। इस पर जीएसटी और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज नहीं लगा है। हो सकता है कि आपके शहर में सोना-चांदी इस रेट से 500 से 2000 रुपये तक महंगा या सस्ता बिक रहे हों। आज सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का जीएसटी समेत औसत हाजिर भाव 54734 रुपये है। इसमें 99.99 पैसेट सोना होता है और इससे कोई जेवर नहीं बनता। वहीं, 23 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत अब जीएसटी के साथ 54494 रुपये है। आज यह 52907 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। इसमें 95 पैसेट सोना होता है। इस पर अगर ज्वेलर का मुनाफा जोड़ दें तो यह 60184 रुपये पड़ेगा। ज्वेलरी मेकिंग चार्ज के साथ यह 62500 रुपये के करीब

पहुंच जाएगा। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 48658 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अब 3 फीसद जीएसटी के साथ इस सोने की कीमत 50117 रुपये है। इसमें 85 फीसद गोल्ड होता है। ज्वेलरी मेकिंग चार्ज और ज्वेलर का मुनाफा जोड़ने के बाद यह आपको करीब 61800 रुपये का पड़ेगा। जबकि, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 39840 रुपये प्रति 10 ग्राम है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत अब 41035 रुपये हो गई है। इसमें 75 प्रतिशत ही सोना होता है। ज्वेलरी मेकिंग चार्ज और मुनाफा जोड़ कर करीब यह 51800 रुपये पड़ेगा।



नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.46 करोड़ रुपए रहा

नई दिल्ली। देश में जीएसटी राजस्व नवंबर महीने में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.46 लाख करोड़ रुपये रहा। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। यह लगातार नौवां महीना है जब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सकल जीएसटी राजस्व संग्रह नवंबर महीने में 1,45,867 करोड़ रुपये रहा। इसमें केन्द्रीय जीएसटी 25,681 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 32,651 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 77,103 करोड़ रुपये (आधारित वस्तुओं पर प्राप्त 38,635 करोड़ रुपये संगेत) और उपकर 10,433 करोड़ रुपये रहा। इसमें 817 करोड़ रुपये आवतित वस्तुओं से प्राप्त उपकर शामिल है।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लोहरदगा

शुद्धि पत्र

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लोहरदगा अन्तर्गत आमंत्रित ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - RDD/SD/LOHARDAGA/E-17/2022-23 PR No. 282967 Lohardaga(22-23):D द्वारा प्रकाशित है, जिसे अपरिहार्य कारणों से संशोधित किया जाता है।

क्र.	विवरण	पूर्व प्रकाशित तिथि/समय	संशोधित तिथि एवं समय
1	ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	02.12.2022 अपराह्न 5:00 बजे तक	05.12.2022 अपराह्न 5:00 बजे तक
2	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लोहरदगा में निविदा शुल्क, अग्रण की राशि, Bank Credit Certificate एवं Affidavit (Section X) जमा करने की तिथि एवं समय	03.12.2022 अपराह्न 02:30 बजे तक	06.12.2022 अपराह्न 02:30 बजे तक
3	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	05.12.2022 अपराह्न 2:00 बजे	07.12.2022 अपराह्न 2:00 बजे

ऑनलाईन प्रकाशन S.B.D. के Details of documents to be furnished for online bidding के कडिका XII में Experience in similar nature of work के स्थान पर Experience in Civil work पढ़ा जाय। निविदा सूचना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, लोहरदगा
PR 283936 Lohardaga(22-23)#D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर निविदा रद्द करने हेतु सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित e-Tender Reference No.&WRD-Water Ways Division, Medininagar F.04/2022-23 दिनांक-19.11.2022 PR. No.-282840 Water Resource(22-23).D में अंकित कार्य को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

पुनः निविदा की सूचना बाद में प्रकाशित किया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता
जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर
PR.No.284010 Water Resource(22-23):D

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लातेहार (जिला विकास)

- पुनः अति-अल्पकालीन निविदा :-

केन्द्रीय सहायता मद (SCA) के अन्तर्गत दिनांक-29.07.2022 को उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक एजेण्डा संख्या-14 के अनुपालन में सप्तर अभियान के अन्तर्गत चिकित्सीय जांच तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं की जांच हेतु Ante-natal-care किट का क्रय किया जाना है। (Ante-natal-care-ANC) के लिए ANC Kit की आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 अंतर्गत पंजीकृत निर्माण/प्रतिष्ठानों/लाभिकृत एजेंसियों के द्वारा द्विदिवसीय पद्धति (तकनीकी भाग एवं वित्तीय भाग) में मुहुरबंद रूप में निम्नवत रूप से अति-अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

01. निविदा की शर्तें/विस्तृत विवरण/अनुसूची-01 10.12.2022 के अपराह्न 03:00 बजे तक।
02. निविदा समर्पित करने का स्थान एवं पता :- विकास शाखा, उप विकास आयुक्त, लातेहार का कार्यालय
03. निविदा खलने की तिथि :- 10.12.2022 के अपराह्न 04:00 बजे।
04. निविदा खलने का स्थान :- अपर समाहर्ता, लातेहार का कार्यालय वेम
05. ANC Kit की आपूर्ति असेनिक शाल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार आपूर्ति की जानी है। विवरणी निम्नवत है:-

क्रमांक	ANC किट की संख्या	ANC किट में आवश्यक उपचार सामग्री	Brand	अधिकतम अनुमानित मूल्य प्रति ANC किट
1.	424	1. Weight Machine-01 2. BP Machine-01 3. Stethoscope-01 4. Tharmameter-01 5. Measuring Tape-01 6. Pregnancy Test Kit-01 Pkt. 7. HB Test Kit-01 Pkt. 8. Urine Strip topara-01 Pkt. 9. Cotton-01 Roll(Small) 10. Lancet-01 Pkt. 11. Spirit-100 ml	1. Li Shanto (Ele) 2. Diamond (Dial Model) 3. Morpen 4. Li shanto (Dizital) 5. Common 6. Themis 7. Sensa Core 8. Recombigen 9. Common 10. Common 11. Li Shanto	5537.00

क्रमांक 01 से 11 तक दरों का अनुमोदन पूरे किट का किया जायेगा। किट में अंकित उपचार सामग्री का दर अलग-अलग अनुमोदित नहीं किया जायेगा।

06. निविदा की शर्तें/विस्तृत विवरण/अनुसूची-01 आदि का अवलोकन समाचार पत्रों पर निविदा प्रकाशन के उपरान्त जिला लातेहार के अधिकृत वेबसाईट <https://lathar.nic.in> पर देखा जा सकता है।

अपर समाहर्ता लातेहार
PR 283991 Rural Development (22-23)_D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर निविदा रद्द करने हेतु सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित e-Tender Reference No.&WRD-Water Ways Division, Medininagar F.03/2022-23 दिनांक-19.11.2022 PR. No.-282839 Water Resource (22-23).D में अंकित कार्य को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

पुनः निविदा की सूचना बाद में प्रकाशित किया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता
जलपथ प्रमण्डल, मेदिनीनगर
PR 284008 Water Resource(22-23).D

कार्यालय जिला परिषद, पलामू
Email: zilaparishad.palamu@gmail.com

दुकान आवंटन हेतु आम डाक सूचना

एतद् द्वारा निम्नांकित प्रखण्डों में अवस्थित जिला परिषदीय रिक्त दुकान के आम डाक के माध्यम से आवंटन हेतु पलामू जिले के प्रमुख एवं लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से इच्छुक व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है:-

क्र०	प्रखण्ड	रिक्त दुकान सं०	कुल रिक्त दुकान	वार्षिक न्यूनतम दर प्रति दुकान	जमानत की राशि
1	सतबरवा (पाटीशन रोड)	S-1, S-2, S-24, S-25, S-41, S-42	6	6000.00	25000.00
2	सतबरवा (नवनिर्मित)	B-12, B-14, B-17, B-19	4	8640.00	25000.00
3	मनातु Block-A (प्रथम तल)	A-20, A-21, A-22, A-23, A-24, A-25, A-26, A-27, A-28, A-29, A-30, A-31, A-32	13	6000.00	10000.00
4	मोहमदगंज	A-08, A-09, A-10, A-11, A-12, A-13, A-14, A-15, A-16, B-08, B-09, B-10, B-11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16	18	4800.00	10000.00
5	हसैनबाद प्रथम तल	E-01	01	11520.00	25000.00
			कुल :-	42	

1. आवेदन पत्र विक्री की तिथि :- 01.12.2022 से 12.12.2022
2. आवेदन पत्र विक्री का स्थान :- कार्यालय जिला परिषद, पलामू।
3. आवेदन पत्र का शुल्क :- 500.00 (पाँच सौ) रुपये मात्र।
4. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि :- 01.12.2022 से 12.12.2022 तक।
5. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान :- कार्यालय जिला परिषद, पलामू।
6. डाक की तिथि व समय :- 13.12.2022 को 02:00 बजे अपराह्न
7. डाक का स्थान :- Block-C DRDA, समाकस, पलामू।
8. आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य कागजात :- वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड), स्थानीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो

नोट 1:- दुकान का आवंटन खुली डाक द्वारा नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से की जायेगी जिसमें सर्वोच्च डाकबक्ता को दुकान आवंटित किया जायेगा। डाक बंधक किराया दर के साथ के आधार पर किया जायेगा। डाक में दो बोली के बीच की अन्तर राशि न्यूनतम 500.00 (पाँच सौ) रुपये होगी। डाक समाप्ति के पश्चात संपूर्ण डाक राशि का 50% राशि तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा उसके उपरान्त आवंटियों की सूची जारी की जायेगी।

नोट 2:- दुकान आवंटन हेतु निर्धारित शर्त से संबंधित विस्तृत आम सूचना पलामू NIC के Website-www.palamu.nic.in, कार्यालय जिला परिषद, पलामू एवं संबंधित प्रखण्ड कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है। विस्तृत जानकारी हेतु मोबाईल संख्या-7903556060, 9006803521 पर कार्यालय अवधि में संपर्क किया जा सकता है।

80/-
उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पलामू।

PR 284012 (District) 22-23 (D)

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, गढ़वा

आवश्यक सूचना चोरी गये वाहन मोटरसाइकिल PASSION XPRO (रंग- सिल्वर ब्लैक)

गढ़वा थाना कॉड सं०-426/22 दिनांक-03.08.2022, धारा-379, भा0व0वि0 में चोरी गयी मोटरसाइकिल PASSION XPRO (रंग-सिल्वर ब्लैक) जिसका रजी नं०- JH3J-7665, इंजन नं०-JA12ABDGK02394 एवं वैचिस नं०-MBLJA12ACDGK01650 का अज्ञात चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसकी बरामदगी अवतक नहीं हो पाई है। अतः आम जनता से अनुरोध है कि उक्त चोरी गयी मोटरसाइकिल के बारे में किसी प्रकार की सूचना किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) गढ़वा के मो०नं०- 9431706284 या पुलिस अधीक्षक, गढ़वा के मो०नं०- 9431706281 पर सूचित करने की कृपा करेंगे।

निवेदक,
पुलिस अधीक्षक गढ़वा
PR 283960 Police (22-23)_D

कार्यालय: जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार

कर प्रमादी वाहनों के वाहन स्वामियों को अद्यतन कर भुगतान हेतु आवश्यक सूचना

ज्ञापक- दिनांक-

एतद् द्वारा निम्नांकित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि जिला परिवहन कार्यालय, लातेहार में निबंधित निम्न कर प्रमादी वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा बकाया पथ कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः इस समाचार पत्र के माध्यम से निम्न वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि वे बकाया पथ-कर, अतिरिक्त कर एवं दण्ड की राशि का भुगतान एक पक्ष के अंदर ई-पेमेंट के माध्यम से निश्चित रूप से जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण एवं संशोधित अधिनियम 2011 की धारा-21(क).22(3) के तहत जर्सी एवं कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

SL.No.	Vehicle No.	Type of Vehicle	Name	Fathers Name	Tax Due From
1	JH19B3745	HGV	SAMINDRA BHUIYAN	HARI RAM	19-Apr-2020
2	JH19B4034	HGV	AJAMUL ANSARI	IDRISH MIYAN	27-Apr-2020
3	JH19B6895	HGV	FAKIRA SAW	LATE RAMDHARI SAW	22-Sep-2020
4	JH19A1491	HGV	SAMBIR ORAON	MANGRA ORAON	29-Mar-2020
5	JH19A1572	HGV	MD MOJIB	KARU MIYAN	21-Apr-2020
6	JH19A4097	HGV	PANKAJ KUMAR GUPTA	NARESH PRASAD GUPTA	22-Sep-2020
7	BEA8519	HGV	BNIT KUMAR SHARMA	KAPIL DEO SHARMA	25-Jun-2020
9	BR0664975	HGV	ARUN KUMAR	AHIVDIS RAM	01-Mar-2020
11	BR1462131	HGV	FRESH KUMAR GUPTA	DEVA SAW	21-Oct-2020
12	BR1469157	HGV	GHANSHIRAM MAHTO	LATE PURAN MAHTO	05-Sep-2020
13	BR1560081	HGV	BISHUNDEO RAM	LAXMAN RAM	24-Nov-2020
14	BR15H1671	HGV	GYAN CHAND PANDEY	N.D. PANDEY	10-May-2020
15	BR2360445	HGV	MUMTAJ MIYAN	RAHMAN MIYAN	28-Aug-2020
17	BR29044	HGV	SHRENDRA KUMAR	DRI HAZARI PD SINGH	27-Aug-2020
19	CG0469149	HGV	DINESH KR. KESHRI	KISHUN SAW KESHRI	01-Sep-2020
21	CG04B3051	HGV	AJAY KUMAR SAHU		19-Jul-2020
23	CG04B4274	HGV	SUBBER KUMAR MANDAL	LAXMAN MANDAL	22-Sep-2020
24	CG07CA4655	HGV	ANIL KUMAR	LATE RAJENDRA MEHTA	06-Oct-2020
25	CG12C1134	HGV	GULAM SARVAR	MD MOHSIN	29-Jun-2020
27	CG15A5918	HGV	AJIT KUMAR SINGH	BRAM MOHAN SINGH	30-Jul-2020
29	CG15ZC0647	HGV	SHIV SHANKAR SINGH	HUSAINI SINGH	30-Jul-2020
31	CG15ZC0662	HGV	BALKESH YADAV	SEWAKI YADAV	30-Jul-2020
33	DL1GA3556	HGV	AJIT SINGH	SOHAN SINGH	18-Jun-2020
35	HR29C5293	HGV	NAND KISHORE	JAG DAYAL	01-Sep-2020
37	HR38K1342	HGV	SANJAY RAM	NANHAJ RAM	13-Jan-2021
38	HR477771	HGV	DHARMIBIR SINGH	AMAR SINGH	18-Jul-2020
40	JH01V6988	HGV	UPENDRA KUMAR	PRITHVI PRASAD VERMA	28-Apr-2020
41	JH01W9921	HGV	PRAMOD PRADAS	BRU MOHAN PRASAD	09-Jun-2020
42	JH01X2954	HGV	SANDEEP KUMAR RAM	RAVINDRA RAM	01-Jun-2020
44	JH02F2812	HGV	LALIT KUMAR CHOUDHARY	RAM KARAN CHOUDHARY	21-May-2020
45	JH03B9521	HGV	HARDESHWAR SINGH	LATE RAMLAYAK SINGH	20-Oct-2020
46	JH17D5020	HGV	RAJESHWAR YADAV	LATE BHUKHI YADAV	25-May-2020
47	JH19A0225	HGV	SUDAMA PRASAD	ARUN PRASAD	26-May-2020
48	JH19A1133	HGV	SHAILENDRA KUMAR	SURESH RAM	13-Aug-2020
49	JH19A1297	HGV	SHIV KUMAR SINGH	MUNSHI SINGH	08-Apr-2020
50	JH19A1535	HGV	ASHOK YADAV	MUNESHWAR YADAV	12-Apr-2020
51	JH19A1599	HGV	KARAN PRATAP SINGH	SURENDRA SINGH	07-May-2020
52	JH19A2131	HGV	RAMPRASAD ORAON	DHANDEV ORAON	28-May-2020
53	JH19A2344	HGV	PANKAJ KUMAR PANDEY	HIRA PANDEY	21-Jun-2020
54	JH19A2568	HGV	GULAB YADAV	RAMDHANI YADAV	17-Apr-2020
55	JH19A3835	HGV	ARBIND PRASAD	RAM BILASH SAW	30-Oct-2020
56	JH19A3852	HGV	JASWANT YADAV	HORIL YADAV	30-Jan-2021
57	JH19A3855	HGV	MD MOIN	MD HASIL MIYAN	30-Jul-2020
58	JH19A4063	HGV	MANI ORAON	FALAGI ORAON	19-Mar-2020
59	JH19A4755	HGV	SUDHANSHU KUMAR	YOGENDRA PRASAD	01-Oct-2020
60	JH19A5329	HGV	GHENDRA YADAV	ASRAFI YADAV	20-Sep-2020
61	JH19A5953	HGV	MD OJER ANSARI	ZAKIR MIYAN	14-Nov-2020
62	JH19A6082	HGV	SURENDRA ORAON	MUNNA ORAON	20-Sep-2020
63	JH19A6266	HGV	PRAKASH SAW	SUKHDEV SAW	09-May-2020
64	JH19A6669	HGV	BNOD KUMAR DANGI	CHAKAL MAHTO	19-Oct-2020
65	JH19A6811	HGV	MUKESH KUMAR SINGH	KRISHNA SINGH	09-Jun-2020
66	JH19A6876	HGV	SAKIM KHAN	MOHAMMAD JAMIL AHMAD	19-Mar-2020
67	JH19A7983	HGV	AJIT KUMAR	TRATH SAW	23-Jan-2021
68	JH19A8611	HGV	AMINUL RASHID	MOHAMMAD AINUL HAQUE	19-Aug-2020
69	JH19A8844	HGV	RAJIT TIWARY	RAGHO TIWARY	29-Sep-2020
70	JH19A8910	HGV	AWADESH KUMAR YADAV	VINDESHWARI YADAV	15-Oct-2020
71	JH19A8926	HGV	ASHISH KUMAR	SHYAM KISHOR SINGH	17-Apr-2020
72	JH19A9206	HGV	ASHOK PRASAD	RAM PRASAD SAHU	29-Mar-2020
73	JH19A9756	HGV	PRADEEP KUMAR YADAV	MAHABIR YADAV	08-Jul-2020
74	JH19B1933	HGV	ALTAH HUSSAIN	MOHIL ANSARI	01-Dec-2020
75	JH19B2117	HGV	RAM NANDAN SINGH	DIHARAMDEO SINGH	21-Oct-2020
76	JH19B3486	HGV	MD IRFAN	YASIN MIYAN	22-Dec-2020
77	JH19B3697	HGV	DEEPAK KUMAR GUPTA	TULSI PRASAD GUPTA	07-Nov-2020
78	JH19B3871	HGV	ANURAG NAYAN	LATE SANTOSHI PRASAD GUPTA	19-Nov-2020
79	JH19B4789	HGV	DIGAMBAR ORAON	JATRU ORAON	05-Dec-2020
80	JH19B5780	HGV	MD SADIK	IMAMUDDIN	27-Apr-2020
81	JH19B6547	HGV	RAMJANAM PRASAD	BANARASI PRASAD	06-Apr-2020
82	JH19B7291	HGV	GAUTAM PRASAD	SRJ JULAN PRASAD	26-Dec-2020
83	JH19B7327	HGV	NEYAZ AHMAD KHAN	MOHSIN KHAN	18-Nov-2020
84	JH19B7972	HGV	BASANT KUMAR	DHANUSH DHARI PRASAD	26-Jan-2021
85	JH19B8903	HGV	MAHESHWAR SINGH	LAKSHMI NARAYAN SINGH	10-Mar-2020
86	JH19B8997	HGV	RAMNANDAN KUMAR	LATE DHARMDEO SINGH	02-Dec-2020
87	JH19B9632	HGV	NEYAZ AHMAD KHAN	MOHSIN KHAN	18-Nov-2020
88	JH19B9789	HGV	MOHAMMAD TAZIM	MOHAMMAD RAZAK	27-Apr-2020
89	JH19C2373	HGV	RAJ KUMAR SAW	LURUK SAW	07-Mar-2020
90	MP06E1352	HGV	TABBRE RAY	HUSSAIN RAY	09-Mar-2020
91	MP06E3341	HGV	RAHMAN MIYAN	SAHABUDDIN MIYAN	01-Oct-2020
92	MP09K6056	HGV	ANIL PRASAD	RAJENDRA SAW	27-Sep-2020
93	OR19C0751	HGV	SURISH GIRI	BASUDEO GIRI	

डालटनगंज (मेदिनीनगर), **शुक्रवार 02 दिसम्बर 2022**

सम्पादक की कलम से…✍

क्या ‘आप’ बिगाड़ेगी खेल

गुजरात के विधानसभा चुनाव में अबकी बार अलग प्रकार की राजनीति होती दिखायी दे रही है। लंबे समय से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला होता हुआ ही प्रदर्शित होता था, लेकिन अब गुजरात की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश भी हो चुका है। हालांकि, आम आदमी पार्टी गुजरात में कितना कुछ कर पायेगी, यह फिलहाल केवल संभावनाओं पर ही आधारित है, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सपनों पर पानी फेरने का काम करती हुई दिखायी दे रही है। आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में अप्रत्याशित रूप से छप्पर फाड़ समर्थन प्राप्त किया, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। यह बात सही है कि गुजरात के मतदाताओं का स्वभाव दिल्ली और पंजाब से मेल नहीं खाता, इसलिए आम आदमी पार्टी गुजरात में सफल हो जायेगी, इसकी गुंजाइश कम ही लगती है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति असंभावित दृश्य को भी संभावित कर सकती है। इसके पीछे का कारण यह भी है कि देश का मतदाता तात्कालिक लाभ पाने के लिए गुमराह हो जाता है और जहां से मुफ्त का लाभ दिखाई देता है, उसे अपना समर्थन भी दे देता है। वास्तव में मुफ्त देने की राजनीति आम आदमी को निकम्मा बनाने का ही काम करती है। इसके बजाय लोगों को स्वावलंबी बनाने के प्रयास तेज करने का काम सरकार की ओर से किया जाना चाहिए, इसकी देश को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाजपा अगर सत्ता पर फिर से विराजमान होती है तो यह उसकी नयी उपलब्धि नहीं कही जायेगी, क्योंकि जो पहले से ही प्राप्त है, वह उपलब्धि नहीं होती। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने में सफल होती है, तो स्वाभाविक रूप से भाजपा कमजोर ही होगी, यही बात भाजपा को सोचने के लिए विवश कर रही है। इसका आशय यह भी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस तो गुजरात में लम्बे समय से विपक्ष की राजनीति करती रही है और अब उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो सकती है। वर्तमान में गुजरात की प्रादेशिक राजनीतिक ताकत की बात की जाये तो यह बात सही है कि भाजपा के पास राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर वेहरो की संख्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा है। इसलिए यह कहा जाना उचित ही होगा कि प्रचार की दृष्टि से भाजपा अन्य दलों से ज्यादा स्थान पर पहुंच सकती है जिसका राजनीतिक लाभ भी भाजपा को मिल सकता है। दूसरी बात यह भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मातृभूमि भी गुजरात ही है, इसलिए उनकी हर बात का प्रभाव भी मतदाताओं पर होगा। इसके बाद भाजपा में चाणक्य की भूमिका में स्थापित होते जा रहे गृह मंत्री अमित शाह लम्बी दूरी की योजना बनाने में सफल होते रहे हैं, यह भी गुजरात से ही हैं। जब अमित शाह अन्य स्थानों पर जाकर वहां राजनीति की बारीकियां समझ लेते हैं तो गुजरात तो उनका गृह प्रदेश है, यहां की पूरी राजनीति की समझ उनको होगी ही, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।

आज का इतिहास

201३ : इराक में सिलसिलेवार बम धमाकों में ३३ लोगों की मौत।
155६ : स्पेन के सम्राट कैरेल ने अपने पुत्र फिलीप द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी चुना।
1५81 : ब्रिटेन में संसद ने रोमन कैथलिक ईसाइयों के खिलाफ कानून पारित किया।
१681 : महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ।
17६9 : कलकत्ता (अब कोलकाता) के अकरा में पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया।
1९०1 : भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, विद्वान और न्यायविद महादेव गोविन्द रानाडे का निधन।
१9३८ : इंडोनेशिया के अंबोन द्वीप पर अमेरिकी वायुसेना का पहला हवाई हमला।
१966 : भारत के शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता सेनानी साधु वासवानी का निधन।
१९47 : विंसेंट ऑरियल फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गये।
1995 : जापान में ७.२ तीव्रता के भूकंप में ५,3७२ लोगों की मौत।
१९५5 : पुणे में खड्गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का औपचारिक रूप से उद्घाटन।
१9८९ : मलयालम सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक प्रेम नजीर (मूल नाम अब्दुल ख़ादिर) का निधन। इनके नाम सबसे अधिक 600 फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाने का विश्व रिकार्ड है।
1९89 : सोवियत संघ ने मंगाल ग्रह के लिए दो साल के मानव अभियान की योजना की घोषणा की।
२०0३ : भारतीय मूल की कल्पना चावला दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना।
200६ : समाजवादी नेता माइकल बैशलेट चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गयीं।

संपादक के नाम पाटकों की पाती लुप्त होता फेरीवाला

ह | म आजकल अपने मुहल्ले व शहर में अगर गौर करें,तो देखें कि पहले जो फेरी वाले पैदल या साइकिल पर अपना सामान बेच करते थे।वह फेरीवाले अब बाइक या मोपेड पर अपना सामान बेच रहे हैं। इसे आधुनिकता का प्रभाव कहें या आर्थिक मजबूती ,लेकिन कुछ वर्षों में बदलाव तो आया है। पैदल घुमने वाले फेरीवाले दिन भर में जितना चक्कर लगाया करते थे,उसे कई गुना वे बाइक व मोपेड से चक्कर लगा लेते हैं। इस कार्य से उनकी आय में भी बढ़ोत्तरी होती है। साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। आज हम मछली, कपड़ा, बर्तन बेचनेवालों को बाइक व मोपेड पर समान बेचने वालों को आसानी से अपने मुहल्लों में देख सकते हैं। यह आधुनिकता का प्रभाव तो है ही। साथ ही आर्थिक सम्पन्नता को भी बतला रहा है। कभी मुहल्लों में यह फेरी वाले पैदल घुमा करते थे और थक कर किसी मकान के ओटे पर सुस्ताने के बाद आगे बढ़ा करते थे। उस समय उनकी स्थिति दर्दनाहीय हो जाती थी।अभी पर्व-त्योहार के समय में इन फेरीवालों की दिनभर में अच्छी खासी बिक्री हो जाया करती है। पर्व के मौसम में बाहर से भी आने वाले लोग फेरी करके अपना सामान बेचा करते हैं। यहां के कई ऐसे फेरी वाले हैं जो अपनी बाइक व मोपेड पर लगभग एक छोटी-मोटी दुकान साथ लेकर चलते हैं। यह एक ही मुहल्लों में वर्षों से आने के कारण काफी विश्वसनीय हैं। इनसे ग्राहक, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, बड़ेझक खरीदारी करती हैं।

■ **विजय सिंह , मेदिनीनगर।**

स्वामी, परिजात माइंडिंग इण्टस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा. लि. की ओर से इसके पब्लिकेशन डिवीजन, रेड्मा मेदिनीनगर (डालटनगंज), से हर्षवर्द्धन बजाज द्वारा प्रकाशित एवं पब्लिकेशन डिवीजन रेड्मा, मेदिनीनगर (डालटनगंज) से हर्षवर्द्धन बजाज द्वारा मुद्रित. रजिस्ट्रेशन नं. RNI. 6131६/94 पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं.-13 ।प्रधान संपादक : सुरेश बजाज, संपादक : हर्षवर्द्धन बजाज, स्थानीय संपादक : ओम प्रकाश अमरेन्द्र*, प्रेस कार्यालय : रांची रोड, रेड्मा, मेदिनीनगर, (डालटनगंज) प्लताम्-8221०३, फोन नम्बर : ०७७५99729३७, ०६५6२-2400४2/ 2२25३9, फैक्स नम्बर : ०६5६२-241176/2312५7, रांची कार्यालय : 5०2बी, पांचवी मंजिल मंगलमूर्ति हार्ट्स, रानी बगान, हरम् रोड, रांची-83001, फोन नं.- 0६५1-2२८३३८4/ फैक्स : ०6५1-2२8३3८६, दिल्ली कार्यालय : 25-एलएफ, तानसेन मार्ग, नयी दिल्ली-१, गढ़वा कार्यालय : मेन रोड, गढ़वा-8221१४, फोन : ९४301६45८०, लातेहार कार्यालय : रमेश सेनेदती, मेन रोड, लातेहार -8२9२06, फोन : ९१२८6६६0२0, 77६३034३४१, लोहराया कार्यालय : रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में, आशा कम्प्लेक्स लोहराया- फोन : 7९038९१7७9, ८२7१९83०99, ई-मेल : rnm_hb@yahoo.co.in, rnm.hvb@gmail.com (*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार)।।

■ **विजय सिंह , मेदिनीनगर।**

सम्पादकीय

असंतुलित होते देश के नगर

शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव कहीं न कहीं विकास और निर्माण परियोजनाओं को संदेह के घेरे में लाता है। नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और शीर्षस्थ संस्था नगर निगम कहलाती है। सामान्यत: बड़े शहरों या महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है, ताकि बिजली, पानी, सड़क, यातायात, संचार, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल निकास व्यवस्था, नालियां, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तथा रखरखाव, पार्क, खेल के मैदान, पशुशाला निर्माण आदि कार्यों का सुचारु संचालन हो सके।

सड़कों पर उतरे लोग

ची न में शी चिनफिंग की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी पर वहां के लोगों की जो चिंता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते उरुमकुी के उत्तर-पश्चिमी शहर में प्लेटों के एक ब्लॉक में आम लग गई, जिसमें दस लोग जलकर मर गए।इसके बाद तो शंघाई और पेइचिंग से लेकर शिनचांग और तिब्बत तक चीन के प्रमुख शहरों में लोगों का विरोध खुलकर सामने आ गया। इन विरोध-प्रदर्शनों में एक बात मुख्य रूप से दिख रही है: कि लोग चीनी राष्ट्रपति की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और उनसे इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। महीनों से प्रतिबंधों का सामना कर रहे लाखों चीनी नागरिकों को चिंता इन विरोध-प्रदर्शनों के दौरान आक्रोश में उबलती दिख रही है तो इसकी कई वजहें हैं। पहली, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 2०वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद शी चिनफिंग उस मौखिक का आनंद ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने चीन के टॉप लीडर के रूप में अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल हासिल किया। दूसरी, अब विदेश दौरों में वह अपनी वैश्विक साख को चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन लगता है कि अपने ही देश में वह अपनी नीतियों से पैदा हो रहे संकट और गुस्से से बेखबर हैं। पिछले महीने हुई कांग्रेस में उन्होंने अपनी सख्त कोविड पॉलिसी की कामयाबी का गुणगान किया और साथ ही इसे जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तीसरी, ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर टेस्ट, क्वारंटाइन और रिस्ट्रिक् लॉकडाउन के चलते उन इलाकों के लोगों में असंतोष पनप रहा है, जहां कोविड-१९ के प्रकोप का पता चला है। चौथी, बुद्धि न्यूना आगे बढ़ती हुई दिख रही है, वहीं चीन में लगातार लॉकडाउन के चलते सामने आ रही चुनौतियों को पहचानने के बावजूद शी के अर्जेंडे को सिर्फ इसलिए

यह युद्ध का समय नहीं है

ले पिटेन्ट जनरल उंपेंद्र द्विवेदी का पूरा बयान ठीक है।सिर्फ उन्हें पीओके पर कब्जे वाली बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जब सरकार कार्रवाई के आदेश करेगी, तब कार्रवाई होगी। इस बात को सब जानते हैं कि सरकार के आदेश पर ही कार्रवाई होगी, बिना आदेश के नहीं। सेना की उत्तरी कमांड के प्रमुख लेपिन्टेन्ट जनरल उंपेंद्र द्विवेदी का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कार्रवाई वाला बयान चौंकाने वाला है। सेना का काम बयान देना नहीं है। इसका काम सरकार के आदेश पर ऑपरेशन करना है। सेना को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। भारत के कई सत्ताधारी दल के नेताओं के बयान कई बार सरकार के सामने असहज स्थिति पैदा कर देते हैं।। कुछ मॉडिया रिपोर्ट भी परेशान कर देती हैं।। ऐसे में उत्तरी कमांड के प्रमुख लेपिन्टेन्ट जनरल उंपेंद्र द्विवेदी का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कार्रवाई वाला बयान भी कुछ ऐसा ही है।यह बयान पाकिस्तान-चीन समेत दुनिया के भारत विरोधी देशों के लिए चौंकाने वाला और उन्हें लामबंद करने वाला है।ये बयान भारत का विरोध करने वाले देशों को शोर मचाने का एक और मुद्दा थमा देगा। उन्होंने पारिकस्तान द्वारा कब्जा किये कश्मीर पर कार्रवाई के बारे में पूछे गये सवाल पर ये बात कही।उन्होंने मंगलवार

अघोषित और अस्त-व्यस्त है। प्रदूषित झीलें, नदियां, तालाब, टूँफिक जाम, बारिश में उफन्ते गंदे नाले, नगरों में बढ़ता वायु प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाएँ, आवारा पशुओं की सड़कों पर भीड़ के कारण होने वाली दुर्घटनाएँ, बिजली और पानी का संकट, यातायात के संसाधनों का बेतरतीब होना, नगरों में फैली गंदगी, गंदी बस्तियों का विस्तार आदि ऐसे मुद्दे हैं, जो देश के शहरीकरण की वास्तविक स्थिति को बयान करते नजर आते हैं। शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव कहीं न कहीं विकास और निर्माण परियोजनाओं को संदेह के घेरे में लाता है।नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और शीर्षस्थ संस्था नगर निगम कहलाती है। सामान्यत: बड़े शहरों या महानगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है, ताकि बिजली, पानी, सड़क, यातायात, संचार, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण,

जल निकास व्यवस्था, नालियां, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण तथा रखरखाव, पार्क, खेल के मैदान, पशुशाला निर्माण आदि कार्यों का सुचारु संचालन हो सके। वैश्वीकरण के बाद नगरीय विकास समावेशी विकास की एक आवश्यक शर्त बन कर उभरा है। पर नगरों के असमान विकास, महानगरों का असुरक्षित परिवेश और नगरीय संस्कृति में उत्पन्न होते तनाव नगरीय विकास की पुर्नसमीक्षा के लिए हमें बाध्य करते हैं। देश के कई राज्यों में बढ़ती नगरीय जनसंख्या की समस्याओं का व्यवस्थित तरीके से प्रबंधन करने के उद्देश्य से नगर निगम संस्थानों को विभाजित करने का फैसला लिया गया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राजस्थान में भी कोटा, जोधपुर और जयपुर शहर के नगर निगमों को दो भागों में विभाजित किया गया था। ऐसा करने के पीछे

(राजनीतिक या प्रशासनिक) शामिल हों जाते हैं, तो विकास का कोई भी माडल सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकता। अनेक आरोपों-प्रत्यारोपों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोटा की जो सूरत बदल रही है, वह आने वाले समय में कोटा को राजस्थान के एक खूबसूरत शहर के रूप में स्थापित करेगी। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें कोटा दक्षिण १४१वें और कोटा उत्तर ३६४वें पायदान पर रहा। इस असमानता और असंतुलित विकास को जन सहभागिता और जनचेतना के माध्यम से दूर किया जा सकता है। दोनों निगमों को अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों को समझ कर तथा जनता से संवाद करके विकास नीतियों को तय करना होगा।

■ **ज्योति सिडाना**

धर्म दर्शन

श्री मदेवी मागवतमाहात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः

हे महाभाग ! एक विशाल सेनासे युक्त होकर आप मेरे साथ वहाँ चलनेके लिये तैयार हो जाइये। वहाँ युद्ध होगा। कालकेतु स्वयं महापराक्रमी है तथा बलवान् राक्षसोंसे युक्त रहता है। अतएव मगवतीका मन्त्र ग्रहण करके ही आप मेरे साथ वहाँ चलिये। मैं उस दुष्टात्मा नगरका मार्ग आपको दिखाऊँगी। अब आप उस पापकर्मपरायण दानवको मारकर मेरी रस्खीको शीघ्र मुक्त कीजिये ॥ १५-१९ ॥

उसका यह वचन सुनकर एकवोरने वहाँपर देवयोगसे प्यारे हुए पुण्यात्मा तथा ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ दत्तात्रेयजीसे त्रिलोकीका तिलक कहे जानेवाले योगेश्वरीके महामन्त्रको उसी क्षण ग्रहण कर लिया ॥ २०-२१ ॥

उस मन्त्रके प्रभावसे एकवीरको सब कुछ जानने तथा सर्वत्र गमनकी क्षमता प्राप्त हो गयी। इसके बाद वे यशोवती के साथ कालकेतुके दुर्गम नगरके लिये शीघ्र प्रस्थित हुए ॥ २२ ॥

वह नगर राक्षसोंद्वारा इस प्रकार सुरक्षित था, जैसे सर्पोंद्वारा पातालकी निरन्तर सुरक्षा होती रहती है। कालकेतुके ऐसे नगरमें अब यशोवती तथा विशाल सेनाके साथ राजा एकवीर आ गये ॥ २३ ॥

एकवीरको आते देखकर कालकेतुके दूत मग्यसे व्यग्र हो गये और चीखते-चिल्लाते हुए बड़ी तेजीसे मागकर उसके पास पहुँचे ॥ २४ ॥

उस समय एकादलीके पास बैठकर अनेकविध विनती कर रहे कालकेतुको अत्यन्त काममोहित समझकर दूत एकाएक उससे कहने लगे ॥ २५ ॥

दूतोंने कहा- हे राजन ! इस कामिनीकी सहचारिणी जो यशोवती नामकी स्त्री है, वह एक राजकुमारके साथ विशाल सेना लेकर आ रही है ॥ २६ ॥

हे महाराज ! पता नहीं, वह जयन्त है अथवा कार्तिकेय । बलके अभिमानसे मत्त वह राजकुमार सेनाके साथ चला आ रहा है ॥ २७ ॥

हे राजेन्द्र ! अब आप सावधान हो जाइये; क्योंकि युद्धकी स्थिति सामने आ गयी है। अब आप तो इस देवपुत्रके साथ युद्ध कीजिये अथवा इस कमलनयनीको मुक्त कर दीजिये ॥ २८ ॥

उसकी सेना यहाँसे मात्र तीन योजनकी दूरीपर हे । अतएव हे राजन ! अब आप तैयार हो जाइये और ग-दुंदुभी बजानेकी तुरंत आज्ञा दीजिये ॥ २९ ॥

व्यासजी बोले- दूतोंके मुखसे वैसी बात सुनकर भालकेतु क्रोधसे मूर्च्छित हो गया। उसने अपने सभी नवान् तथा शरणाधारी राक्षसोंको उत्त्वाहित करत्ते कहा- हे राक्षसो ! तुम सब हाथोंमें शरभ्र लेकर के सामने जाओ ॥ ३० ॥

- **कृमशः**

जब एक गुरु ने घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया

आ | ज भले गुरु जन बच्चों को उछल कूद मचाने पर डांटते हुए कहते हैं कि ये क्या तुम घोड़े की तरह कूद रहे हो, पर एक समय था जब एक गुरु ने घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। उस समय घोड़ा देवताओं के समकक्ष था। ऋग्वेद में उघड़े के सम्मान में अनेक कशोदे कढ़े गये, ऋचाएँ लिखी गई थीं। इन्द्र, सूर्य, अग्नि को अश्व कहा गया था, एवं सूर्य पुत्र दोनों अश्विनी कुमार सूर्य पत्नी संज्ञा से उस समय उत्पन्न हुए जब वे अश्व रूप में वनविहार कर रही थीं। कथानक कुछ इस प्रकार है कि सूर्य की आंच को संज्ञा झेलने में असमर्थ थीं एवं यम और यमी की उत्पत्ति के उपरांत उन्होंने अपनी प्रतिकृति छाया को अपने पति के घर स्थापित किया और अपने पिता के घर विश्वकर्मा के पास लौट आईं। फिर विश्वकर्मा ने समझा-बूझा कर संंध्या को पति के घर वापस भेजा पर शनि (छाया पुत्र) के साथ हुए बहस के बाद संज्ञा घोड़ी बन कर वन में तपोविहार करने लगीं। अश्व का रूप बना कर सूर्य संज्ञा के पास गये और दोनों के संयोग से दो अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। अश्व रूपी माता से उत्पन्न होने के कारण उन्हें अश्विनी कुमार कहा गया एवं सूर्य पुत्रों ने अपने गुरु दधीचि मुनि के सर पर अश्व का मुंह लगा कर ब्रह्म विद्या अर्जित किया। महर्षि दधीचि को ब्रह्म विद्या का ज्ञान था। ब्रह्मविद्या जीवन का मधु है इसलिए उस मधु विद्या भी कहा गया है। अश्विनी कुमारों को

जब पता चला कि महर्षि दधीचि को ब्रह्मविद्या का उत्तम ज्ञान है, उन दोनों भाइयों ने उनसे ब्रह्मविद्या का उपदेश देने के लिए प्रार्थना किया। दधीचि मुनि ने कहा- ‘इस समय में एक कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए फिर किसी समय आना।’ इस पर अश्विनी कुमार चले गये। उनके जाते ही इन्द्र ने आकर कहा, ‘मुने ! अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उन्हें तुम ब्रह्मविद्या का उपदेश मत करना। यदि तुम मेरी बात न मानकर उन्हें उपदेश करोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा।’ जब ऐसा कहकर इन्द्र चले गये, तब अश्विनीकुमारों ने आकर फिर वही प्रार्थना की। मुनि ने इन्द्र का सब वृत्तान्त सुनाया। इसपर अश्विनी कुमारोंने कहा-‘हम पहले ही आपका यह सिर काट कर घोड़े का सिर जोड़ देंगे, उससे आप हमें उपदेश करें और जब इन्द्र आपका घोड़े का सिर काट देगे तब हम फिर असली सिर जोड़ देंगे।’ मुनि ने मिथ्या-भाषणके भय से उनका कथन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अश्वमुख से उपदेश की जानेके कारण ब्रह्म विद्याका नाम ‘अश्वशिरीर’ पड़ा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के सिद्धांत के अनुसार यदि ब्रह्म विद्या का ज्ञान अश्व के सिर से मिल सकता है तो फिर अश्व में भी ब्रह्मांड का रूप देखा जा सकता है, मानना मुश्किल लग रहा हो तो जान लें बृहदारण्यक उपनिषद में सृष्टि का अश्व रूप में वर्णन आया है। सृष्टि ही मानों विराट अश्व है। इस विराट अश्व का सिर उपा है, इसकी आंखें सूर्य, इसका प्राण, वायु,

इसका खुला हुआ मुंह अग्नि (वैश्वानर) एवं इस अश्व का आत्मा संवत्सर (समय) है। अश्व के चार नाम हैं झ हव, वाजी, अर्वा, अश्व। इन नामों के अनुसार उपनिषतकार ने जगत से साम्य दृढ लिया वह सृष्टि हय है अर्थात हेय है, त्याज्य है। देवगण इस सृष्टि रूपी घोड़े पर उसे हेय समझ कर बैठते हैं अर्थात इसे त्यागना हैं। विलासी लोग जानते हैं कि यह जगत वाजी है अर्थात यह जगत अन्न देती है। गन्धर्व गण सोचते हैं कि सृष्टि का उपभोग करना है। असुर गण सृष्टि को अर्वा जान कर इस पर बैठते हैं। अर्वा अर्थात वध का स्थान, हिंसा से यहा काम मिलता है। मनुष्यगण साधारण लोग संसार को अश्व समझकर उस पर बैठते हैं। अश्व अर्थात् भोजन मिलने का स्थान पर अर्थात् पेट भर जाय जीवन यात्रा का निर्वाह हो जाय बस इतने से संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात जैसी आपकी प्रवृत्ति है, उस अनुरुप आपके लिए जगत है। परंतु एक सच हर व्यक्ति के लिए है जो इस संसार में है, जीवन पर मृत्यु हमेशा बलवती है। सृष्टि मृत्यु से भयभीत है, शायद यही कारण है कि मृत्यु रूप में ब्रह्म की कल्पना की गई है। स्थायी मृत्यु की क्षणिक झलक भूख में दीखती है। देखा जाए तो देवताओं के अतिरिक्त हर कोई सृष्टि को भूख निवारण का माध्यम मानता आया था, चाहे वह विलासी गंधर्व हो, राक्षसी असुर या साधारण मनुष्य।

■ **नंदकिशोर श्रीमाली**

■ **विजय सिंह , मेदिनीनगर।**

हमेशा थकान व सुस्ती महसूस होती है तो आजमायें यह उपाय



यदि लगातार कई घंटों तक आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना पड़ता है, बीच-बीच में उठकर स्ट्रेचिंग कर लें। इससे अकड़ी हुई मांसपेशियों को राहत मिलेगी और आपको थकान दूर हो जाएगी। दिन भर आपको यदि थकान महसूस होती है और ऐसा लगता है कि आपमें काम करने की एनर्जी नहीं है, हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गये कुछ आसान उपाय अपनाने की जरूरत है जिससे पूरे दिन आप फ्रेश फील करेंगे।

डेली रूटीन में शामिल करें

खूब पानी पीएं : शरीर में पानी की कमी होने पर भी आपको थकान महसूस हो सकती है, इसलिए दिन भर खुद को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीएं।

एक्सरसाइज : सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज, योगा या वॉक करें। इससे पूरे दिन आपको थकान और सुस्ती महसूस नहीं होगी।
स्ट्रेचिंग : हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि लगातार कई घंटों तक आपको कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना पड़ता है, बीच-बीच में उठकर स्ट्रेचिंग कर लें। इससे अकड़ी हुई मांसपेशियों को राहत मिलेगी और आपको थकान दूर हो जाएगी।

नींद पूरी करें : यदि आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते हैं तो आपको पूरे दिन सुस्ती महसूस होगी और काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए कम से कम 7-8 घंटे की नींद अवश्य लें।

डायट में शामिल करें यह चीजे

थकान और सुस्ती को दूर रखने के लिए आपको पौष्टिक आहार की जरूरत होती है ऐसे में डायट में इन चीजों को जरूर शामिल करें।

सौंफ : हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार बेहतरीन माउथ फ्रेशरन होने के साथ ही सौंफ तुरंत थकान दूर करने में भी मदद करता है। इसमें कैल्शियम, सोडियम, आयरन और पोटैशियम होता है जो सुस्त पैदा करने वाले हार्मोन्स को खत्म कर देता है। आप सौंफ को यूं ही चबा सकते हैं या इसकी चाय बनाकर पीएं।

चॉकलेट : स्ट्रेस दूर रखने वाला चॉकलेट इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। इसलिए जब कभी सुस्ती महसूस हो तो चॉकलेट मुंह में डाल लीजिए, थकान छूमंतर हो जाएगी। दरअसल, चॉकलेट में मौजूद कोको मसल्ल को रिलैक्स करके थकान दूर करता है।

दही : प्रोटीन और काबोहाइड्रेट से भरपूर दही खाने से आपको एनर्जी मिलती है और सुस्ती दूर होती है, लेकिन ध्यान रहे कि मलाई वाली दही न खाएं।

ग्रीन टी : वजन कम करने में मदद करने के साथ ही ग्रीन टी थकान और स्ट्रेस घटाने में भी मदद करती है। ग्रीन टी पीने से आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं।

अजवायन : हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार गैस की बीमारी में फायदेमंद अजवायन शरीर की सुस्ती भी दूर करता है। सुबह पानी में थोड़ा सा अजवायन डालकर उबाल लें और छानकर इसे चाय की तरह पीएं पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे, सा ही इससे जोड़ों के दर्द की समस्या से भी राहत मिलेगी।

नारियल पानी : सादे पानी की बजाय नारियल पानी शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब भी आपको थकान लगे तो एक नारियल पानी पी लीजिए, तुरंत असर होगा।

♦ कंचन सिंह

हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए करें यह एक्सरसाइज

वॉक करना एक बेहद अच्छी एक्सरसाइज होती है। हाई बीपी को कंट्रोल करने में भी ब्रिस्क वॉक करना बेहद लाभदायक होता है। एक स्टडी के अनुसार, दिन में दस मिनट तेजी से चलने पर ब्लड प्रेशर को आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। आज के समय में ब्लड प्रेशर की समस्या बेहद आम होती जा रही है। जब किसी व्यक्ति को हाई बीपी की समस्या होती है तो ऐसे में अधिकतर लोग सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर ही निर्भर हो जाते हैं। यकीनन दवाइयों की मदद से आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया जाए तो इससे कई हेल्थ समस्याएं खुद ब खुद ही हल हो जाती हैं। बीपी की प्रॉब्लम को भी एक्टिव लाइफस्टाइल के जरिए हराया जा सकता है। ऐसी कई एक्सरसाइज हैं जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं।



ब्रिस्क वॉक : हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि वॉक करना एक बेहद अच्छी एक्सरसाइज होती है। हाई बीपी को कंट्रोल करने में भी ब्रिस्क वॉक करना बेहद लाभदायक होता है। एक स्टडी के अनुसार, दिन में दस मिनट तेजी से चलने पर ब्लड प्रेशर को आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। अगर नियमित रूप से वॉक किया जाए तो इससे धीरे-धीरे स्ट्रेमिना बढ़ता है और वजन कम होता है। वजन के नियंत्रित होने से भी बीपी से जुड़े खतरे कम होते हैं।

साइकिलिंग : अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज की बात हो तो आपको साइकिलिंग को भी अपने एक्सरसाइज रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए। साइकिलिंग करने से ना सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है और शरीर में रक्तचाप भी नियंत्रित होता है।

वेट ट्रेनिंग : हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि वेट ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग वास्तव में ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक है। स्ट्रेथ ट्रेनिंग करने से अस्थायी रूप से रक्तचाप का स्तर बढ़ता है, लेकिन यह आपकी ऑवरऑल फिटनेस को बेहतर बनाने में मददगार है। जिससे आपके रक्तचाप में भी सुधार होता है।

स्विमिंग : एक स्टडी के अनुसार, रक्तचाप को नियंत्रित करने में व्यायाम बेहद मददगार साबित हो सकता है। अगर आप हर दिन महज 40 मिनट स्विमिंग करते हैं तो इससे आपका रक्तचाप नियंत्रित होता है। वैसे स्विमिंग सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को ही रेगुलेट नहीं करता, बल्कि इससे आपका वजन कम होता है, साथ ही यह आपके स्ट्रेमिना और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाता है। यह एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है जो आपके शरीर के साथ-साथ मन को भी हेल्दी बनाने में मददगार है।

वर्क आउट से करिये एक दिन की छुट्टी, बने रहेंगे फिट

हेल्थ एक्सपर्ट रोज वर्क आउट की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वर्कआउट से एक दिन का ब्रेक आपकी बॉडी को तरोताजा बनाये रखता है। मसल्ल को आराम मिलता है। आइये जानते हैं वर्क आउट से एक दिन का ब्रेक क्यों जरूरी है। रोजाना वर्क आउट आपको फिट और हेल्दी रखने में मददगार है। वर्क आउट से हम बहुत सी बीमारियों से खुद को दूर रख सकते हैं। यह हड्डियों की स्वस्थ बनाने में सहायक है। यह आपको तरोताजा बनाये रखने के साथ ही खराब कोलेस्ट्रॉल और अनियमित ब्लड प्रेशर की परेशानी से भी आपको सुरक्षित रखता है। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट रोज वर्क आउट की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वर्कआउट से एक दिन का ब्रेक आपकी बॉडी को तरोताजा बनाये रखता है। मसल्ल को आराम मिलता है।

मसल्ल और बॉडी को रिलैक्स : वर्क आउट सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन हफ्ते में एक दिन का आराम आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। रोजाना वर्क आउट या जिम से आपके बॉडी मसल्ल कटोरे हो जाते हैं। एक दिन के ब्रेक से आपके बॉडी मसल्ल स्मूद बने रहेंगे। रोज वर्कआउट और जिम से आपका शरीर थक जाता है। इसे आराम के लिए भी ब्रेक जरूरी है। इस ब्रेक से आप खुद को पहले से ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ महसूस करता हैं।

अच्छी नींद के लिए : रोज के वर्क आउट करने के लिए अक्सर लोग सुबह सबेरे ही जग जाते हैं जिससे उनकी नींद पूरी नहीं होती। वर्क आउट से ब्रेक लेकर आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। इससे आप खुद को तरोताजा फील करेंगे।

दिमाग होगा तरोताजा : रोजाना ऑफिस की थकान और बिजी वर्क रूटीन से दिमाग थक जाता है। एक दिन का ब्रेक आपके दिमाग को ताजगी से भर देगा। आप अगले दिन दुगुनी ऊर्जा के साथ काम कर पायेंगे।
बढ़ेगी फिजिकल एक्टिविटी : अगर आप वर्क



आउट से एक दिन का ब्रेक लेते हैं तो आपका दिमाग और शरीर रिलैक्स कर पाते हैं। हफ्ते भर की थकान दूर होती है। ज्यादा काम की वजह से होने वाला चिड़चिड़ापन भी दूर होता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है।

मसल्ल बनने में मददगार : रोजाना की वर्कआउट से मसल्ल कमजोर हो जाते हैं। अगर आप हल्का फुल्का वर्क आउट करते हैं तो मसल्ल ज्यादा कमजोर नहीं होगी। लेकिन यदि आप हाई इन्टेन्सिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्ल कमजोर हो सकते हैं। इसलिए एक दिन का ब्रेक आपकी मसल्ल की कमजोरी दूर कर सकता है।

वर्क आउट से होने वाले दर्द से मिलता छुटकारा : रोज का वर्क आउट आपको थका देता है और हाई इन्टेन्सिटी वाले वर्क आउट से आपके बॉडी पार्ट्स में दर्द की समस्या हो जाती है। एक दिन के ब्रेक से आपकी हड्डि परेशानी दूर हो जाती है।

खा सकते हैं मनपसंद का खाना : वर्क आउट से हमारी डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छी फिटनेस पाने के लिए हम आयल फ्री खाना कहते हैं। लेकिन एक दिन ब्रेक लेकर आप अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। यह आपको अच्छी तरह डाइजैस्ट भी होगा और आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होगा। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा।

भूख न लगने व कब्ज की समस्या को दूर करता है एलोवेरा का जूस

यदि आपको भी भूख नहीं लगती है और इसके कारण कमजोरी आ गई है तो आपके लिए एलोवेरा जूस बहुत फायदेमंद है। दरअसल, नियमित रूप से एलोवेरा जूस पीने से पेट साफ रहता है और जब पेट साफ रहेगा तो भूख अपने आप खुल जाती है। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो आजकल तकरीबन हर घर में मिल जाता है, क्योंकि महिलाएं उसका इस्तेमाल अपने स्किन और बालों को सुंदर बनाने के लिए करती हैं। इससे न सिर्फ त्वचा साफ और पिंपल्स मुक्त बनती है, बल्कि बाल भी चमकदार बनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सौंदर्य निखारने के साथ ही एलोवेरा कई तरह की बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक, नियमित रूप से एलोवेरा जूस का सेवन करने से कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है।

एलोवेरा में प्रोटीन, विटामिन समेत एंटी-ऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा में होती है, जो त्वचा के साथ ही पेट से जुड़ी बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। स्वाद में भले ही थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसके जूस का नियमित सेवन आपको स्वस्थ बनाने में मदद करता है। आयुर्वेद में एलोवेरा को बहुत महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक, आइए, जानते हैं एलोवेरा जूस के सेवन के कुछ फायदे।

कब्ज से राहत



जिन लोगों को कब्ज की समस्या या पेट से जुड़ी अन्य परेशानी रहती है, उन्हें नियमित रूप से सुबह उठने के बाद एलोवेरा जूस का सेवन करना चाहिए। एलोवेरा जूस में समान मात्रा में पानी मिलाकर पी सकते हैं। यदि आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो इसमें थोड़ा आंवले का जूस मिला लें। नियमित सेवन से कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी।

सिरदर्द से छुटकारा

जिन लोगों को अक्सर सिरदर्द की समस्या रहती है उनके लिए भी एलोवेरा बहुत फायदेमंद हो। रोजाना सुबह खाली पेट एलोवेरा जूस पीने से बार-बार होने वाले सिरदर्द से राहत मिलती है।

भूख न लगने की समस्या दूर करता है

यदि आपको भी भूख नहीं लगती है और इसके कारण कमजोरी आ गई है तो आपके लिए एलोवेरा जूस बहुत फायदेमंद है। दरअसल, नियमित रूप से एलोवेरा जूस पीने से पेट साफ रहता है और जब पेट साफ रहेगा तो भूख अपने आप खुल जाती है।

शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है

एलोवेरा जूस सुबह पीने से शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, यानी यह डिटॉक्सिफिकेशन का काम

करता है। दरअसल, रोजमर्रा के खान पान की गलत आदतों के कारण शरीर में कई तरह के टॉक्सिन जमा हो जाते हैं जिनकी सफाई एलोवेरा जूस पीने से हो जाती है।

खून की कमी दूर करता है

एलोवेरा का जूस लाल रक्त कोशिकाओं की बढ़ाने का काम करता है जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है, तो अब से रोजाना सुबह खाली पेट एलोवेरा का जूस पीना शुरू कर दीजिए।

मोटोपा कम करने में मददगार

एलोवेरा आपकी त्वचा को तो सुंदर बनाता ही है साथ ही यह शरीर को भी शेष में बनाए रखने में मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो वजन कम करने में सहायक है। नियमित रूप से एलोवेरा जूस पीने से अधिक खाने से होने वाला मोटापा कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि यह फैट को तेजी से कम करता है।


चमकदार त्वचा

सुंदर निखरी त्वचा की ख्वाहिश तो हर किसी को होती है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए थोड़ा सा कड़वा जूस पीना पड़े तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है। नियमित रूप से एलोवेरा का जूस पीने से चेहरे पर न सिर्फ ग्लो आता है, बल्कि मुहांसे और त्वचा से जुड़ी अन्य समस्याएं भी दूर होती हैं।

♦ कंचन सिंह

ऋषिकेश के इन खूबसूरत बीचों पर ले सकते हैं गोवा वाला मजा

आज हम आपको गोवा नहीं, बल्कि ऋषिकेश के खूबसूरत बीचों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हां, गंगा नदी में तट पर स्थित यह खूबसूरत बीच आपको गोवा वाला अनुभव देंगे। इन समुद्री तटों पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं बीच का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहला नाम गोवा का आता है। लेकिन आज हम आपको गोवा नहीं, बल्कि ऋषिकेश के खूबसूरत बीचों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हां, गंगा नदी में तट पर स्थित यह खूबसूरत बीच आपको गोवा वाला अनुभव देंगे। इन समुद्री तटों पर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं



गोवा बीच : ऋषिकेश में गोवा बीच मशहूर पर्यटक स्थलों में से एक है। जी हां, गोवा बीच नाम के इस समुद्री तट पर सफेद रेत एकदम गोवा जैसा अनुभव देता है। यहां अप समुद्र तट के किनारे बैठकर मौज मस्ती कर सकते हैं। यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है जहां लोग अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं।

शिवपुरी बीच : शिवपुरी बीच, ऋषिकेश के सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है। यहां के समुद्री तट पर आप नीले पानी के किनारे बैठकर प्राकृतिक खूबसूरती का अनुभव कर सकते हैं। यह बीच आपको एक

अलग ही सुकून पहुंचाएगा।
नीम बीच : ऋषिकेश का नीम बीच रिवर राफ्टिंग का आखिरी पॉइंट है। यहां आप सुबह की शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। यहां लोग सुबह की धूप का आनंद लेने भी आते हैं। इस बीच पर आप गाड़ी से भी घूम सकते हैं।

कौड़ियाला बीच : कौड़ियाला बीच, ऋषिकेश से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। यह राफ्टिंग के शौकीन लोगों लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। यह बीच गंगा के तट पर स्थित एक खूबसूरत बीच है। यह व्हाइट रिवर राफ्टिंग और नाइट कैंप के लिए प्रसिद्ध है। यहां जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच है।

वरिष्ठ गुफा बीच : वरिष्ठ गुफा बीच, ऋषिकेश की सबसे खूबसूरत और आध्यात्मिक जगहों में से एक है। सड़क के रास्ते जाते हुए एक आसान रास्ते से आप गुफा तक पहुंच सकते हैं। गुफा एक मंदिर के अंदर स्थित है, जहां मेडिटेशन करने से आपको ऊर्जा का अनुभव होगा। मंदिर के बगल में एक रास्ता सफेद रेत और विशाल कंकड़ वाले बीच की तरफ जाता है।

♦ प्रिया मिश्रा

आज का राशिफल

 मेष राशि : मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं अचानक आ सकती हैं। आज अष्टमी पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लें और जो गलती हुई उनसे क्षमा मांगें।	 वृष राशि : वृष राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में मानसिक शांति तथा सभी प्रकार की खुशियां देने वाला है। काम आसानी से बनेंगे।	 मिथुन राशि : मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय शांति से काम करने का है। विपरीत परिस्थितियों में दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम पर फोकस करें।	 कर्क राशि : कर्क राशि के जातकों की क्रिएटिविटी इस वक्त निखर कर आएगी। पितृ पक्ष में आपके पूर्वज आपको सेवा प्रसन्न होंगे इससे धन लाभ के भी योग बन रहे हैं।
 सिंह राशि : सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने का दिन है जो भी कार्य करेंगे उसके सुखद परिणाम मिलेंगे। मेहनत के बाद भी पैसा हाथ नहीं आ पा रहा है।	 कन्या राशि : कन्या राशि के जातकों के मन में इस वक्त भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पितृपक्ष में बड़ों के साथ व्यवहार ठीक रखें। कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है।	 तुला राशि : तुला राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में कुछ सुस्ती का माहौल रहेगा। बचत के प्रति ज्यादा फोकस रहेंगे। आय-व्यय बराबर रहेगा।	 वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि के लोगों के लिए धन के मामले में अच्छा दिन है। इससे मन प्रसन्न रहेगा। पितृ पक्ष चल रहे अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखें और उनका पूजन करें।
 धनु राशि : नौकरी में परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं तो अभी कुछ समय इंतजार करें। लोक डाउन की स्थिति खत्म होने के बाद ही ऐसा कोई स्टेप लेना आपके लिए हितकर होगा।	 मकर राशि : मकर राशि के जातकों पर कामकाज का प्रेशर अत्यधिक रहेगा, जिसे मैनेज करने का प्रयास असफल रहेगा। जिसकी वजह से करीब जनों से रिश्ते भी खराब हो सकते हैं।	 कुंभ राशि : कुंभ राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र में एक सुकून भरा दिन है। मन प्रसन्न रहेगा। पितृपक्ष में आज पिता की याद सताएगी। ऑफिस के सभी काम आसानी से पूर्ण होंगे।	 मीन राशि : मीन राशि के जातक वर्क फ्रॉम होम में भी आत्मविश्वास के साथ उल्साह से काम करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। कई जगहों से आर्थिक मामलों में संपन्नता आने के रास्ते खुल सकते हैं।

KASHYAP'S DENTAL CLINIC



Dr. Vaibhav Kashyap

Oral & Dental Surgeon, C.c. Endodontist & Implantologist Certified Orthodontist, MIDA

"Smiles & More"

छात्र-छात्राओं के लिए

50% की छूट



Facilities

- ❖ आरसीटी
- ❖ पायरिया का ईलाज
- ❖ टेढ़े-मेढ़े दांतों का ईलाज
- ❖ स्मार्टल डिजाइन
- ❖ इनविजिवल क्लिप
- ❖ दंत रोपण
- ❖ फिक्स दाँत लगाना
- ❖ अत्याधुनिक मशीन और तकनीक के द्वारा ईलाज

CHAMBER

SKYLINE - 4006, 4th Floor, Kadru, Opp. Dr. Lal's Hospital, Ranchi
 Contact No. : 9199533383, 7903835453
 Time : 9 am to 2 pm & 4 pm to 8 pm
 Sunday : 9 am to 2 pm
 E-mail : vaibhav.kashyap2011@gmail.com

न्यूज गैलरी

दिल्ली में तीन दिन नहीं बिकेगी शराब

नयी दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में तीन दिन शराब नहीं बिकेगी। शुक्रवार शाम से तीन दिन तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस सूचना के बाद दिल्ली में शराब के शौकियों में बैचनी फैल गई है और वे शराब के जुगाड़ में जुट गए हैं। पर घरबाने की बात नहीं है सिर्फ 2 दिसम्बर को शाम साढ़े पांच बजे से 4 दिसम्बर, 2022 को शाम 5.30 बजे तक और फिर से 7 दिसम्बर, 2022 को दिल्ली में मतगणना के दिन ड्राय डे घोषित किया है। आबकारी विभाग ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार शाम से तीन दिनों तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तीन दिन का प्रतिबंध चुनाव प्रचार खत्म होने से लेकर मतदान खत्म होने तक लागू रहेगा। 7 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो शराब बिक्री पर फिर से रोक रहेगी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी।

सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार फिर हुआ ऐतिहासिक नवाचार

नयी दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहे नवाचार नया-नया इतिहास रच रहे हैं। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में तीसरी बार गुरुवार को महिला जजों की बेंच गठित की गयी है। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वैवाहिक विवाद और जमानत के मामलों से जुड़ी स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई के लिए न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी वाली पूरी तरह महिला न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की। पीठ के समक्ष 32 मामले सुचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें से वैवाहिक विवाद और जमानत वाली 10-15 स्थानांतरण याचिकाएं हैं। स्थानांतरण याचिका वे याचिका होती हैं, जिनमें किसी मामले को राज्य एजेंसियों से केंद्रीय एजेंसी या किसी उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया जाता है। गौरतलब है कि इससे पहले पूरी तरह से महिला पीठ का गठन 2013 में किया गया था, जब न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायाधीश रजना प्रसाद देसाई की पीठ का गठन हुआ था। इसके बाद 2018 में न्यायाधीश आर भानुमति और न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी की पीठ का गठन किया गया। अभी उच्चतम न्यायालय में तीन महिला न्यायाधीश हिमा कोहली, वीवी नारदा और बेला एम त्रिवेदी हैं। नागरा का 2027 में देश की पहली प्रधान न्यायाधीश बनना तय है। उच्चतम न्यायालय में अभी सीजेआई समेत 27 न्यायाधीश हैं, जबकि इसकी कुल क्षमता 34 न्यायाधीशों की है।

एलएसी के पास चीन बना रहा सैन्य चौकी, अमेरिकी सांसद ने खोली पोल

वाशिंगटन (एजेंसी)। चीन ने फिर से भारत की आंखों में धूल झाँकते हुए एलएसी के पास एक और सैन्य चौकी का निर्माण किया है। जुलाई 2022 में 16वें दौर की कमांडर लेवल वार्ता में चीन ने वादा

■ चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने की करता है बात

किया था कि उसकी सेनाएं पीछे हटेंगी। चीन का भारत के साथ पिछले लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने दुनिया के सामने चीन के खतरनाक इरादे का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास चीन द्वारा सैन्य चौकी का निर्माण किया जाना अपने पड़सियों के प्रति चीनी आक्रामकता का चिंताजनक संकेत है। चीन लगातार एलएसी पर अलग-अलग तरह के निर्माण कर रहा है, जिसकी खबरें और तस्वीरें आप दिन सामने आती हैं। एलएसी पर एक ओर तो चीन अपने सैनिकों को पीछे हटाने की बात करता है, लेकिन दूसरी ओर उसकी सेना वहां हेडक्वार्टर और सैन्य चौकियों का निर्माण कर रही है।



भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद

बता दें, चीन आए दिन ऐसी कोई न कोई गलत हरकत करता रहता है, जिससे संबंधित मुद्दे पर और तनाव बढ़े। चीन का भारत के साथ पिछले लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है, कई बार हालात काफी बिगड़ भी गए। इस बीच अमेरिका के सांसद ने इस संबंध में आई एक खबर के बाद इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें, विदेशी न्यूज पेपर 'पोलिटिको' ने बुधवार को दावा किया कि चीन ने भारत के साथ विवादित सीमा के पास एक सैन्य चौकी बनायी है।

अमेरिका ने कहा-

हम भारत के साथ

अमेरिकी सांसद ने कहा कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की एक नयी चौकी संबंधी खबर बीजिंग की बढ़ती क्षेत्रीय आक्रामकता का एक और चिंताजनक संकेत है, जो अमेरिका का भारत और अन्य सुरक्षा साझेदारों के साथ संयुक्त प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता को दोहराता है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन की इन हरकतों के बीच भी अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ इंटेलेजेंस और सैन्य सहयोग के क्षेत्र में साझेदार रहता है। इससे यह संदेश मिलता है कि अमेरिका भारत, ताइवान और चीन का सामना कर रहे अन्य देशों के साथ है।

भोपाल : एशिया का सबसे बड़ा एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर तैयार



भोपाल (एजेंसी)। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 20 किमी. दूर शीलखेड़ा में एशिया का सबसे बड़ा एटमॉस्फेरिक रिसर्च सेंटर अब पूरी तरह तैयार हो गया है। इसकी मदद से 300 किमी. दूर मौसमी सिस्टम किस रास्ते आयेगा, बादल कहां से कैसे आयेगा, कहां ओले गिरेगा और कहां कितना पानी

■ 300 किमी. दूर बना मौसमी सिस्टम किस रास्ते आयेगा, कहां ओले गिरेगे पहले चलेगा पता

अगले महीने होगा उद्घाटन सेंटर की इलेक्ट्रिकेशन, इंटरनेट से जुड़ी सुविधाएं बाइंडीवाल समेत अन्य व्यवस्थाएं पूरी हो गयी हैं। अगले महीने केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में इसका औपचारिक उद्घाटन किया जायेगा। इस सेंटर में पुणे, बंगलुरु, कोलकाता सहित देश के कई शहरों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। आनेवाले दिनों में और भी कई शहरों के वैज्ञानिक यहां काम के लिए आयेगे। कृष्णन ने बताया कि इस सेंटर में विंड प्रोफाइलर रडार भी लगाया गया है। इसके जरिए जमीन से 12 किमी. ऊंचाई पर वायुमंडल में हवा का रुख क्या है उसमें कितनी नमी है, इसकी भी सटीक जानकारी मिल जायेगी।

कांग्रेस नेताओं में मुझे गाली देने की मची है होड़ : मोदी

अहमदाबाद (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की रावण वाली टिप्पणी का उल्लेख करते हुए गुरुवार को कहा कि प्रमुख विपक्षी दल के नेताओं के बीच उन्हें गाली देने की होड़ मची है। खड़गे से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने मोदी के खिलाफ ओकात बता देने संबंधी टिप्पणी की थी। पंचमहल जिले के कलोल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची है कि कौन मोदी को सबसे गंदी गाली देगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर कभी यकीन नहीं किया, वे अब रामायण के रावण को लेकर आए हैं। मुझे आश्चर्य है कि मेरे लिए ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, माफी मांगने के बारे में तो भूल ही जाओ।



मातृ मृत्यु दर में आयी गिरावट बहुत ही उत्साहजनक

मातृ मृत्यु दर में आयी गिरावट को बहुत ही उत्साहजनक : मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में आयी गिरावट को बहुत ही उत्साहजनक करार देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े सभी पहलुओं पर केंद्र सरकार मजबूती से काम कर रही है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसूख मांडविया की ओर से साझा किए गए उस ट्वीट पर आयी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एमएमआर में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज हुई है और यह देश में एक नया मील का पत्थर है। उन्होंने कहा था, मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में महत्वपूर्ण गिरावट आई, प्रति लाख 2014- 16 में 130 से घटकर 2018-20 में 97 जीवित प्रसव हो रहे हैं।

कोरोना संक्रमण : देशवासियों के लिए राहत

नयी दिल्ली (एजेंसी)। देशवासियों के लिए राहत भरी खबर है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना महामारी के संक्रमण से किसी भी मरीज की जान नहीं गयी। मृतकों का आंकड़ा 5,30,622 पर बरकरार है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि सुबह सात बजे तक 219.92 करोड़ से अधिक टीके दिये जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 88 सक्रिय मामले कम होने से इनकी संख्या घटकर 4,76,7 रह गयी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बताया कि इस अवधि में कोरोना संक्रमण से 377 लोगों के मुक्त होने से कुल संख्या बढ़कर 4,41,37,249 हो गयी है और स्वस्थ होने की दर 98.80 प्रतिशत है।

मुंबई में कोरियाई लड़की से छेड़छाड़, दो गिरफ्तार

कोरिया से आयी एक व्लांगर मुंबई में कर रही थी स्ट्रीमिंग, इसी दौरान युवकों ने की बदसलूकी

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई से देश को शर्मसार करनेवाली घटना सामने

- एक युवक ने उसका सिर पकड़कर किस करने का किया प्रयास
- लड़की ने टिवटर पर पोस्ट किया वीडियो, पुलिस हुई सक्रिय



आई है। कोरिया से मुंबई आई एक व्लांगर के साथ छेड़छाड़ की गई। यूट्यूबर यह युवती मुंबई के एक गली में वीडियो बना रही थी, इसी दौरान कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस करतूत का वीडियो भी सोशल मीडिया में

गुरुवार को आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियो शेयर करनेवाले एक टिवटर अकाउंट पर दावा किया गया है कि पीड़िता दक्षिण कोरिया की नागरिक है। युवती रात करीब 8 बजे उपनगरीय खार इलाके में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। इसी दौरान यह घटना हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान मोबीन चंद मोहम्मद शेख (19) और मोहम्मद नकीब सदरियालम अंसारी (20) के रूप में हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद खार पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर कॉलेज में बवाल

बंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के बेलगावी में एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट्स ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल, इंटर-कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान उस स्टूडेंट ने कर्नाटक का झंडा लहरा दिया। इसके चलते सेकेंड ईयर के उस स्टूडेंट को उसके क्लासमेट्स ने मिलकर पीट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना गोगटे कॉलेज की है, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद के चलते हुई। स्टूडेंट को पिटाई के विरोध में कन्नड़ संगठन ने प्रदर्शन किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसके अलावा महाराष्ट्र समर्थक स्टूडेंट्स की भी पिटाई की। वहीं, कन्नड़ संगठन ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति बेलगावी में माहौल खराब कर रही है। सीमा धारणा के चलते झंडा फहराने वाले स्टूडेंट के साथ मारपीट की गई।

फेस्टिवल के दौरान छात्र ने कर्नाटक का झंडा लहराया, पूरी क्लास ने पीटा

मारपीट करनेवाले सभी स्टूडेंट्स हैं नाबालिग

बेलगावी में स्टूडेंट की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में कई स्टूडेंट्स डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कर्नाटक का झंडा लहरा कर डांस कर रहा है। झंडा देखते ही अन्य स्टूडेंट्स मिलकर उसे पीटने लगते हैं। इस मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही स्टूडेंट्स को थाने बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि मारपीट में शामिल सभी छात्र नाबालिग हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।



कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि महाराष्ट्र का आवेदन विचार योग्य नहीं है। हमारे वकीलों ने यही तर्क दिया है। हमारा रुख संवैधानिक और कानूनी है।



पूर्व मंत्री शमरेश सिंह का निधन
अपूरणीय क्षति : संजय सिंह यादव

रांची। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने पूर्व मंत्री शमरेश सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इनका निधन अपूरणीय क्षति है। झारखंड से एक दिग्गज नेता हमलोगों के बीच से चले गए हम सभी मर्मित हैं दुखी है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके दुखी परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दें। प्रदेश राजद के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने पूर्व मंत्री शमरेश सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा की झारखंड से एक अच्छे एवं दिग्गज नेता हमलोगों ने खो दिया, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। उनके निधन पर पूर्व सांसद धुरन राम, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, राधा कृष्ण किशोर, मुख्य प्रवक्ता डॉ. मनोज कुमार, उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह, लक्ष्मण यादव, हरदेव साहू, मदन यादव, अजय चंद्रवंशी सहित अन्य नेताओं ने गहरी संवेदना एव दुख व्यक्त किया है।

राज्य सरकार के पूर्व मंत्री समरेश सिंह के निधन पर सुबोधकांत सहाय ने जताया शोक

रांची। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, बोकारो के पूर्व विधायक व लोकप्रिय श्रमिक नेता समरेश सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री सहाय ने अपनी शोक संवेदना में कहा है कि स्व. सिंह एक जुझारू जनप्रतिनिधि थे। जनसमस्याओं के समाधान के प्रति संघर्षरत रहते हुए सतत प्रयासरत रहा करते थे। वह जीवनपर्यंत जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति सजग रहे। श्रमिक हित में उनका योगदान अविस्मरणीय है। श्री सहाय ने कहा कि स्व. सिंह राजनीतिक जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में संघर्ष के साथी रहे। उनका जुझारू व्यक्तित्व राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रेरणास्रोत है। श्री सहाय ने दिवंगत की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की ईश्वर से कामना की।

एड्स को मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करें : डॉ. एमएन सिंह



रांची। गुरुवार को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर सिटी नॉर्सिंग कॉलेज एवं पारामेडिकल एवं अंकुर इंस्टीट्यूट ऑफ़ फार्मसी के संयुक्त तत्वाधान में एड्स जागरूकता अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं ने काफी बड़ चढ़ कर हिस्सा लिया साथ ही रॉय रोड पिरकामोड टी.ओ. पी. पर नुककड नाटक का आयोजन कर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। एड्स को मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। छात्राओं ने इस नुककड नाटक के माध्यम से लोगों को एड्स के बारे में अवधारणा, एड्स से बचाव, एड्स रोकथाम के उपाय एवं एड्स हो जाने पर उसके उपचार के बारे में काफी विस्तारपूर्वक बतलाया। इस एड्स जागरूकता अभियान रैली एवं नुककड नाटक का शुभारंभ मुख्य अतिथि कॉलेज के चेयरमैन डॉ. एम.एन.सिंह एवं विशिष्ट अतिथि छात्र सलब चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव किशोर शर्मा, संरक्षक डी.के. सिंह जी ने हरी झंडी दिखाकर किया। मौके पर डॉ. एम.एन.सिंह ने कहा सावधानी एवं जागरूकता घर-घर पहुंचाना है और सारे जहां से एड्स को मिटाना है। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्यरूप से कॉलेज के प्राचार्या डॉ. मुगालिनी, निदेशक मुकेश कुमार सहित मनीषा किस्कू, जुही प्रिया, समीरा माधुरी टोपानो, रागिनी कुमारी, डॉ. मयंक, डॉ. निलय राय, सिकंदर कुमार, संतोष सिन्हा एवं कॉलेज के अन्य कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निर्मला कॉलेज में एड्स डे पर जागरूकता कार्यक्रम

रांची। निर्मला कॉलेज में गुरुवार को एनएसएस इकाई आई डे से वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस गीत के साथ हुई। इस दौरान स्वयंसेवकों ने पोस्टर तथा स्लोगन से एड्स के प्रति छात्राओं को जागरूक किया। मौके पर प्राचार्या डॉ. सिस्टर ज्योति, रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. आशीष झा, एनएसएस के तीनों यूनिट की प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. सिस्टर सुपमा, डॉ. रंजु कुमारी एवं डॉ. मनीषा मौजूद थीं।

रांची के कांके स्थित उपरकोनकी के मरवा गांव में 20.5 एकड़ में बना मनरेगा पार्क

रोजगार की गारंटी दे रहा मनरेगा पार्क, अनोखे ढंग से हो रहा ग्रामीणों का आर्थिक सशक्तिकरण

नवीन मेल संवाददाता
रांची। अपने फ्लावर पार्क या फूड पार्क के बारे में जल्द सुना और देखा होगा, लेकिन बात अगर मनरेगा पार्क की करें, तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जायेंगे। एक ऐसा पार्क जहां लोगों के रोजगार का सृजन हो रहा है। एक ऐसा पार्क जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, जो ग्रामीणों के वर्तमान से लेकर भविष्य को संभालने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार की इच्छाशक्ति और ग्रामीणों की मदद से मनरेगा की 37 से ज्यादा योजनाएं आपको इस पार्क में दिख जाएंगी। सिंचाई कृषि, वीदी बाड़ी, चर्मी कम्पोस्ट, टीसीबी, शोध सहित मनरेगा से संबंधित अन्य योजनाएं यहां धरातल पर उतर चुकी हैं।



स्थायी परिसंपत्तियों का भी हो रहा निर्माण
हम बात कर रहे हैं रांची के कांके प्रखण्ड स्थित उपरकोनकी गांव में बने मनरेगा पार्क की। यहां मनरेगा की 37 से ज्यादा योजनाएं धरातल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती दिख रही हैं। मनरेगा का निर्माण 19 परिवारों को मिला कर 20.5 एकड़ भूमि पर किया गया है। ग्राम उपरकोनकी के ग्रामीणों को यहां महीने में कम से कम 20 दिन रोजगार की गारंटी है। 20.5 एकड़ में यह पार्क न सिर्फ ग्राम विशेष में स्थायी परिसंपत्ति का सृजन करेगा, बल्कि संबंधित प्रखण्ड में रोजगार संभलने वाले श्रमिकों को रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित करेगा।

राष्ट्रीय नवीन मेल

फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (आईडीए) फाइलेरिया व कालाजार के कम्युनिकेशन कैम्पेन का किया गया शुभारम्भ

फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जन समुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी : बन्ना

नवीन मेल संवाददाता
रांची। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता के लिए जनसमुदाय की भागीदारी बहुत जरूरी है। राज्य को फाइलेरिया एवं कालाजार रोग से मुक्त करने के लिए एक साथ मिशन मोड में कार्य करें। वे उदगार, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में आईडीए एवं फाइलेरिया और कालाजार के कम्युनिकेशन कैम्पेन के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में उद्घाटन के दौरान व्यक्त किये। इस अवसर पर उन्होंने फाइलेरिया एवं कालाजार रोग के सम्बन्ध में सिने कलाकार मनोज वाजपेयी द्वारा लोगों को फाइलेरिया के सम्बन्ध में ऑडियो-विजुअल के माध्यम से दिए गए संदेशों के पैकेज का भी उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए फाइलेरिया या हाथीपांव रोग से बचाने के



लिए राज्य के 7 जिलों यथा- पलामू, लातेहार, सराकेला, जामताड़ा, चतरा, दुमका और गोड्डा में गुरुवार 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (आईडीए) चलाया जाएगा। इन जिलों में 3 दवाओं डीईसी, अल्बेंडाजोल के साथ आईवरमैक्टिन की निर्धारित खुराक दवा प्रशासकों द्वारा बूथ एवं घर-घर जाकर अपने सामने मुफ्त खिलाई जाएगी। यह दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस अवसर पर में स्वास्थ्य मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं अधिवायन निदेशक ने स्वयं फाइलेरिया रोधी दवाएं खाकर अभियान की शुरुआत की। इस बीमारी से स्वयं और अपने परिजनों को सुरक्षित रखने के लिए फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन अवश्य करें और सभी को करवाएं। स्वास्थ्य मंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को वे भी निर्देश दिए कि फाइलेरिया एवं कालाजार रोग के सम्बन्ध

◆01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (आईडीए) चलाया जाएगा। इन जिलों में मैं 3 दवाओं डीईसी, अल्बेंडाजोल के साथ आईवरमैक्टिन की निर्धारित खुराक दवा प्रशासकों द्वारा बूथ एवं घर-घर जाकर अपने सामने मुफ्त खिलाई जाएगी।

में सिने कलाकार मनोज वाजपेयी द्वारा लोगों को फाइलेरिया और कालाजार बीमारियों के सम्बन्ध में ऑडियो-विजुअल के माध्यम से दिए गए संदेशों को अंतर विभागीय समन्वय बनाकर प्रत्येक संभावित प्लेटफार्म द्वारा प्रसारित करवाया जाये ताकि जन-समुदाय में इन बीमारियों से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच

सके। इस अवसर पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड, अरुण कुमार सिंह ने बताया कि फाइलेरिया या हाथीपांव रोग स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या है। राज्य सरकार फाइलेरिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए राज्य के उपरोक्त 7 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में कोविड-19 दिशानिर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को फाइलेरिया रोधी दवाओं की निर्धारित निःशुल्क खुराक का सेवन प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा अपने सामने कराये जाने का लक्ष्य है। आईडीए के पहले दिन नामित बूथों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, वार्ड कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में किया जाएगा।

आजसू की मारवाड़ी कॉलेज इकाई का गठन संपन्न



नवीन मेल संवाददाता
रांची। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज इकाई की बैठक कॉलेज प्रभारी राहुल तिवारी की अध्यक्षता में की गई मौके पर मुख्य अतिथि रांची विवि उपाध्यक्ष अभिषेक शुक्ला एवम कॉलेज अध्यक्ष जमाल गद्दी उपस्थित रहे। जिसमें पुरानी कमेटो को भंग कर नई पुरुष एवम महिला कड नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई जो इस प्रकार है।

दुग्गल, विशाल गुप्ता, अनमोल कुमार, मयंक कुमार सिंह, आशीष कुमार, प्रभात कुमार, साहिल कुमार हैं, सचिव-दीपक कुमार, सहसचिव-निलेश कुमार, आयुष कुमार, मारवाड़ी कॉलेज महिला इकाई : प्रभारी - प्रेरणा कुमारी, अध्यक्ष-आलिया अख्तर, उपाध्यक्ष- पूजा बाला, नेहा कुमारी, तनु कुमारी, इसमित कौर, सोनी लकड़ा, शिवानी कुमारी, अनिता कुमारी बेदिया, बसंती कुमारी, सचिव-संध्या कुमारी, सहसचिव-आरजु परवीण, शोभा यादव, मेहर परवीण आदि शामिल हैं। इन सबके अलावा कई और छात्र-छात्राओं को कई दायित्व सौंपा गया।

श्रमिक संघों के विरोध प्रदर्शन में कोल निर्माण समेत सभी सेक्टर के कर्मी होंगे शामिल

रांची। श्रमिक संगठनों की ओर से दो दिसंबर को देशव्यापी विरोध दिवस का आयोजन किया जायेगा। इस दिन कर्मी केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं के प्रति विरोध दर्ज करेंगे। जिसमें कोल, कारखाना, मेडिकल, निर्माण से लेकर सभी सेक्टर के मजदूर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए सीटू के प्रकाश विल्व व बताया कि सभी कर्मी अपने-अपने कार्य स्थल पर ही विरोध दर्ज करेंगे। इसमें काम बाधित नहीं किया जायेगा। इस दौरान वर्क प्लेस और सार्वजनिक स्थानों पर ही विरोध प्रदर्शन की जायेगी। प्रकाश ने कहा कि 26 नवंबर 2020 को ट्रेड युनियनों और श्रमिक फेडरेशनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल की गयी थी। कृषि बिल के विरोध में भी तब प्रदर्शन किये गये थे। केंद्र सरकार अपनी वायदों के मुताबिक किसानों और श्रमिकों को खुश नहीं कर पा रही है।

झारखंड ट्राइबल डेवेलोपमेंट सोसाइटी द्वारा 15 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित

मधुमक्खी पालन व मधु प्रसंस्करण परियोजना की लोगों को दी गयी जानकारी

नवीन मेल संवाददाता
रांची। झारखंड ट्राइबल डेवेलोपमेंट सोसाइटी के आयोजन से एवं भारतीय लोक कल्याण संस्थान के क्रियान्वयन द्वारा 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आसनबेरिया पंचायत भवन, जामताड़ा में किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन एवं मधु प्रसंस्करण परियोजना के अंतर्गत लाभार्थियों का प्रशिक्षण जो कि भारतीय लोक कल्याण संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया। वृहस्पतिवार को प्रशिक्षण के छठे दिन प्रशिक्षण का कार्य मुख्य प्रशिक्षक आकाश कुमार व चन्द्रेश्वर ओझा ने किया। जिसमें देवकिशोर कुमार का विशेष सहयोग रहा। इस परियोजना के अंतर्गत फतेहपुर ब्लॉक के आसनबेरिया ग्राम (10) एवं अंधारो



ग्राम (10) और आमशहरी ग्राम (10) कुल 30 लाभार्थी प्रशिक्षण से शामिल हुए। प्रशिक्षण के छठे दिन प्रशिक्षकों ने मधुमक्खी पालन से संबंधित विभिन्न विषयों मुख्यतः मधुमखियों के रखखाव, निर्वहन, मधुमखियों के भोज्य पदार्थ तथा मधुमक्खी पालन के लिए सुयोग्य वातावरण तथा कुछ सफल मधुपालक का परिचय व उनकी सफलता की कहानी बताया गया तथा इत्यादि विषयों को व्यवहारिक व प्रयोगात्मक रूप में अध्ययन कराया गया तथा प्रोजेक्टर लैपटॉप के माध्यम से आसान फोटो व वीडियो के माध्यम से आसान व विस्तृत रूप से भी सभी लाभुकों को समझाया गया तथा मधुमक्खी पालन करने को प्रेरित किया गया साथ ही साथ मानसिक व बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण के साथ-साथ मनोरंजन के लिए विभिन्न खेल भी कराया गया।

विश्व एड्स दिवस: सम्यक आचरण एवं सतर्कता से ही रोकथाम संभव : संजय कुमार

नवीन मेल संवाददाता
रांची। एस.आर.डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल पुंदाग में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए. कक्षा एकादश के विद्यार्थियों ने पोस्टर बनाकर एड्स के प्रति विद्यालय में बच्चों के बीच जागरूकता फैलाया। प्रातःकालीन सभा में विद्यार्थियों ने एड्स कारण एवं नियंत्रण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। विज्ञान विभाग की अध्यापिकाएं इंद्रु प्रसाद तथा सरोज मिश्रा ने बच्चों को एड्स से संबंधित अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियां दीं।



रांची। एस.आर.डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल पुंदाग में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए. कक्षा एकादश के विद्यार्थियों ने पोस्टर बनाकर एड्स के प्रति विद्यालय में बच्चों के बीच जागरूकता फैलाया। प्रातःकालीन सभा में विद्यार्थियों ने एड्स कारण एवं नियंत्रण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। विज्ञान विभाग की अध्यापिकाएं इंद्रु प्रसाद तथा सरोज मिश्रा ने बच्चों को एड्स से संबंधित अनेक ज्ञानवर्धक जानकारियां दीं।

रांची। अपने आप में कोई बीमारी नहीं, बल्कि सिंड्रोम है. इससे मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बाधित हो जाती है, जिससे कई भी बीमारी खतरनाक रूप ले सकती है। जागरूकता तथा सतर्कता से ही इससे बचा जा सकता है. उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे पौष्टिक भोजन करें, साथ में योग, ध्यान, प्राणायाम आदि से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेंगी। सभा में सभी विद्यार्थी तथा शिक्षक झ झशिकाएं उपस्थित थीं।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में...

उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गयी। बैठक में झारखंड विधान-मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2015, झारखंड विधान-मंडल सचेतक (सुविधा और भत्ता) नियमावली, 2015, झारखंड विधान सभा के पदाधिकारी (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, 2015 तथा झारखंड विधान-मंडल नेता-विरोधी दल (वेतन और भत्ता) नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। राज्य आपदा मिशन निधि (एसडीएमएफ) का गठन करने की भी स्वीकृति दी गयी।

(5) मौजा- गड़या अर्तर्निहित कुल रकबा 10.46 एकड़ भूमि कुल देय राशि 78,08,35,963 /- (अठहतर करोड़ आठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ तिरसठ) रुपय मात्र की अदायगी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कॉरिडोर को विशेष रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गयी।

अस्पताल व डायग्नोसिस सेंटर का संचालन जारी रहेगा। इस दौरान एड्युकेटिंग अथोरिटी में मामला जायेगा। **जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता...** स्वभाव है। मैं इससे असहमत हूं। अगर मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है, तो हम सभी में मूलभूत एकात्मता की हिमायत करनेवाली इतनी सारी आध्यात्मिक परंपराओं के स्थायी आकर्षण को कैसे समझा जाये? उन्होंने कहा कि भारत में प्रचलित ऐसी ही एक परंपरा है जो सभी जीवित प्राणियों और यहां तक कि निर्जीव चीजों को भी एक समान ही पांच मूल तत्वों- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के पंचतत्व से बना हुआ मानती है। इन तत्वों का सामंजस्य- हमारे भीतर और हमारे बीच भी- हमारे भौतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण के लिए आवश्यक है। **गुजरात चुनाव: पहले चरण में...** सीटें मिली थीं। जबकि 2017 में पहले चरण में 89 सीटों पर 67.36 प्रतिशत मतदान हुए थे। जिसमें भाजपा को 48, काँग्रेस को 38, बीटीपी को दो, एससीपी एक सीटें मिली थीं। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत से प्रचार करके और लुभावने व कारगर लाभकारी योजनाओं के वादे पेश करके मुश्किल खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर 2017 के चुनाव के मतदान की तुलना में इस बार कम वोटिंग हुई है, इसका प्रभाव किस पार्टी पर कितना पड़ेगा यह वोटों की गिनती होने पर पता चलेगा। **कुख्यात माओवादी नारायण...** रिश्तेदारों के माध्यम से लेवी वसूल कर रिश्तेदारों के बैंक खातों में लेवी का पैसा जमा कराता था। उग्रवादी की गिरफ्तारी में शामिल पुलिसकर्मीयों में छतरपुर थाना प्रभारी शेखर कुमार, प्रियजन कुमार सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

(7) भोलीडीह, (8) मधवाडीह अर्तर्निहित विभिन्न ब्लॉक संख्या कुल रकबा -7.081 एकड़ (विभिन्न कैंसे की भूमि) कुल देय राशि 5,36,17,903 /- (पाँच करोड़ छत्तीस लाख सत्रह हजार नौ सौ तीन) रुपय मात्र की अदायगी पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को कॉरिडोर निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गयी। - धनबाद जिला अंतर्गत अंचल तोपचांची मौजा- (1) महायाडीह (2) मौजा- रामाकुंडा, (3) मौजा-नेन्दानवाडीह (4) मौजा- बरवाडीह (5) मौजा-मोहनपुर (6) मौजा- चैता अर्तर्निहित कुल रकबा - 8:26 एकड़ भूमि कुल देय राशि 14,54,83,949/- (चौदह करोड़ चौवन लाख तिरासी हजार नौ सौ उनवास) रुपये मात्र की अदायगी पर पूर्वी मध्य रेलवे (ईसीआर) को गोमो फ्लाईओवर के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गयी। - गिरिडीह जिला अंतर्गत अंचल-सरिया (1) मौजा-बड़की सरिया (2) मौजा-सरिया खुर्द (3) मौजा-करम्बा (4) मौजा-चिचाकी,

ग्राम स्वराज का सशक्त मॉडल होगा मनरेगा पार्क
मनरेगा पार्क योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का मॉडल है। यह ग्राम स्वराज का भी सशक्त मॉडल है। मनरेगा अंतर्गत विभिन्न परिसंपत्तियों का समेकित निर्माण कर उन्हें एक स्थल पर प्रदर्शित करने के लिए मनरेगा पार्क का निर्माण कांके प्रखण्ड के ग्राम उपरकोनकी में किया गया है। मनरेगा पार्क में कम से कम 37 प्रकार की परिसंपत्तियों का एक ही क्षेत्र में प्रत्यक्ष किया जा सकता है। पार्क का निर्माण होने से परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग एवं उचित प्रबंधन किया जा सकेगा। साथ ही सालों भर उस स्थान पर रोजगार का सृजन हो सकेगा एवं लाभुकों को रोजगार से जोड़ा जा सकेगा।

नवीन मेल संवाददाता
रांची। अपने फ्लावर पार्क या फूड पार्क के बारे में जल्द सुना और देखा होगा, लेकिन बात अगर मनरेगा पार्क की करें, तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जायेंगे। एक ऐसा पार्क जहां लोगों के रोजगार का सृजन हो रहा है। एक ऐसा पार्क जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, जो ग्रामीणों के वर्तमान से लेकर भविष्य को संभालने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार की इच्छाशक्ति और ग्रामीणों की मदद से मनरेगा की 37 से ज्यादा योजनाएं आपको इस पार्क में दिख जाएंगी। सिंचाई कृषि, वीदी बाड़ी, चर्मी कम्पोस्ट, टीसीबी, शोध सहित मनरेगा से संबंधित अन्य योजनाएं यहां धरातल पर उतर चुकी हैं।

इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान पर 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

रावलपिंडी (एजेंसी)। 17 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलने पहुंचे इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में ही अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन टीम ने 75 ओवर में 4 विकेट पर 506 रन बना डाले। टेस्ट क्रिकेट के 145 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब पहले ही दिन किसी टीम ने 500 रन बनाए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1910 में टेस्ट के पहले दिन 494 रन बनाए थे। इस तरह इंग्लैंड ने पहले दिन सबसे ज्यादा रन बनाने का 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। इंग्लैंड के हेरी ब्रूक ने इस दौरान एक ओवर में 6 चौके जड़े। वह टेस्ट में ऐसा करनेवाले पांचवें बल्लेबाज बने। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दिन का खेल खत्म होते-होते 15 बॉल पर ताबड़तोड़ 34 रन बनाए। उन्होंने दिन के आखिरी ओवर में 18 रन जड़े। उनके साथ हेरी ब्रूक 101 रन पर नाबाद हैं। शुक्रवार सुबह 10 बजे से दूसरे दिन का खेल शुरू होगा।

स्टीव स्मिथ ने ब्रेडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी की

पर्थ (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने हमवतन सर जॉन ब्रेडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पहले मैच में उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 29वां शतक लगाया। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट में ब्रेडमैन के 29 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की। स्मिथ के 87 टेस्ट की 154 पारियों में 60 की औसत से 8161 रन हैं। उन्होंने 36 हाफ सेंचुरी भी लगाई हैं। 239 रन उनका बेस्ट स्कोर है। स्मिथ वनडे में भी 12 शतक जड़ चुके हैं। स्मिथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 311 गेंदों में नाबाद 200 रन बनाए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट पर 598 रन पर पारी घोषित कर दी। स्मिथ ने मार्नस लाबुशेन के साथ तीसरे विकेट के लिए 251 रनों की साझेदारी की। लाबुशेन ने 350 गेंदों पर 204 रन बनाए। वहीं वेस्टइंडीज ने पहली पारी में बिना विकेट खोए 60 से ज्यादा रन बना लिए हैं। स्मिथ के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 41 शतक हो गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। वर्तमान में क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली के हैं। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और टी-20 में ओवर ऑल 71 शतक हैं। इसमें वनडे में 43, टेस्ट में 27 और टी-20 में एक शतक शामिल है।

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बांग्लादेश को झटका

ढाका (एजेंसी)। भारत के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले से पहले बांग्लादेश टीम को झटका लगा है। भारत और बांग्लादेश के बीच चार दिवसों का मीरपुर में पहला वनडे मैच खेला जाना है। उससे पहले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद बैक प्रॉब्लम के कारण मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। हालांकि वह सीरीज के अन्य दो मुकाबले के लिए टीम में बने रहेंगे या नहीं इस पर भी फैसला नहीं लिया गया है। टीम प्रबंधन उनकी इंजरी पर नजर रखी हुई है। फिलहाल शोरिफुल इस्लाम को वनडे टीम में उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया है। बांग्लादेश के सेलेक्शन कमेटी के चीफ मिनहाजुल ने एक क्रिकेट टी वेबसाइट को पहले वनडे मुकाबले से तस्कीन अहमद के बाहर होने की पुष्टि की है। एक वेबसाइट के मुताबिक अनुभवी बल्लेबाज तमीम इकबाल भी 30 नवंबर को मीरपुर के शेर-ए-बाग्ला नेशनल स्टेडियम में अभ्यास के दौरान चोटिल हो गए। उन्हें कमर में चोट लगी है। उनकी सिटी स्कैन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उनकी मेडिकल टीम चोट पर नजर बनाए हुए है। मेडिकल टीम की रिपोर्ट के बाद ही भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में उनके खेलने को लेकर फैसला किया जाएगा।

फीफा विश्व कप : 16 साल बाद ऑस्ट्रेलिया राउंड ऑफ-16 में पहुंचा

ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू लेकी के किया एकमात्र गोल

कतर (एजेंसी)। मैथ्यू लेकी के एकमात्र गोल ने ऑस्ट्रेलिया को 2006 के बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ-16 में पहुंचा दिया। कतर के अल जनाब स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क पर 1-0 से जीत हासिल की। पहला हाफ गोल रहित जाने के बाद लेकी ने दूसरे हाफ में 60वें मिनट पर गोल दगा और अपनी टीम को अगले दौर में प्रवेश कराया। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया छह अंकों, दो जीत और एक हार के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। जबकि डेनमार्क के नाम एक ड्रॉ और दो हार के साथ सिर्फ एक अंक है और वह टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। पहले लोको की खोज में दोनों टीमों ने लगातार प्रयास किए लेकिन पहले हाफ में किसी



को सफलता नहीं मिली और स्कोरलाइन गोलरहित रहा। 58वें मिनट में लिंडस्ट्रोम के फाउल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को फ्री-किक मिली। मिलोस डेगेनेक ने फ्री-किक ली, लेकिन इससे गोलकीपर को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। मैच

के 60वें मिनट में, मैथ्यू लेकी ने खुद को एक डिफेंडर के आमने-सामने की स्थिति में पाया, लेकिन चुनौती पर काबू पाते हुए उसे पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत दिलाने के लिए उन्होंने गेंद को गोल पोस्ट के कोने डाल इसका

जश्न मनाया। जैसे-जैसे मिनट बीतते गए, डेनमार्क पूरी तरह से बेरंग और मैच से बाहर दिख रहा था। पिछड़ने के बाद उन्होंने बराबरी का गोल करने का इरादा नहीं दिखाया। आखिरी सीटी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की जीत के साथ अंतिम 16 में प्रवेश किया।

वनडे रैंकिंग में विराट-रोहित को नुकसान, श्रेयस, संजू और शुभमन ने लगायी छलांग

दुबई (एजेंसी)। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गये तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 1-0 से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के कुछ देर बाद इंटरनेशनल क्रिकेट कार्डिसिल (आईसीसी) ने ताजा रैंकिंग जारी की है। वनडे की रैंकिंग की बात की जाए तो बल्लेबाजों में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा को नुकसान हुआ है। वहीं, न्यूजीलैंड दौरे में बेहतरीन फॉर्म में दिखे श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और शुभमन गिल को फायदा हुआ है। विराट एक स्थान नीचे खिसककर आठवें पायदान पर आ गए हैं। वहीं, रोहित भी एक स्थान के नुकसान के साथ नौवें पायदान पर आ गए हैं। सीरीज में अर्धशतक जड़ने से अय्यर छह पायदान और गिल तीन पायदान की छलांग से 27वें और 34वें स्थान पर पहुंच गए हैं। संजू सैमसन को वनडे सीरीज में केवल एक अवसर मिला। न्यूजीलैंड के

खिलाफ पहले वनडे मैच में उन्होंने जो 36 रन बनाए, उससे उन्हें 10 स्थान की छलांग लगाकर 82वें स्थान पर पहुंचने में मदद मिली। शिखर धवन को शुरूआती वनडे में अर्धशतक जड़ने के बावजूद हालांकि दो पायदान का नुकसान हुआ।

बल्लेबाजों में सबसे बड़ी छलांग न्यूजीलैंड के टॉम लाथम ने लगाई है। उन्होंने भारत के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे मैच में 104 गेंदों में नाबाद 145 रन बनाए थे। इस पारी के चलते उन्होंने 10 स्थान की छलांग लगाई है और बल्लेबाजों की रैंकिंग में 18वें स्थान पर आ गए हैं। इसी मैच में केन विलियमसन ने 98 गेंदों में नाबाद 94 रन बनाए थे और एक स्थान के फायदे के साथ वह 10वें स्थान पर आ गए हैं। वनडे की बल्लेबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम टॉप पर काबिज हैं। पाकिस्तान के ही इमाम उल हक दूसरे नंबर पर मौजूद हैं।



केएल राहुल छिपा रहे थे शादी की तारीख बीसीसीआई अधिकारी ने खोल दिया राज

नयी दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल लंबे समय से फिल्म अभिनेत्री अथिया शेट्टी से रिलेशनशिप में हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए टी-20 वर्ल्ड

केएल राहुल और अथिया के पैरेट्स ने भी दोनों की शादी को लेकर ठीक है गुलाकात



के दौरान दोनों को साथ देखा गया था, जिसके बाद उनकी शादी की चर्चाएं शुरू हो गईं। वहीं, अथिया के पिता सुनील शेट्टी ने भी दोनों की शादी को लेकर बयान दिया था। बताया जा रहा है कि राहुल और अथिया के पैरेट्स ने भी दोनों की शादी को लेकर मुलाकात की है। अब खबर आ रही है कि केएल राहुल नए साल की शुरूआत में

अथिया शेट्टी के संग शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। केएल राहुल ने बाकायदा इसके लिए बीसीसीआई से छुट्टी भी मांगी है और उनकी छुट्टी को अप्रुव ल भी मिल चुका है। केएल राहुल फिलहाल बांग्लादेश के दौरे की तैयारियों में जुटे हैं। 4 दिसंबर

से टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा शुरू हो रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले भारतीय टीम तीन वनडे की सीरीज खेलेगी और इसके बाद दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलेगी। टेस्ट सीरीज 26 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। इसके बाद टीम इंडिया को

सुनील शेट्टी ने भी की थी पुष्टि

बता दें कि हाल ही में सुनील शेट्टी ने भी वेब सीरीज धारावी बैंक के रिलीज इवेंट के दौरान बेटी अथिया शेट्टी और राहुल की शादी को लेकर पुष्टि की थी। उस दौरान सुनील शेट्टी ने शादी के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि अथिया और राहुल जल्द ही शादी करेंगे। इसलिए अब केएल राहुल के सीरीज के दौरान ब्रेक को उनकी शादी से जोड़कर देखा जा रहा है।

श्रीलंका के खिलाफ भारत में टी-20 और वनडे सीरीज खेलनी है, लेकिन केएल राहुल ने बांग्लादेश दौरे के बाद बीसीसीआई से छुट्टी मांगी है। उनकी छुट्टी को अप्रुव कर दिया गया है, ऐसे में राहुल श्रीलंका के खिलाफ ब्रेक पर रहेंगे। बीसीसीआई के अधिकारी ने की पुष्टि : मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केएल राहुल और

विराट कोहली के गेमचेंजर सिक्स पर हारिस रऊफ बोले -

दिनेश कार्तिक या हार्दिक मारते तो बर्दाश्त नहीं होता



नयी दिल्ली (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैलबर्न में खेला गया मैच काफी रोमांचक रहा था। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की 53 गेंद पर 82 रन की पारी को मदद से टीम इंडिया ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया की पारी के 19वें ओवर में विराट कोहली ने हारिस रऊफ की गेंद पर दो शानदार छक्के

जड़े थे। इन दोनों शांत की काफी तारीफ हुई थी। अब हारिस रऊफ ने इसे लेकर कहा है कि विराट कोहली के बजाय दिनेश कार्तिक या हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा होता तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। हारिस रऊफ ने माना कि विराट कोहली को छोड़कर कोई और बल्लेबाज उनकी गेंद पर ऐसा शांत नहीं खेल पाता। हारिस रऊफ ने विराट कोहली को लेकर

क्रिकेट को कहा कि जिस तरह से वह विश्व कप में खेले वह उनका क्लास है। हम सभी जानते हैं कि वह किस तरह के शांत खेलते हैं। जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे, मुझे नहीं लगता कि कोई और खिलाड़ी मेरी गेंद पर ऐसा शांत मार सकता है।

हारिस रऊफ ने आगे कहा कि अगर दिनेश कार्तिक या हार्दिक पांड्या ने छक्के मारे होते तो मुझे दुख होता, लेकिन वह कोहली के बल्ले से निकले और उनका क्लास एकदम अलग है। बैक-ऑफ-द-लेंथ स्लोर बॉल डालने की योजना थी, क्योंकि स्कवायर बाउंड्री बड़ी थी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इस लेंथ पर डाउन द ग्राउंड शांत मार सकते हैं। उन्होंने अपनी क्लास से मुझे शांत मारा। मेरी प्लान ठीक था, लेकिन वह काफी क्लास वाला शांत था।

आईपीएल 2023

23 दिसम्बर से शुरू होगा मेगा ऑक्शन कोच्चि में खिलाड़ियों की लगेगी बोली



कोच्चि (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। ऐसे में 23 दिसम्बर को कोच्चि में खिलाड़ियों का मेला लगेगा। जहां एक बार फिर से आईपीएल ऑक्शन में खिलाड़ियों की बोली लगायी जाएगी। खिलाड़ियों की इस लिस्ट में केन विलियमसन, जो रूट, सैम कुर्रन, बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर्स के नाम शामिल हैं। बता दें कि आईपीएल के आगामी ऑक्शन से पहले सभी फ्रैंचाइजियों ने कुल 85 खिलाड़ियों को रिलीज किया है।

क्यास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कई स्टार खिलाड़ियों पर टीमों बड़ी बोली लगा सकती है। हालांकि, इससे पहले सभी फ्रैंचाइजियों ने बीसीसीआई से आईपीएल ऑक्शन की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। जिसे लेकर बीसीसीआई ने इंकार कर दिया था। 2023 के लिए मिनी ऑक्शन में इस बार सैम कुर्रन से लेकर बेन स्टोक्स, केन विलियमसन, एलेक्स हेल्स, आदिल राशिद, कैमरून ग्रीन और

किस टीम के पास कितना है बजट?

- सनराइजर्स हैदराबाद : 42.25 करोड़ रुपये।
- पंजाब किंग्स : 32.2 करोड़ रुपये।
- लखनऊ सुपर जायंट्स : 23.35 करोड़ रुपये।
- मुंबई इंडियंस : 20.55 करोड़ रुपये।
- चेन्नई सुपर किंग्स : 20.45 करोड़ रुपये।
- दिल्ली कैपिटल्स : 19.45 करोड़ रुपये।
- गुजरात टायटंस : 19.25 करोड़ रुपये।
- राजस्थान रॉयल्स : 13.2 करोड़ रुपये।
- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर : 8.75 करोड़ रुपये।

तमाम बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जाहिर है कि मिनी ऑक्शन से पहले सभी फ्रैंचाइजियों द्वारा कुल 163 खिलाड़ी रिटैन किए गए हैं। तो वही कुल 85 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है।

Infants need a hair care routine to help...

Lock the moisture and prevent dryness

Soothe dry scalp

Manage scalp problems

Smoothen and protect the hair

Make hair stronger and promote hair growth

Coconut Oil: Helps to nourish the scalp & hair

Almond Oil: Helps to nourish & soften the hair

Olive Oil: Slings, oily & lustre to hair

Sesame Oil: Helps to nourish the hair

Amla: Known to Strengthen & Reported to promote hair growth

Gotu Kola: Helps to improve hair growth & density

Bhringraj: Helps to improve strength and colour of hair

Fenugreek: Helps to improve the strength of hair & promote hair growth